



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 19]

नई दिल्ली, मई 6—मई 12, 2012, शनिवार/वैशाख 16—वैशाख 22, 1934

No. 19]

NEW DELHI, MAY 6—MAY 12, 2012, SATURDAY/VAISAKHA 16—VAISAKHA 22, 1934

भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पुस्तक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2012

का. आ. 1590.—केंद्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, गृह विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना सं. एफ. 4-26/गृह-सी/2012 दिनांक 16-03-2012 द्वारा प्राप्त सहमति से श्री राहुल शर्मा, भा.पु.से. की अप्राकृतिक मृत्यु के संबंध में पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, में पंजीकृत अप्राकृतिक मृत्यु काण्ड संख्या 30/12 के संबंध में अन्वेषण एवं जांच करने तथा प्रयास करने, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अथवा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध या अपराधों का अन्वेषण करने के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर करती है।

[फ.नं. सं. 228/29/2012-एवीडी-II]

राजीव जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the, 30th April, 2012

S. O. 1590.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Chhattisgarh Home Department, D.K.S. Bhawan, Mantralaya, Raipur vide Notification F-4-26/Home-c/2012 dated 16-03-2012, hereby extends the powers and Jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Chhattisgarh for investigation and inquiry of Case No. 30/12 registered at Police Station Civil Lines, Bilaspur, District Bilaspur relating to unnatural Death of Shri Rahul Sharma, IPS and attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with the above mentioned offence and any other offence or offences committed in course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F.No. 228/29/2012-AVD-II]

RAJIV JAIN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2012

का.आ. 1591.—केन्द्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथासंशोधित 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के नियंत्रणायधीन निम्नलिखित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं/बीमा कंपनियों की शाखाओं/कार्यालयों को, जिनके 80% से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है।

क्रम सं.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ बीमा कंपनियों के नाम (संलग्न सूची के अनुसार)	शाखाओं/कार्यालयों की संख्या
1.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	161
2.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	150
3.	पंजाब नेशनल बैंक	160
4.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	71
5.	सिडिकेन बैंक	57
6.	कार्पोरेशन बैंक	53
7.	केनरा बैंक	13
8.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	14
9.	इंडियन बैंक	11
10.	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	07
11.	भारतीय रिजर्व बैंक	03
12.	दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	02
कुल		642

[सं. 11016/1/2012-हिन्दी]

चन्द्रप्रकाश ढौंडियाल, संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

टिप्पणी : अनुरोध है कि अधिसूचना की एक प्रति सेवाएं विभाग को अवश्य भेजी जाए।

औरंगाबाद अंचल

1. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

हिन्दी शाखा

लोकधर किन्ही तालुका भोकर,

जिला नांदेड,

महाराष्ट्र-431801

2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

उमरखेड शाखा

संपति संख्या 118, इंदिरा गांधी वार्ड,

उमरखेड जिला यवतमाल-

महाराष्ट्र-445206

3. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

श्रीरूर अनंतपाल शाखा

श्री वी वी धुमाले का घर,

बी एस एन एल, एक्सचेंज के पास,

श्रीरूर तालुका अनंतपाल,

जिला लालूर -413544,

महाराष्ट्र

4. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

जामनेर शाखा

अनंतवाडी, आइस फैक्टरी के पास

एच एन-2193, सीटीएस-3914

जामनेर जिला जलगांव -424206,

महाराष्ट्र

5. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

फैजपुर शाखा

सुभाष चौक, सीटीएस-1846/1847, मेन

मार्केट फैजपुर-425503 जलगांव

महाराष्ट्र

6. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

संगोला शाखा

ज्ञानेश्वर कॉम्प्लेक्स, नेवार महात्मा फुले

चौक, हाइवे रोड, जिला सोलापुर-431307

महाराष्ट्र

7. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

घाटनांदूर शाखा

मेन रोड घाटनांदूर,

तालुका अंबाजोगाई, जिला बीड-431519

महाराष्ट्र

8. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

पूर्णा शाखा

महावीर नगर, पूर्णा, जिला परभणी-431511

महाराष्ट्र

9. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

चिखली शाखा

खंडालर रोड के पास,

बस स्टैंड के पीछे, चिखली,

जिला बुलढाणा-443201,

महाराष्ट्र

10. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

अर्धापुर शाखा

बेग कॉम्प्लेक्स, हनुमान चौक,

मेन रोड, अर्धापुर, जिला नांदेड-431704

महाराष्ट्र

11. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

मुकरमाबाद शाखा

गुजलवार संजय नरसिंह राव,

मुकरमाबाद, तालुका मुखेड

जिला नांदेड, महाराष्ट्र

12. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
औसा शाखा
वागदारा काम्प्लेक्स, मेन रोड,
औसा जिला लातूर,
महाराष्ट्र-413520
 13. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
श्रीरुर ताजबंद शाखा
एच एम पाटिल काम्प्लेक्स,
श्रीरुर ताजबंद जिला लातूर-
महाराष्ट्र -413514
 14. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
वाशी शाखा
म. न. 1417, मेन मार्केट, बस स्टैंड के पास,
वाशी, तालुका वाशी जिला उस्मानाबाद-
महाराष्ट्र
 15. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
लासलगांव शाखा
गाला न-डी/1 राधाई
संकुल, मार्केटरोड, लासलगांव,
जिला नासिक,
महाराष्ट्र -422306
 16. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
निफाड शाखा
प्लॉट नं 11-सीटीएस नं.-1772-ए-बी,
बागमर एस्टेट, निफाड जिला नासिक,
महाराष्ट्र -422303
 17. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
सिन्नर शाखा
गुट नं-926, सिन्नर कालेज के पास,
नासिक पुणे रोड तालुका सिन्नर,
जिला नासिक,
महाराष्ट्र -422103
 18. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
कलेक्ट्रेट काम्प्लेक्स लातूर शाखा
कलेक्टर ऑफिस बिल्डिंग, लातूर,
महाराष्ट्र -413531
 19. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
अंबाजोगाई रोड
लातूर शाखा
वेकटेश नगर, अंबा हनुमान मंदिर के सामने,
अंबाजोगाई रोड, लातूर
महाराष्ट्र -413531
 20. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
रेनापुर शाखा
म नं-2376, रेनापुर, लातूर,
महाराष्ट्र-413527
 21. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
मार्केट यार्ड लातूर शाखा
प्लॉट नं-10/11 होटेल पदम
बिल्डिंग्स, मार्केटयार्ड गेट नं-2 के सामने,
कावा रोड, मंथले नगर लातूर जिला
महाराष्ट्र -413514
 22. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
गुरुद्वारा नांदेड शाखा
दशमेश हास्पिटल कंपाउंड गुरुद्वारा गेट नं-2
नांदेड, महाराष्ट्र -431602
 23. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
बराड शाखा
ग्राम पंचायत काम्प्लेक्स,
बराड तालुका-मुखेड जिला, नांदेड,
महाराष्ट्र -431745
 24. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
देगलूर नाका शाखा
सं-9-4-1350, चावलवाला काम्प्लेक्स,
देगलूर नाका नांदेड,
महाराष्ट्र -431602
 25. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
एस आर टी एम यूनिवर्सिटी नांदेड शाखा
म नं-218, सैनिक त्रिवास,
गवर्नमेंट मेडिकल कालेज के सामने,
विष्णुपुरी, नांदेड,
महाराष्ट्र -431601
- नई दिल्ली**
26. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
अनुगुल शाखा (21195)
अनुगुल - 759122
कटक (जिला)
ओडिशा (राज्य)
 27. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
बादशाहपुर शाखा (21309)
1420, रामा काम्प्लेक्स, मेन सोहना रोड
एसबीआई के नजदीक, बादशाहपुर
बादशाहपुर - 122101
गुडगाँव (जिला)
हरियाणा (राज्य)

28. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
बेरहमपुर शाखा (20602)
स्टेशन रोड, हिलपटना
बेरहमपुर - 760005
गंजम (जिला)
ओडिशा (राज्य)
29. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
भुवनेश्वर - चंद्रशेखरपुर शाखा (21187)
जिला केन्द्र, चंद्रशेखरपुर
भुवनेश्वर - 751016
ओडिशा (राज्य)
30. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
भुवनेश्वर शाखा (20549)
भूतल, इपीकोल हाउस
जनपथ, यूनिट- IX
भुवनेश्वर - 751022
ओडिशा (राज्य)
31. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
भुवनेश्वर - जगमरा शाखा (20725)
जगमरा, खंडगिरी
भुवनेश्वर 751030
ओडिशा (राज्य)
32. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
भुवनेश्वर - गोडा गोपीनाथ शाखा (20724)
217, नारायणी मोटर्स
कटक रोड
झरपाड़ा, कटक रोड
भुवनेश्वर - 751006
ओडिशा (राज्य)
33. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
कटक-बाडमबाडी शाखा (21068)
लिक रोड, अरुणोदया मार्केट के नजदीक
कटक (जिला)
ओडिशा (राज्य)
34. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
भुवनेश्वर - राजमहल स्क्वेयर शाखा (21194)
प्लॉट सं 7, प्रथम तल,
शकुन्तला भवन, राजमहल स्क्वेयर,
अशोक नगर भुवनेश्वर-751009
ओडिशा (राज्य)
35. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
सीएसी, कैलारा कॉलोनी शाखा (21079)
36, कम्युनिटी सेंटर
एलीट हाउस, जमरपुर, कैलारा कॉलोनी
नई दिल्ली - 110048
नई दिल्ली (जिला)
दिल्ली (राज्य)
36. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
कटक- बिजुपटनायक चौक शाखा (20722)
926/1046, प्लॉट सं 661/866, कनिका चाक,
तुलसीपुर, कटक जिला - 753008
ओडिशा (राज्य)
37. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
दिल्ली - करोल बाग शाखा (20918)
ईस्ट पार्क रोड, करोल बाग
नई दिल्ली - 110005
नई दिल्ली (जिला)
दिल्ली (राज्य)
38. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
दिल्ली - कड़कड़ूमा शाखा (21375)
म.स. 05, हरगोविंद एनक्लेव
नई दिल्ली - 110092
दिल्ली (राज्य)
39. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
दिल्ली - पटपड़गंज शाखा (21310)
बी-139, कुमाऊ स्क्वेयर
पश्चिम विनोद नगर
नई दिल्ली - 110092
40. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
दिल्ली - पश्चिम बिहार शाखा (21277)
मीरा बाग, पश्चिम बिहार शाखा
नई दिल्ली - 110087
नई दिल्ली (राज्य)
41. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
दिल्ली - रासमेक शाखा (21016)
डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग
नई दिल्ली - 110005
नई दिल्ली (राज्य)
42. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
दिल्ली - पीतमपुरा शाखा (21224)
एच पी -6, मौर्य एनक्लेव
गोपाल मंदिर के सामने, पीतमपुरा
नई दिल्ली - 110088
नई दिल्ली (राज्य)
43. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
दिल्ली - विकासपुरी शाखा (21276)
नई दिल्ली - 110018
दिल्ली (राज्य)
44. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
दिल्ली - रोहिणी शाखा (21223)
ब्लॉक सं. ई-2/25, भू तल
सेक्टर -7, रोहिणी
नई दिल्ली - 110085
दिल्ली (राज्य)

45. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
गाजियाबाद - इन्द्रपुरम शाखा (21318)
भूतल, हॉल सं-2,
ग्राविटी माल, गौर ग्रीन सिटी, वैभव
खण्ड 8, इन्द्रपुरम गाजियाबाद - 201014
गाजियाबाद (जिला)
46. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
गुडगांव - सेक्टर-10ए शाखा (21234)
एससीओ 87, हुडा मार्केट
खाण्डसा रोड, सेक्टर 10ए
गुडगांव (जिला) - 122001
हरियाणा (राज्य)
47. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
गुडगांव - ओल्ड रेलवे रोड शाखा (21244)
646, बी/9, कबीर भवन चौक
ओल्ड रेलवे रोड, सुभाषनगर,
गुडगांव (जिला) - 122001
हरियाणा (राज्य)
48. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
कोलकता- ब्रबोर्न रोड
(बड़ा बाजार) शाखा (20360)
कोलकता- 700001
कोलकता- (जिला)
पश्चिम बंगाल (राज्य)
49. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
इंदौर - आर एन टी मार्ग शाखा (21090)
यूजी 3, कारपोरेट हाउस
इंदौर - 452001
इंदौर (जिला)
मध्य प्रदेश (राज्य)
50. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
कोलकता- वै एवं से बै शाखा (20806)
शरत बोस रोड, देशप्रिया पार्क के सामने
कोलकता- 700026
कोलकता- (जिला)
पश्चिम बंगाल (राज्य)
51. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
कोलकता- हाथक, शाखा (20811)
72, जय अपार्टमेंट
पंचाननतला रोड हाथक - 711101
कोलकता- (जिला)
पश्चिम बंगाल (राज्य)
52. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
कोलकता- राजर हाट शाखा (21347)
भूतल, नेचुरल नेस्ट
मेन रोड, चरनोक अस्पताल के पास
राजरहाट मेगा सिटी- 700059
कोलकता- (जिला)
पश्चिम बंगाल (राज्य)
53. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
कोलकता- पार्क स्ट्रीट शाखा (20833)
113 पार्क स्ट्रीट, पोदार पाईट
कोलकता- 700016
कोलकता- (जिला)
पश्चिम बंगाल (राज्य)
54. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
लखनऊ - अलीगंज शाखा (21168)
93, एच आई जी, सेक्टर - ई
जी एस आई, रोड, अलीगंज
लखनऊ - 226024
लखनऊ - (जिला)
उत्तर प्रदेश - (राज्य)
55. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
कोलकता-साल्टलेक सिटी शाखा (21258)
सी एफ 330, सेक्टर - 1
कोलकता - 700064
कोलकता - (जिला)
पश्चिम बंगाल - (राज्य)
56. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
पारादीप शाखा (21212)
प्लॉट सं 447/30, निगम निवास
बिजयचंद्रापुर, इफको चौक
पारादीप - 754142
जगतसिंगपुर - (जिला)
ओडिशा - (राज्य)
57. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
लुधियाना - फिरोजपुर शाखा (21346)
होटल पार्क के सामने, फिरोजपुर रोड
लुधियाना - 141001
लुधियाना - (जिला)
पंजाब - (राज्य)
57. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
लुधियाना - फिरोजपुर शाखा (21346)
होटल पार्क के सामने, फिरोजपुर रोड
लुधियाना - 141001
लुधियाना - (जिला)
पंजाब - (राज्य)

58. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
दिल्ली - जनकपुरी शाखा (21275)
नई दिल्ली - 110058
दिल्ली (राज्य)

59. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली
882, प्रथम तल
ईस्ट पार्क रोड, करोलबाग
नई दिल्ली - 110005
दिल्ली (राज्य)

60. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
वजीरपुर शाखा (21274)
पटौदी रोड, वी.पी.ओ. वजीरपुर
गुडगाँव - 122505
गुडगाँव (जिला)
हरियाणा (राज्य)

61. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
जिरकपुर शाखा (21317)
शोरुम सं 6 -6 ए, भूतल
टागगर टावर, बालाजी एनक्लेव,
पटियाला रोड
जिरकपुर - 140603
चंडीगढ़ जिला
पंजाब - (राज्य)

गुलबर्गा अंचल

62. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
सेवा शाखा
प्रथम तल, अंचल कार्यालय बिल्डिंग
गुलबर्गा - 585101
कर्नाटक - (राज्य)

63. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
एचआरबीआर लेआउट शाखा
06, 3वां ब्लॉक, नेहरु रोड
एचआरबीआर लेआउट
कम्मनहल्ली बेंगलूर - 560084
बेंगलूर (जिला)
कर्नाटक - (राज्य)

64. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
एचएसआर लेआउट शाखा (21157)
945, 5वां मेन, 21वां क्रॉस, सैक्टर -7
बेंगलूर - 560102
बेंगलूर (जिला)
कर्नाटक - (राज्य)

65. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
इंदिरानगर शाखा
100 फुट रोड, इंदिरानगर, 1 स्टेज
बेंगलूर - 560038
बेंगलूर (जिला)
कर्नाटक - (राज्य)

66. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
बेंगलूर - जे पी नगर शाखा (20979)
72/1 बी, जगनहल्ली,
कनकपुरा मेन रोड
जे पी नगर, 6 वाँ फेस,
बेंगलूर (जिला)
कर्नाटक - (राज्य)

67. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
महालक्ष्मी लेआउट शाखा (21158)
13वाँ क्रॉस, महालक्ष्मी लेआउट
बेंगलूर - 560086
बेंगलूर (जिला) -
कर्नाटक - (राज्य)

68. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
मारधहल्ली शाखा (21033)
#90 1तल, चिन्नप्पनहल्ली, आनंदनगर
आउटर रिंग रोड-560037
बेंगलूर (जिला)
कर्नाटक - (राज्य)

69. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
बेंगलूर रासमेक शाखा
जेसी रोड, ओल्ड शिवाजी थिएटर के पास,
बेंगलूर - 560002
बेंगलूर (जिला)
कर्नाटक - (राज्य)

70. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
चंद्रा लेआउट शाखा
80 फुट रोड,
चंद्रा लेआउट
बेंगलूर - 560040
बेंगलूर (जिला)
कर्नाटक - (राज्य)

71. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
हसन शाखा
काम्प्लेक्स, बस स्टैंड रोड,
हसन- 573201
हसन(जिला)
कर्नाटक - (राज्य)

72. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
खटक चिचोली शाखा (20467)
2561, कड़गंची बसव मंदिर,
खटक चिचोली
तालुका भालकी - 585429
बीदर (जिला)
कर्नाटक - (राज्य)

73. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
भीमारायणगुडी शाखा (20402)
यूकेपी काडा कैप, भीमारायणगुडी
शाहापुर - 585287
गुलबर्गा (जिला)
कर्नाटक - (राज्य)

हैदराबाद अंचल

74. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
आदर्शनगर शाखा (20263)
5-9-22/113, गुरुकृपा
हिल फोर्ट रोड, आदर्शनगर
हैदराबाद - 500063
हैदराबाद (जिला)
आन्ध्र प्रदेश - (राज्य)
75. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
केन्द्रीकृत समाशोधन प्रसंस्करण केन्द्र (20577)
म.सं. 3-5-804 एवं 3-5-804/2 द्वितीय तल,
हैदरगुडा, हैदराबाद - 500029
हैदराबाद (जिला)
आन्ध्र प्रदेश - (राज्य)
76. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
सिटी शाखा (20073)
प्रथम तल, चारमिनार होटल बिल्डिंग
सालारजंग म्यूजियम रोड, नयापुल
हैदराबाद - 500002
हैदराबाद (जिला)
आन्ध्र प्रदेश - (राज्य)
77. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
एक्विबिशन ग्राउंड्स शाखा (20065)
अजंता गेट के पास, एम जे रोड,
नामपल्ली
हैदराबाद - 500001
हैदराबाद (जिला)
आन्ध्र प्रदेश - (राज्य)
78. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
हिमायतनगर शाखा (20067)
3-5-906, स्वर्णमुखी कॉम्प्लेक्स
हिमायतनगर, हिमायतनगर चौरस्ता,
हैदराबाद - 500029
हैदराबाद (जिला)
आन्ध्र प्रदेश - (राज्य)

79. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
हुसैनी आलम शाखा (20068)
हुसैनी आलम, मूसा बौली
हैदराबाद - 500064
हैदराबाद (जिला)
आन्ध्र प्रदेश - (राज्य)
80. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
एम सी टैंकबंड शाखा (20432)
जीएचएमसी बिल्डिंग,
जीएचएमसी प्र का बिल्डिंग
मुनिसिपल कॉम्प्लेक्स, लिबर्टी, टैंकबंड रोड
हैदराबाद - 500063
हैदराबाद (जिला)
आन्ध्र प्रदेश - (राज्य)
81. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
मलकपेट शाखा (20061)
16-7-384, सहिफा मस्जिद के पास
आजमपुरा, मलकपेट
हैदराबाद - 500024
हैदराबाद (जिला)
आन्ध्र प्रदेश - (राज्य)
82. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
एन आर आई शाखा (20740)
5-9-62, खॉन लतीफ खॉन एस्टेट्स
फतेह मैदान क्लब रोड, नामपल्ली
हैदराबाद - 500001
हैदराबाद (जिला)
आन्ध्र प्रदेश - (राज्य)
83. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
उस्मानिया यूनिवर्सिटी शाखा (20071)
ओयू कैपस,
हैदराबाद - 500007
हैदराबाद (जिला)
आन्ध्र प्रदेश - (राज्य)
84. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
पुरानापुल शाखा (20088)
14-10-1284 एवं 1286, प्रथम तल
गान्धी की प्रतिमा (स्टेच्यु) के सामने,
पुरानापुल जंक्शन
हैदराबाद - 500006
हैदराबाद (जिला)
आन्ध्र प्रदेश - (राज्य)
85. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
आर ए सी पी सी शाखा (20994)
4-1-327 से 337 4वां तल, सागर प्लाजा
बैंक स्ट्रीट, अबिड्स
हैदराबाद - 500001
हैदराबाद (जिला)
आन्ध्र प्रदेश - (राज्य)

86. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
सैदाबाद शाखा (20345)
17-2-626/38, एसबीएच सैदाबाद
धोबी घाट चौरस्ता के पास, सैदाबाद
हैदराबाद - 500059
हैदराबाद (जिला)
आन्ध्र प्रदेश - (राज्य)
87. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
एस एम ई सी सी सी शाखा (21122)
3-5-804/2, भारतीय विद्याभवन के पास,
हैदरागुडा
हैदराबाद - 500029
हैदराबाद (जिला)
आन्ध्र प्रदेश - (राज्य)
88. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
विद्यानगर शाखा (20095)
1-9-647, डॉ के एल राव रेसिडेन्सी
अडिकमेट रोड, विद्यानगर
हैदराबाद - 500044
हैदराबाद (जिला)
आन्ध्र प्रदेश - (राज्य)
89. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
दोंडपाडु (नलगोंडा जिला) शाखा (20398)
सीतापुरम कॉलोनी, दोंडपाडु
मेल्लाचेरु मंडल - 508246
नलगोंडा (जिला)
आन्ध्र प्रदेश - (राज्य)
90. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
खारघर शाखा
एकता एवेन्यू
शॉप नं 5-8, सेक्टर -12
गोखले हाईस्कूल के पास, खारघर
नई मुम्बई -410210
91. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
न्यू सी जी रोड शाखा
सरजन-II, सराह को-आपरेटिव सोसायटी,
भूमि तल, शॉप नं 29-34
न्यू सी जी रोड, चाँदखेडा,
अहमदाबाद
92. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
सीसीपीसी पुणे शाखा
गोखले हाल के सामने,
लक्ष्मी रोड,
पुणे -411030
93. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
घोडबन्दर रोड शाखा
सरस्वती विद्यालय बिल्डिंग,
शॉप नं 1-5, भूमितल,
कावेसर, घोडबन्दर रोड,
ठाणे (पश्चिम) -400601
94. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
हडपसर शाखा, फरेना
हडपसर, मगरपट्टा के पास
पुणे- 411028
95. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
सीवुड्स शाखा
श्रीजी हाईट्स
भूतल, प्लाट नं 1, सेक्टर -46 ए,
पाम बीच रोड, नेरुल ईस्ट,
नवी मुम्बई -400706
96. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
खडकपाडा शाखा
बृंदावन वाटिका, भूमि तल,
रिलाइन्स फ्रेश/सिनेमैक्स के सामने
केडीएमसी, बी वार्ड कार्यालय के सामने,
खडकपाडा, कल्याण (पश्चिम)
जिला ठाणे-421301
97. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
विरार शाखा
क्षितिज बिल्डिंग, शॉप नं 20-28,
गोकुल टाउनशिप,
अगाशी रोड,
विरार पश्चिम,
जिला ठाणे-421303
98. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
कोलशेट रोड शाखा
वक्रतुण्ड रेजीडेंसी, भूतल दुकान सं. 1-6,
ढाकोली नाका, कोलशेट रोड,
ठाणे (पश्चिम)-400602
99. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
रासमेक शाखा
वार्डन हाउस, भूति तल,
प्लांट नं 65, सेक्टर 11, के स्टार होटल के पास,
सी बी डी बेलापुर,
नवी मुंबई-400614
100. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
मीरा रोड शाखा
रश्मी प्राइम कार्नर
कनकिया पुलिस स्टेशन के सामने, प्रथम तल,
मीरा भयांदर रोड के पास
मीरा रोड (पूर्व)-401107

मुंबई क्षेत्र

101. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
रासमेक शाखा
मानेक महल, 501-502,
5वाँ तल, 90,
वीर नरीमन रोड,
चर्चगेट, मुंबई-400021

निजामाबाद अंचल

102. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
निजामाबाद- सेवा शाखा
5-7-663/3, एपी राजस्व सेवा संघ बिल्डिंग
प्रथम तल, कलेक्टरेट कॉम्प्लेक्स
निजामाबाद-503001
निजामाबाद (जिला),
आंध्र प्रदेश (राज्य)
103. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
क्षेत्र-I-निजामाबाद
5-1-85, 86, क्षेत्रीय कार्यालय
निजामाबाद-503001
निजामाबाद (जिला),
आंध्र प्रदेश (राज्य)
104. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
क्षेत्र-II-निजामाबाद (अदिलाबाद)
स्टेशन रोड, शिवाजी चौक
अदिलाबाद-504001
अदिलाबाद (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
105. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
अंचल कार्यालय, निजामाबाद
द्वितीय तल, केएनएआर एस्टेट्स
निजामाबाद-503001
निजामाबाद (जिला),
आंध्र प्रदेश (राज्य)
106. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
क्षेत्र-III-निजामाबाद (मंचेरियाल)
12-907/2, प्रथम तल, एस बी एच मुख्य शाखा
एन एच रोड, रेड्डी कॉलोनी
मंचेरियाल-504208
अदिलाबाद (जिला),
आंध्र प्रदेश (राज्य)
107. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
नवीपेट शाखा
नवीपेट-503245
निजामाबाद (जिला),
आंध्र प्रदेश (राज्य)

108. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
निजामाबाद-प्रगति भवन कॉम्प्लेक्स शाखा (20961)
5-7-663/3, एपी राजस्व सेवा संघ बिल्डिंग
म्यूनिसिपल कार्पोरेशन कलेक्टरेट कॉम्प्लेक्स के सामने,
निजामाबाद-503001
निजामाबाद (जिला),
आंध्र प्रदेश (राज्य)
109. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
किसान नगर शाखा
3-95/2, स्टेट बैंक मेन रोड,
बालकोंडा मंडल
किसान नगर-503218
निजामाबाद (जिला),
आंध्र प्रदेश (राज्य)
110. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
माचारेड्डी शाखा
6-84/3, माचारेड्डी मंडल
माचारेड्डी-503111
निजामाबाद (जिला),
आंध्र प्रदेश (राज्य)
111. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
जुक्कल शाखा
बस स्टैंड रोड,
जुक्कल-503305
निजामाबाद (जिला),
आंध्र प्रदेश (राज्य)
112. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
कामारेड्डी - इन्दिरा नगर शाखा
साई बाबा टेम्पल लेन, विद्यानगर कॉलोनी
कामारेड्डी-503111
निजामाबाद (जिला),
आंध्र प्रदेश (राज्य)
113. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
आरमूर शाखा
एम जी रोड, आरमूर मेन रोड
आरमूर-503224
निजामाबाद (जिला),
आंध्र प्रदेश (राज्य)

सिकन्दराबाद अंचल

114. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
बोडुप्पल शाखा (21159)
प्लॉट सं. 43, ओम बिल्डिंग
अव्यप्पा स्वामी टेंपुल रोड,
श्रीनिवास कॉलोनी
बोडुप्पल-500039
रंगारेड्डी (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)

115. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
चंदानगर शाखा (21235)
एम आई जी-8, हुडा कॉलोनी,
तारा नगर, सेरिलिंगमपल्ली,
रेलवे स्टेशन के पास
हैदराबाद-500039
रंगारेड्डी (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
116. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
डिफेंस कॉलोनी शाखा (21325)
फ्लैट सं 18, जी के कॉलोनी,
सिकन्दराबाद-500056
हैदराबाद (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
117. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
हयातनगर शाखा (21096)
हैदराबाद-501505
रंगारेड्डी (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
118. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
आई आई सी टी, हब्सीगुडा शाखा (21045)
उप्पल रोड, तारनाका
हैदराबाद-500007
हैदराबाद (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
119. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
माधापुर शाखा (21162)
प्लॉट सं. 45, 46 एवं 47,
सर्वे सं. 10, मेन रोड,
माधापुर पेट्रोल पंप के पास
सेरिलिंगमपल्ली,
माधापुर-500081
रंगारेड्डी (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
120. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
मियापुर शाखा (21300)
11, 12 जयभारती कल्पना कॉम्प्लेक्स,
मियापुर चौरस्ता के पास
मियापुर, हैदराबाद-500049
हैदराबाद (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
121. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
नाचारम शाखा (21101)
ए 37, ए पी फुड्स कॉम्प्लेक्स,
रोड सं-14, आई डी ए नाचारम
हैदराबाद-500076
हैदराबाद (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
122. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
नागोल शाखा (21056)
2-3-916, रोड सं. 1,
अरुणोदयनगर, नागोल
हैदराबाद-500068
रंगारेड्डी (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
123. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
कोडकंड्ला शाखा (20447)
3-39, राजीव राहदारी, कोडकंड्ला गाँव
गजवेल मंडल-502312
मेदक (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
124. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
एन आई एस ए, हकीमपेट शाखा (21051)
शामीपेट-500078
रंगारेड्डी (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
125. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
क्षेत्र-I
अंचल कार्यालय, सिकन्दराबाद
1-11-251/19ए, II तल
मोतीलाल नगर लेन,
प्रकाश नगर, बेगमपेट
हैदराबाद-500016
हैदराबाद (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
126. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
क्षेत्र-II
अंचल कार्यालय, सिकन्दराबाद
1-11-251/19ए, II तल
मोतीलाल नगर लेन,
प्रकाश नगर, बेगमपेट
हैदराबाद-500016
हैदराबाद (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
127. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
क्षेत्र-III
अंचल कार्यालय, सिकन्दराबाद
1-11-251/19ए, II तल
मोतीलाल नगर लेन,
प्रकाश नगर, बेगमपेट
हैदराबाद-500016
हैदराबाद (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)

तिरुपति अंचल

128. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
अंचल कार्यालय,
19-3-13(एम)
रेणिगुंटा रोड
तिरुपति- 517501
129. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्र-1
19-3-13(एम)
रेणिगुंटा रोड
तिरुपति- 517501
130. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
एसटीवी नगर शाखा,
एआईआर बाईपास रोड,
एसटीवी नगर
तिरुपति- 517501
131. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
चेन्नई रोड शाखा
अप्सरा थिएटर के पास,
कडप्पा- 516002
132. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
गदवाल शाखा,
सन कुलम्मा मेट्टु,
आरटीसी बस स्टैंड के सामने,
गदवाल- 509125
133. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
नंदयाल शाखा
देशपांडे भवन,
टेक्के नूनेपल्ली रोड
नंदयाल- 518502
134. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
जकलेर शाखा
बैंक स्ट्रीट,
जकलेर- 509353
135. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
नवाबपेट शाखा
मरिकल रोड
नवाबपेट- 509343
136. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
गुंदूर- आटोनगर शाखा (21231)
प्लॉट सं. 316 ए, पहली मंजिल
फेज 1 एवं 2, इंदिरा आटोनगर
गुंदूर- 522001
गुंदूर (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)

विशाखपट्टणम अंचल

137. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
आचंटा शाखा (21248)
आचंटा- 534123
पश्चिम गोदावरी (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
138. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
रायनपाडु शाखा (20397)
5-58, रेलवे बेट के नजदीक, रायनपाडु- 521241
कृष्णा (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
139. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
भीमडोल शाखा (21237)
भीमडोल-534425
पश्चिम गोदावरी (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
140. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
भोगपुरम शाखा (21156)
7-187, पहली मंजिल
सा मिल के सामने, एन एच-5 रोड
भोगपुरम- 535216
विजयनगर (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
141. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
वैजाग-सीएसी, सूर्यबाग शाखा (21077)
सूर्यबाग
विशाखपट्टणम-530016
विशाखपट्टणम (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
142. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
दुव्वाडा शाखा (21297)
31-56-4/2, पहली मंजिल
रेलवे स्टेशन रोड,
वीएचईडब्ल्यू प्लाई ओवर ब्रिज के सामने
कुरमनपालेम, दुव्वाडा- 530046
विशाखपट्टणम (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
143. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
द्वारका तिरुमला शाखा (21250)
द्वारका तिरुमला-534425
पश्चिम गोदावरी (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
144. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
गजपतिनगरम शाखा (21288)
बालाजी अस्पताल कॉम्प्लेक्स
आरटीसी कॉम्प्लेक्स के सामने
गजपतिनगरम-535270
विजयनगर (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)

145. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
गणपवरम श्रमिका (21236)
गणपवरम-534198
पश्चिम गोदावरी (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
146. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
विजयवाडा-अजितसिंहनगर शाखा (21179)
पिपुला रोड, अजितसिंहनगर
विजयवाडा-520015
कृष्णा (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
147. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
विजयवाडा, सीएसी,
पटमटलंका शाखा (21081)
64-9-2, पहली मंजिल
एस बी एच कॉम्प्लेक्स
पटमटलंका
विजयवाडा-520014
कृष्णा (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
148. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
विजयवाडा, चिट्टी नगर
शाखा (20714)
के टी रोड चिट्टीनगर
विजयवाडा-520009
कृष्णा (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
149. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
विजयवाडा, करंसी नगर
शाखा (21148)
48-16-91, करंसी नगर के नजदीक
महानाडु रोड,
नागार्जुननगर
विजयवाडा-520080
कृष्णा (जिला)
आंध्र प्रदेश (राज्य)
- वरंगल अंचल
150. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
क्षेत्र-1, क्षेत्रीय कार्यालय
एसबीएच बिल्डिंग, जे पी एन रोड,
गिरमाजीपेट,
वरंगल -506002
151. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
क्षेत्र-2, क्षेत्रीय कार्यालय
1-5-47, एसबीएच मुख्य शाखा भवन,
टंक रोड, जुबिलीपुरा,
खम्मम -507003
152. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
क्षेत्र-3, क्षेत्रीय कार्यालय
अजमतपुरा, राजीव चौक के पास,
करीमनगर -505001
153. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
एन्कुर शाखा, 1-80,
कोत्तागुडेम रोड
एन्कुर -507168
154. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
देसाईपेट शाखा, सीकेएम कॉलेज कैम्पस,
देसाईपेट
वरंगल-506006
155. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
कोष शाखा, 1-7-702, पहली मंजिल,
नक्कलगुट्टा, हनमकोंडा
वरंगल-506001
156. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
टेकुलापल्ली शाखा,
1-24, कोत्तागुडेम रोड,
टेकुलापल्ली-507123
157. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
अदालत- हनमकोंडा शाखा
जिला न्यायालय कॉम्प्लेक्स
नक्कलगुट्टा, हनमकोंडा
वरंगल-506001
158. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
रासमेक
9-1-2, एसबीएच भवन,
जे पी एन रोड,
वरंगल-506002
159. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
फातिमानगर शाखा
24-7-34, फातिमानगर
मेन रोड, काजीपेट
वरंगल-506004
160. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
जुलुरपाडु शाखा
2-93/1, वेंगापालेम
जुलुरपाडु-507111
161. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
हनमकोंडा-सीबीएस कॉम्प्लेक्स शाखा
बस स्टेशन कॉम्प्लेक्स
हनमकोंडा,
वरंगल-506001

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

10(4) के अंतर्गत अधिसूचित करवाने हेतु सूची

162. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
खेड़ी नोध सिंह
तहसील खमानों,
जिला फतेहगढ़ साहिब
163. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
पटियाला रोड,
खरोडा-
जिला फतेहगढ़ साहिब
164. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
आंचलिक कार्यालय-III
91, भंडारी हाऊस, प्रथम तल,
नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली
165. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
कैलाश कालोनी,
नई दिल्ली
166. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
न्यू फ्रैन्ड्स कालोनी,
नई दिल्ली
167. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
देशबन्धु कालेज,
कालकाजी,
नई दिल्ली
168. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
जमालपुर चौक
गुडगांव (हरियाणा)
169. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
कृष्णा नगर
मथुरा
170. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
नारायणपुर
जिला अलवर
(राजस्थान)
171. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
नवजीवन वॉम्प्लेक्स, जिले रोड
निवाई, जिला-टाँक
राजस्थान-304401
172. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
टिकावली
फरीदाबाद
173. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
मडल, जिला भीलवाडा,
(राजस्थान)
174. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
एम ब्लॉक, कालकाजी,
नई दिल्ली
175. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
डी. जी. खेतान स्कूल बिल्डिंग,
कृष्णा रियलिटीज, सुंदर नगर के पीछे
मलाड (वेस्ट)
मुम्बई-400064
176. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
प्लाट सं. 14, सेक्टर 26 ए, कोपरी,
पाम बीच रोड, वाशी,
नवी मुम्बई-400705
177. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
पुष्पम कॉम्प्लेक्स, सीमा हाल के सामने,
आनंद नगर रोड,
सेटलाइट,
अहमदाबाद-15
178. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इलाहाबाद रोड,
जगतपुर,
जिला रायबरेली
(उ.प्र.) पिन-229402
179. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
कैस बिल्डिंग,
निकट बस स्टैंड,
जायस, जिला छत्रपति साहूजी महाराज नगर,
(उ.प्र.) पिन-229305
180. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
505, ललौली रोड,
बिन्दकी
जिला फतेहपुर
उ.प्र. 212635
181. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
डोईवाला
देहरादून
182. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
शामली,
जिला मुजफ्फरनगर
183. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
बडागुडा
जिला गिरसा-125078
184. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
पिथो
तह.-फूल
जिला बठिण्डा-151103

185. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
हनुमानगढ़ टाऊन
राजस्थान-335513
186. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
छापयावाली
जी.टी. रोड
जिला मुक्तसर-152107
187. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
श्री करनपुर
नजदीक बस स्टैण्ड
तहसील श्री करणपुर
जिला श्री गंगागर-335073
188. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
खैरा खुर्द,
तहसील सर्दुलगढ़,
जिला मानसा-151507
189. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
गियाना,
तहसील तलवण्डी साबो,
जिला बठिण्डा-151301
190. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
धूलकोट,
तहसील गिदडबाहा,
जिला मुक्तसर-152031
191. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
आंचलिक कार्यालय
सिविल स्टेशन,
100 पिंट रोड,
जिला बठिण्डा
192. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
घुमण खुर्द,
जिला गुरदासपुर-143518
193. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
कलेर कलां,
जिला गुरदासपुर-143519
194. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
566/173, राममनोहर लोहिया नगर,
वार्ड नं. 1, भरुआ सुमेरपुर,
जिला हमीरपुर
(उ.प्र.)-210502
195. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
शुक्ला निवास,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया के सामने,
नेतुवा (शुक्लागंज)
जिला उन्नाव (उ.प्र.)
196. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
मुद्रा पेटिका, जी.टी. रोड
गुमटी नं. 5
कानपुर (उ.प्र.)-208012
197. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
बी. जे.-111, सेक्टर-2
सॉल्ट लेक
कोलकाता-700091
198. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
लेक टाऊन,
पी-264, ब्लाक-बी
कोलकाता-700089
199. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
पटना सेंट्रल स्कूल
सुदर्शन बिहार,
पटना-800040
200. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
26/7, शाहपुर कालोनी,
न्यू अलीपुर
कोलकाता-700053
201. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
92, आर के एवेन्यू
राजेन्द्र नगर
पटना-800016
202. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
शाहदेव कुंटा,
पी.ओ.बलिआ,
बालासोर, औडिसा-756056
203. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
नजदीक सिंह मोड, कल्यानपुर,
(हैसाग)
रांची-834003, झारखण्ड
204. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
15 कोलडाक रोड,
खिदिरपुर,
कोलकाता-700043
205. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
यू.सी.पी.-18, दवाईप्यांस बिल्डिंग,
अम्बेडकर सरणी, सिटी सेंटर,
पी.ओ. दुर्गापुर-713216,
वैस्ट बंगाल
206. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
आंचलिक कार्यालय,
42, एम.जी.रोड, रिवर साइड,
उजान बाजार,
गुवाहाटी-781001

207. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
51, सैटल रोड,
अगरतला-799001
208. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
कालीबारी रोड,
गुरुद्वारा के पास,
दीमापुर-797112
209. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
स्टेडियम रोड,
दिउलालैंड
इम्फाल-795001
210. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
राजगढ रोड,
गुवाहाटी-781003
211. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
बेलतोलो रोड,
गुवाहाटी-781028
212. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
गराली
सूरज मार्किट,
जोरहाट-785001
213. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
आदाबाडी तिनाली,
किशोर पेट्रोल पंप के सामने,
मालीगांव,
गुवाहाटी-781014
214. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
348/349, एस.बी. मार्किट,
चिकपट एरिया,
बंगलौर-560053
215. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
78/1 जे.सी.रोड,
बंगलौर-560002
216. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
435/434, ओपाकारा स्ट्रीट,
कोयम्बेतूर-641001
217. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
मैट्रो एस्टेट,
एबिड्स रोड,
हैदराबाद-500001
218. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
165, थम्बू शैट्टी स्ट्रीट,
पोस्ट बैग नं. 1955
जॉर्ज टाऊन
चैन्नई-600001
219. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
161, माऊंट रोड,
पोस्ट बाक्स नं. 2729,
चैन्नई-600002
220. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
आई.बी.डी.
770, अन्ना सलाई,
स्पेसर टॉवर, (भूमि तल)
चैन्नई-600002
221. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
185-ए, पार्ट-1, मार्किट रोड,
हमपनकट्टा,
मैंगलोर-575001
222. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
60/4 राधाकृष्ण निलयम,
भानूमैया रोड
मैसूर
223. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
सपना कान्टीनेंटल काम्प्लेक्स
उड्दिर रोड
बिदर
224. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
44, मेन रोड,
अड्यार
चैन्नई-600028
225. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
1-7-323, प्रथम तल
नजदीक शेनाए ट्रेड सेंटर,
पार्क लेन,
सिकन्दराबाद-500003
226. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
37-ए, प्रथम तल
नंदी कोविल स्ट्रीट,
तिरुचिरापल्ली-620002
227. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
आई.बी.डी
कामाक्षी अम्मन कोविल स्ट्रीट
तिरुपुर-641604
228. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
एम.जी.रोड
त्रिवेन्द्रम-695001
229. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
प्रकाशम रोड,
गर्वनरपेट,
विजयवाड़ा-520002

230. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
सूर्या बाग,
विशाखापट्टनम-530020
231. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
कृष्णा विल्डिंग,
पैरो एण्ड कंपनी जंक्शन
उमा महेश्वर मंदिर के पास
क्यूलोन-691001
232. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
आस्ति बसुली शाखा,
770 ए स्पैसर टॉवर,
माऊंट रोड,
चैनई-600002
233. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
हिन्दुस्तान कालेज ऑफ इंजीनियरिंग,
पोस्ट बाक्स नं.-1
डे रेंज कैम्पस,
पुडुचूर-603103
तमिलनाडू
234. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
आंचलिक कार्यालय,
बी-38, औद्योगिक क्षेत्र नारायणा,
फेज-1, नई दिल्ली-110028
235. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
बी 217, पश्चिम विहार,
नई दिल्ली-110063
236. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
बैंक हाऊस, भूमि तल,
21-राजेन्द्र प्लेस,
नई दिल्ली-110008
237. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
सैक्टर-6, छोटी मार्किट
द्वारका, नई दिल्ली
238. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
सनातन धर्म पब्लिक स्कूल,
मोती नगर,
नई दिल्ली
239. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
914, रेलवे रोड,
रानी बाग,
दिल्ली
240. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
सचदेवा पब्लिक स्कूल,
सैक्टर-13, रोहिणी,
नई दिल्ली
241. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
1432/6, मेन रोड,
नजदीक बतरा सिनेमा कम्प्लेक्स,
मुखर्जी नगर,
दिल्ली
242. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
सी-25 विकास पुरी,
नई दिल्ली-110018
243. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
जे-82, मेन ख्याला रोड,
विष्णु गार्डन,
नई दिल्ली
244. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
नजदीक मैट्रो पिलर 682
उत्तम नगर,
नई दिल्ली
245. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
भंखरपुर,
तहसील डेरा बस्ती,
जिला मोहाली
246. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
एस.सी.ओ. 272
सैक्टर 32-डी
चण्डीगढ़
247. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
मोहाली बाई पास रोड,
फर्निचर मार्किट
एस.सी.ओ.-2
बलोंगी
248. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
एस.सी.ओ. 12-13
ए.के.एस. कालोनी,
पटियाला रोड,
जीरकपुर
249. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
चण्डीगढ़ रोड,
लालडू,
तहसील डेरा बस्ती,
जिला मोहाली
250. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
करेंसी चैस्ट,
एस.सी.ओ. 84-91,
बैंक स्कवेयर,
सैक्टर 17 बी,
चण्डीगढ़-160017

251. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल,
यमुना नगर (हरियाणा)
252. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
रेलवे रोड,
घरौंदा (करनाल)
(हरियाणा)
253. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
छतरी वाला कूआं,
मेन बाजार तरावडी (करनाल)
(हरियाणा)
254. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
बैंक रोड,
अंबाला कैट
(हरियाणा)
255. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
राजगढ़ रोड,
गंगवा, जिला हिसार,
(हरियाणा)
256. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
मुद्रा पेटिका,
दयाल सिंह कालेज रोड,
दावत होटल,
करनाल (हरियाणा)
257. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
राजकीय ब्रिजेन्द्रा कालेज,
फरीदकोट-151203
258. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
ग्राम व डाकघर जंड साहिब,
जिला फरीदकोट
259. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
ग्राम व डाकघर मुंदकी,
तलवंडी भाई रोड,
तहसील व जिला फिरोजपुर-142960
260. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
ग्राम व डाकघर रामा,
तहसील निहाल सिंह वाला,
जिला मोगा-142039
261. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
बाठ, डाकखाना बाठ,
जिला तरन तारन
262. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
मानावाला, ब्लॉक जोगावां,
जिला अमृतसर
263. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
अजनाला,
- जिला अमृतसर-143102
264. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
चौक मेहता
तहसील बाबा बकाला,
जिला अमृतसर
265. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
आंचलिक कार्यालय
चौक फक्वारा (ग्रामीण)
जिला अमृतसर
266. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
जी.टी.रोड,
नजदीक बस स्टैंड,
करतारपुर-144801
267. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
गोराया जी.टी.रोड,
जिला व तहसील जालंधर
268. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
गांव जडियाला मंजकी,
जिला जालंधर
269. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
7-1-129 एवं 130 अमीर पेंट,
नजदीक सेशम हाल थियेटर,
हैदराबाद
270. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
बन्नघाटा
49, आठवां मेन,
माल्या,
बैंगलूर
271. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
भुनेरहेडी,
तहसील व जिला पटियाला-147003
272. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
भवानीगढ़,
तहसील व जिला संगरूर-148115
273. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
रेलवे रोड, बरनाला,
जिला संगरूर-148101
274. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
बडबर,
तहसील व जिला संगरूर-148106

275. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
बदरुखा,
तहसील व जिला संगरूर-148001
276. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
भोतना,
तहसील बरनाला,
जिला संगरूर-148115
277. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
बाबा गंडा सिंह पब्लिक स्कूल,
धनौला चौक, बरनाला,
जिला संगरूर-148101
278. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
धनेठा, तहसील समाना
जिला पटियाला-147101
279. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
घग्गा, तहसील समाना
जिला पटियाला-147102
280. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
घड़ाचों, तहसील एवं
जिला संगरूर-148026
281. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
सरहिंद रोड, झिल,
पटियाला-147001
282. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
खनौरी मण्डी, तहसील मूनक,
जिला संगरूर-148027
283. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
माडल टाऊन,
पटियाला-147001
284. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
महल कलां, तहसील बरनाला
जिला संगरूर-148104
285. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
मैण
डकाला रोड, (सुलर)
तहसील व जिला पटियाला-147001
286. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
पातडा, तहसील समाना,
जिला पटियाला-147105
287. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
22 नं. फाटक,
नजदीक गुरुद्वारा खेल साहिब,
पटियाला-147001
288. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
अरबन एस्टेट,
सामने पंजाबी यूनिवर्सिटी,
पटियाला-147001
289. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
पसियाणा,
तहसील व जिला पटियाला-147001
290. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
राजपुरा शहर,
जिला पटियाला-140401
291. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
राखडा, नाभा रोड,
जिला पटियाला-147201
292. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
खालसा सीनियर सैकण्डरी स्कूल,
राजपुरा शहर,
जिला पटियाला-140401
293. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
अनाज मण्डी,
सुनाम,
जिला संगरूर-148028
294. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
सेखां, तहसील बरनाला,
जिला पटियाला-148101
295. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
देवीगढ पहेवा रोड,
पटियाला-147111
296. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
तोहडा, तहसील नाभा,
जिला पटियाला-147104
297. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
भैणी महाराज,
जिला बरनाला
298. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
दसुआ
जिला होशियारपुर
299. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
आंचलिक कार्यालय,
टाण्डा बाई पास रोड,
गुरमुख टावर,
होशियारपुर
300. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
ए-5, जगत पुरी,
नथू कालोनी चौक के पास,
मंडौली रोड,
न्यू मार्डन शाहदरा,
दिल्ली

301. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
139-ए, अर्जुन नगर,
कोटला मुबारकपुर,
नई दिल्ली

302. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
कायसन टॉवर, पहली मंजिल,
अल्फा-1
ग्रेटर नोएडा

303. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
मेरठ रोड
बागपत 250609

304. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
सी 32/1 पल्लवपुरम
फेज II
मेरठ

305. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
मिलक,
गुरुद्वारा डेरा बाबा नगीना साहिब,
बाबा जगीर सिंह साहिब,
धर्मार्थ न्यास रामपुर रोड,
जिला रामपुर

306. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
हल्द्वानी रोड
समीप सिटी अस्पताल,
वाजपुर,
जिला उधमसिंह नगर

307. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
बरुंडी,
तहसील और जिला लुधियाना-141201

308. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
लीलों, वाया सिंधवां,
जिला लुधियाना

309. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
आंचलिक कार्यालय
5वीं मंजिल, नोबल एन्केलव,
भाई बाला चौक,
लुधियाना-141001

310. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
आंचलिक कार्यालय,
राजबाहा रोड,
पटियाला

311. पंजाब एन्ड सिंध बैंक
आंचलिक कार्यालय
सपैसर टॉवर,
770-ए, अन्ना सलाई,
चैन्नई

पंजाब नैशनल बैंक

मंडल कार्यालय बुलन्दशहर

312. पंजाब नैशनल बैंक
शा.का. रबुपुरा
ग्राम रबुपुरा, पोस्ट-रबुपुरा
तहसील जेवर, जिला गौतमबुद्ध नगर
पिन-203209

313. पंजाब नैशनल बैंक
शा.का. दनकौर
ग्राम दनकौर, पोस्ट-दनकौर
तहसील दनकौर, जिला गौतमबुद्ध नगर
पिन-203201

314. पंजाब नैशनल बैंक
शा.का. जेवर
ग्राम जेवर, पोस्ट जेवर
तहसील जेवर, जिला गौतमबुद्ध नगर
पिन-203135

315. पंजाब नैशनल बैंक
शा.का. खुर्जा देहात
ग्राम खुर्जा, सिटी स्टेशन रोड, ककराला
पोस्ट खुर्जा तहसील खुर्जा,
जिला बुलन्दशहर,
पिन-203131

316. पंजाब नैशनल बैंक
शा.का. टप्पल
ग्राम टप्पल, पोस्ट-टप्पल
तहसील खैर, जिला अलीगढ़
पिन-202165

317. पंजाब नैशनल बैंक
शा.का. गंधाना,
एनएच-91, ब्लॉक चंडौस
जिला अलीगढ़

318. पंजाब नैशनल बैंक
शा.का. पिसावा
ब्लॉक चंडौस
जिला अलीगढ़
पिन-202165

मंडल कार्यालय बिहारशरीफ

319. पंजाब नैशनल बैंक
शा.का. नौवागढ़ी, मस्जिद के समीप
जिला मुंगेर,
बिहार

320. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. राजगीर,
दिगम्बर जैन धर्मशाला,
राजगीर-803116
321. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. सबौर
हाई स्कूल चौक, सबौर
बिहार-813210
- मंडल कार्यालय धर्मशाला**
322. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. रैत
जिला कांगड़ा
हि.प्र. -176208
323. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. भंजराडू
जिला चम्बा
हि.प्र. -176316
- मंडल कार्यालय देहरादून**
324. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. 14, इन्फैन्ट्री डिवीजन,
आर्मी काम्पलैक्स, क्लेमन टाउन,
देहरादून
(उत्तराखण्ड)
325. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. मिलिट्री कैम्पस,
रायलवाला,
जिला देहरादून
(उत्तराखण्ड)
326. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. बैराज कन्सट्रक्शन डिवीजन,
पशुलोक ऋषिकेश,
जिला देहरादून
(उत्तराखण्ड)
327. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. एस.आर.एम. फाउंडेशन ऑफ
इंडिया, शंकराचार्य नगर,
जिला गढ़वाल
(उत्तराखण्ड)
328. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट
कारपोरेशन लि., ऋषिकेश
जिला देहरादून
(उत्तराखण्ड)
329. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. कृषि उत्पादन धण्डी समिति,
ऋषिकेश, जिला देहरादून
(उत्तराखण्ड)
330. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. हरबर्टपुर क्रिश्चियन हॉस्पिटल,
हरबर्टपुर, जिला देहरादून
(उत्तराखण्ड)
331. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. दि नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दी
विज्युवली हैंडीकैप्ड, राजपुर रोड,
देहरादून (उत्तराखण्ड)
332. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट,
कारपोरेशन लि., भागीधपुरम टिहरी
जिला टिहरी गढ़वाल
(उत्तराखण्ड)
333. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. पीपीसीएल
93, राजपुर रोड, देहरादून
(उत्तराखण्ड)
पिन-248001
334. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. विशाल शॉपिंग काम्पलेक्स,
बस स्टैंड, बड़कोट
जिला उत्तरकाशी
(उत्तराखण्ड) पिन-249141
335. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. चिनयालीसोड,
नजदीक कृषि विज्ञान केन्द्र,
जिला उत्तरकाशी
(उत्तराखण्ड) पिन-249141
336. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. ब्लॉक रोड, चम्बा
जिला नई टिहरी
(उत्तराखण्ड) पिन-249145
337. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. सहस्त्रधारा रोड,
पीओ गुजराड़ा, देहरादून
(उत्तराखण्ड) पिन-248001
338. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. 566, बैल रोड, ग्रामिक इरा
पीओ क्लेमन टाउन,
देहरादून (उत्तराखण्ड)
पिन-248002

339. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. पीपीसीएल,
93, राजपुर रोड, देहरादून
(उत्तराखण्ड)
पिन-248001

मंडल कार्यालय कुरुक्षेत्र

340. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. लेदी
गांव एवं डाकखाना लेदी
जिला-यमुना नगर
हरियाणा-135103
341. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. मुस्तफाबाद
जनता स्कूल, छप्पर रोड
मुस्तफाबाद
जिला-यमुना नगर
हरियाणा-133103
342. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. एम. एन. कालेज
शाहबाद मारकण्डा, लाडवा रोड
शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र
हरियाणा-136135
343. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. झांसा रोड
नजदीक माँ भद्रकाली मन्दिर
कुरुक्षेत्र
हरियाणा-136118
344. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. कलायत
रेलवे रोड, नजदीक अनाज मंडी
कलायत, जिला-कैथल
हरियाणा-136017
345. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. रादौर
एस. के. रोड, नजदीक बस स्टैण्ड
रादौर, जिला-यमुना नगर
हरियाणा-135133
346. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. ढाण्ड
नई अनाज मंडी के सामने
ढाण्ड, जिला-कैथल
हरियाणा-136020
347. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. कुरुक्षेत्र
ढाण्ड रोड, कुरुक्षेत्र
जिला-कुरुक्षेत्र
हरियाणा-136119

348. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. एस. डी. पब्लिक स्कूल
जगाधरी, जिला-यमुना नगर
हरियाणा-135003

मंडल कार्यालय इंदौर

349. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. आर्मी वार कॉलेज
सीओसी महु
मध्य प्रदेश, पिन-453441
350. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. ईबी.-248, रिंग रोड,
बोम्बे हॉस्पिटल के पास, ए.बी. रोड,
इंदौर (म. प्र.), पिन-452010
351. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. पीआरके रेसिडेंसी,
ओल्ड एबी रोड, राऊ,
जिला इंदौर (म. प्र.), पिन-453331
352. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. 987-ए, सुदामा नगर
जिला इंदौर (म. प्र.),
पिन-452009
353. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. 60-61, वसंत विहार,
त्रिमूर्ति चौराहा के पास,
धार, (म. प्र.), पिन-454001
354. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. मेन हाइवे, ग्राम जाखिया,
तहसील-साँवेर, जिला इंदौर
(म. प्र.), पिन-453551
355. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. ए.बी. रोड, रिलायंस पेट्रोल पम्प
के पास, टंकी चौराहा,
शाजापुर (म. प्र.), पिन-465001
356. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. बड़वानी-अंजड़ रोड
दरगाह बड़वानी के पास, बड़वानी
(म. प्र.), पिन-451551
357. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. 8-ई, साधना नगर,
इंदौर (म. प्र.), पिन-452005
358. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. ए-7, भंवर काजोनी,
वाईपास रोड, खिलचीपुर चौराहा के पास
राजगढ़, (म. प्र.), पिन-465661

359. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. गांधी नगर कालोनी
एसडीएम बंगले के सामने
मेन रोड, शुजालपुर
(म. प्र.), पिन-465333
360. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. मेन हाइवे, ए.बी. रोड,
मानपुर, तहसील महु
(म. प्र.), पिन-453661
361. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. डी-1, श्री कँवर कालोनी,
महेश्वर रोड, बड़वाहा
(म. प्र.), पिन-451115

मंडल कार्यालय रोहतक

362. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. कोसली,
जिला-रेवाड़ी (हरियाणा)
पिन-123302
363. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. जिला सचिवालय,
जिला-रेवाड़ी (हरियाणा)
पिन-123401
364. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. कैरो,
जिला-भिवानी (हरियाणा)
पिन-127029
365. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. कलिंगा,
जिला-भिवानी (हरियाणा)
पिन-127411
366. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. तोशाम,
जिला-भिवानी (हरियाणा)
पिन-127040
367. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. सिवानी,
जिला-भिवानी (हरियाणा)
पिन-127046
368. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. खेड़ी साध,
जिला-रोहतक (हरियाणा)
पिन-124027
369. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. शिक्षा भारती स्कूल,
जिला-रोहतक (हरियाणा)
पिन-124001
370. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. सुनारी कलौ,
जिला-रोहतक (हरियाणा)
पिन-124001
371. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. कसार,
जिला-झज्जर (हरियाणा)
पिन-124507
372. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. एनटीपीसी झाड़ली,
जिला-झज्जर (हरियाणा)
पिन-124125
373. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. बाढसा,
जिला-झज्जर (हरियाणा)
पिन-124105
374. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. मीरपुर,
जिला-रेवाड़ी (हरियाणा)
पिन-123502

मंडल कार्यालय मेरठ

375. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. बिनौली
ग्राम व डाक : बिनौली
बस स्टैण्ड के पास
जिला-बागपत (उ.प्र.)
376. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. डासना, कस्बा डासना
तहसील व जिला गाजियाबाद
(उ.प्र.)
377. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. धौलाना, मेन बस स्टैण्ड
तहसील हापुड़, जिला-गाजियाबाद
(उ.प्र.)
378. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. खरखौदा
पुलिस थाने के पास
मेन रोड खरखौदा, तहसील व जिला-मेरठ
(उ.प्र.)
379. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. रामराज
ग्राम सैफपुर, फिरोजपुर (रामराज)
पेट्रोल पम्प के पास
तहसील-मवाना, जिला-मेरठ
(उ.प्र.)

380. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. रोहटा, कस्बा रोहटा
तहसील व जिला-मेरठ
(उ.प्र.) पिन-250502
381. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. बाईपास बागपत रोड
386, मुल्तान नगर, बागपत रोड, मेरठ
(उ.प्र.) पिन-250002
382. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. खेकड़ा
ग्राम खेकड़ा, जिला-बागपत
(उ.प्र.)

मंडल कार्यालय हमीरपुर

383. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. नारी
जिला-उना (हिमाचल प्रदेश)
पिन-174001
384. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. दो-सड़का
जिला-हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश)
पिन-177030
385. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. बिझड़
जिला-हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश)
पिन-176040
386. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. नादौन
जिला-हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश)
पिन-177033
387. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. सैनिक स्कूल सुजानपुर
जिला-हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश)
पिन-176110
388. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. झण्डूता
जिला-बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)
पिन-174031
389. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. हरोली
जिला-उना (हिमाचल प्रदेश)
पिन-174301
390. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. बंगाणा
जिला-उना (हिमाचल प्रदेश)
पिन-174307

391. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. समीरपुर
जिला-हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश)
पिन-177601
392. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. धुमारवीं
जिला-बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)
पिन-174021

मंडल कार्यालय जोधपुर

393. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. जालोर
जिला-जालोर (राज.)
पिन-343001
394. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. नागोर
जिला-नागोर (राज.)
पिन-341001
395. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. लाडनू
जिला-नागोर (राज.)
पिन-341306
396. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. बिजय नगर
जिला-अजमेर (राज.)
पिन-305624
397. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. केकड़ी
जिला-अजमेर (राज.)
पिन-305404

मंडल कार्यालय पटियाला

398. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. सेक्टर-68, एम.सी. कार्यालय
मोहाली, जिला-मोहाली
पिन-160062
399. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. पातड़ा
नरवाना रोड, पातड़ा,
जिला-पटियाला पिन-147105

मंडल कार्यालय अहमदाबाद

400. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. ग्राउंड फ्लोर, नगिन देशाई स्ट्रीट
रेलवे स्टेशन के पास, बारडोली
जिला-सूरत
पिन-394601

401. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. ग्राउंड फ्लोर, मेधा प्लाजा
काम्पलेक्स, घेराई चकला,
पाटन, जिला-पाटन, पिन-384265

402. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. ग्राउंड फ्लोर,
शांतिवन रेजिडेंसी ब्यारा, जिला-तापी,
पिन-394650

403. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. गुरुकुपा कॉम्पलेक्स
एलआईसी के पास, चित्रा रोड,
गोधरा, जिला-पंचमहाल, पिन-389001

404. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. ग्राउंड फ्लोर, गडी रोड,
गोबिंद नगर रोड,
लबाना हॉस्पिटल के सामने, सेंट्रल पार्क,
दाहोद, जिला-दाहोद, पिन-389151

405. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. प्लॉट नं. 19,
टेलीफोन एक्सचेंज रोड, नया अंजार,
जिला-कच्छ
पिन-370110

406. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. नवा वाडज,
7, शिवालिक यश कॉम्पलेक्स
शास्त्री नगर बीआरटीएस स्टॉप के सामने,
नारणपुरा, अहमदाबाद
पिन-380013

मंडल कार्यालय नागपुर

407. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. डी. सी. कार्यालय
(जिला समन्वयक कार्यालय)
किंगजवे, स्टेशन रोड
नागपुर
पिन-440001

408. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. ए.आर.एम.बी.
(आस्ति रिटेल प्रबंधन शाखा)
किंगजवे, स्टेशन रोड
नागपुर
पिन-440001

मंडल कार्यालय कपूरथला

409. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. ग्राम एवं डाकघर कलानौर
जिला-गुरदासपुर पिन-143512

410. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. ग्राम एवं डाकघर हुयैनपुर
जिला-कपूरथला
पिन-144620

407. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. मंसूरवाल
जिला-कपूरथला
पिन-144601

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
राजभाषा नियम, 1976 के नियम, 10 (4) के तहत
भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली
शाखाओं की सूची

आगरा

412. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा शिकोहाबाद
801, डी-कटरा मीरा,
एटा रोड, शिकोहाबाद
जिला : फैजाबाद

413. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा फतेहाबाद रोड, आगरा
होटल लव-कुश बिल्डिंग,
मुनिसिपल नं. 30/6/20,
के-1, फतेहाबाद रोड,
आगरा -282001

414. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा टुण्डला
वर्धमान बिल्डिंग,
निकट टुण्डला चौराहा, टुण्डला
जिला : फिरोजाबाद-283204

415. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा शिवाजी नगर, झांसी
6/36/18, ज्ञान स्थली
पब्लिक स्कूल, कानपुर रोड,
झांसी-284001

416. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय,
214, गोपालपुरा,
शमसाबाद,
जिला -आगरा-283125

417. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय
जी.एल. इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड
टेक्नॉलाजी,
एन.एच. 2, अकि बरपुर, जिला-मथुरा-281406

418. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय,
बैजनाथगंज, इटावा रोड,
बस स्टैंड के सामने, सिरसागंज
जिला-फिरोजाबाद-205151
419. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय,
अग्रसेन मार्किट, दिल्ली पलवल रोड,
खेर, जिला-अलीगढ़-202138
- नई दिल्ली**
420. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा ओखला फेज-1,
सी-61, डी.डी.ए. रोड,
ओखला फेज-1,
421. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा जसौला
50, पॉकेट-1, जसौला
नई दिल्ली-110025
- देहरादून**
422. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा ज्वालापुर,
रेलवे रोड, ज्वालापुर,
जिला : हरिद्वार-249407
423. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा रूद्रप्रयाग,
बद्रीनाथ रोड,
रूद्रप्रयाग-246421
424. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा पुरकाजी,
दिल्ली रोड, नजदीक बस स्टैंड, पुरकाजी
जिला : मुजफ्फरनगर-251317
425. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा सेलाकुई,
सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया,
सेलाकुई, जिला : देहरादून
- मुम्बई**
426. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा क्लीना
इमगीन चैम्बर्स, सी एस टी रोड,
क्लीना, सांद्राकुज (पूर्व),
मुम्बई-400025
427. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा मुम्बई सेन्ट्रल
ओरकिड सिटी सेन्टर,
265, बेलासीस रोड,
- मुम्बई सेन्ट्रल
मुम्बई-400008
428. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा भायखला
भू-तल, 85-ए, मुस्तफा बाजार
विक्टोरिया रोड, भायखला (पूर्व),
मुम्बई-400010
429. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा वरली
201, सिटी व्यू बिल्डिंग,
डॉ. एनी बेसेन्ट रोड
वरली, मुम्बई-400018
430. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा हिल रोड, बान्द्रा
दुकान सं. 2, 3 एवं 4, टोपाज अपार्टमेंट,
55, वरोडा रोड, बान्द्रा (पश्चिम),
मुम्बई-400050
431. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा परेल,
दुकान सं. 2 एवं 3, बे साइड आर्कड,
डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर रोड,
परेल, मुम्बई-400012
- लखनऊ**
432. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा बलरामपुर
आनन्द बाग,
बलरामपुर (जिला) उत्तर प्रदेश
433. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा झुंसी
वाई 1-ए 1-07, त्रिवेणीपुरम
झुंसी, इलाहाबाद
434. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा मुंशी पुलिया
101-डी ब्लॉक, इंदिरा नगर, मुंशी पुलिया,
लखनऊ
435. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा अकबरपुर
नई सड़क, सहजादपुर,
अम्बेडकर नगर,
अकबरपुर
436. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा इटौन्जा
राजा का बाग,
इफको के पास,
कृषक सेवा केन्द्र,
इटौन्जा, लखनऊ

- | | |
|---|---|
| <p>437. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा शाहगंज
होटल अवध प्लाजा,
बस स्टैंड के सामने,
नई आबादी, शाहगंज</p> <p>438. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा बंधरा
बंधरा बाजार, कानपुर रोड,
लखनऊ</p> <p>439. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा मुगलसराय
482, रवि नगर,
मुगलसराय, जिला चंदौली</p> <p>440. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा सिधौली
प्रेमनगर, माहेश्वरी पेट्रोल पंप के पास,
एनएच 24, सीतापुर</p> <p>441. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा मिर्जापुर
तेलीगंज,
मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश</p> <p>442. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा बशारतपुर
मेडिकल कॉलेज रोड,
बशारतपुर,
गोरखपुर</p> <p>443. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा बदलापुर
शाहगंज रोड
बदलापुर, जौनपुर</p> <p>444. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा प्रतापगढ़
ए-141, सेनानी चौक,
मीरा भवन चौराहा,
प्रतापगढ़</p> <p>445. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा चिनहट
मटियारी चौराहा,
चिनहट,
लखनऊ</p> <p>446. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा गाजीपुर
18, तुलसी सागर कॉलोनी,
बड़ी बाग चुंगी के पास,
गाजीपुर (उ.प्र.)</p> | <p>447. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा बैरिया
गाँव व पोस्ट : बैरिया,
पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस,
भोजपुर रोड,
बलिया</p> <p>448. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा खेतासराय
तहसील : शाहगंज
जौनपुर</p> <p>449. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा महाराजगंज
लोहिया नगर,
फरिडा रोड,
महाराजगंज</p> <p>450. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा उन्नाव
41, सिविल लाइन्स,
कचहरी रोड,
उन्नाव</p> <p>451. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा सरायमीर
कामर पैलेस के पास,
सरायमीर,
जिला : अजमेर</p> <p>452. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा फतेहपुर
लखनऊ-बाँदा सागर रोड,
मेन मार्किट,
फतेहपुर, उत्तर प्रदेश</p> <p>453. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा पडरौना
रुंगटा कमर्शियल बिल्डिंग,
सुभाष चौक,
पडरौना, उत्तर प्रदेश</p> <p>454. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा लालगंज, रायबरेली,
स्टेशन रोड, लालगंज,
रायबरेली
हैदराबाद</p> <p>455. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय, 9-1-129/1,
ऑक्सफोर्ड प्लाजा,
एस. डी. रोड,
सिकंदराबाद (आंध्र प्रदेश)</p> |
|---|---|

456. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय, 6-24-2344,
गुरुबाबादि रोड,
ललिता थिएटर के सामने,
निजामाबाद (आंध्र प्रदेश)
457. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
प्रादेशिक कार्यालय: 103, 8-2-248ए,
महर्षि हाऊस, रोड नं. 3
बंजारा हिल्स, हैदराबाद
458. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय,
2-8-186, मुकरमपुरा
सीवी आरएन रोड, करीमनगर (आं. प्र.)
459. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय,
प्लॉट नं. 10-14
ऑटो नगर, हैदराबाद - 500 070
460. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय,
18/3, श्री साई संपदा प्लाजा,
स्ट्रीट-6, हाब्सगुडा,
हैदराबाद - 500 007
461. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय,
शारदा सदन,
बालाजी ग्रैंड बाजार के सामने,
10-5-2/7/एफ, रोड नं. 1,
बंजारा हिल्स,
हैदराबाद - 500 034
462. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय,
प्लॉट नं. 52, रोड नं. 5, वेंकटगिरि,
जुबली हिल्स,
हैदराबाद - 500 003
आं. प्र.
463. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय,
प्लॉट नं. 214/पी, बुद्धा नगर,
उप्पल डेपो के पास, वरंगल हाईवे
उप्पल, हैदराबाद - 500 039
464. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय,
प्लॉट नं. 3, रेजिंसी प्लाजा,
मैत्रीविहार एरिया, अमीरपेट,
हैदराबाद - 500 016

पटना

465. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
प्रादेशिक कार्यालय,
प्रथम तल, वर्मा सेंटर,
बोरिंग रोड,
पटना (बिहार)
466. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय, कुजु,
मेन रोड, एनएच-33, डाकघर- कुजु,
जिला-हजारीबाग (झारखंड)
467. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय, बरही,
पटना रांची रोड,
एचपी पेट्रोल पम्प के नजदीक, बरही
जिला-हजारीबाग (झारखंड)
468. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय, गोड्डा,
वार्ड नं. 3 (ओल्ड)/6(न्यू), हटिया चौक,
पीरपैन्ती रोड,
गोड्डा (झारखंड)
469. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय, कटिहार,
नार्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं
इंडस्ट्रीज,
चैम्बर पथ, एम.जी. रोड,
कटिहार (बिहार)
470. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय, सरफुद्दीनपुर,
ग्राम एवं डाकघर- सरफुद्दीनपुर,
जिला-मुजफ्फरपुर (बिहार)
471. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय, मोहनिया
अधोरेखर कॉम्प्लेक्स, एमबीजीबी के नजदीक,
रामगढ़ रोड,
मोहनिया (बिहार)
472. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय, नवादा,
मोहल्ला - गढ़पर, नारदीगंज सेड,
चित्रगुप्त मंदिर के नजदीक,
डाकघर एवं जिला-नवादा (बिहार)
473. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय, बिहिया
द्वारा निर्मला देवी, पत्नी जगदीश प्रसाद जायसवाल,
कटेया रोड, राजा बाजार
बिहिया (बिहार)

474. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय, बांका
द्वारा मुकेश कुमार चौधरी, राजेश कुमार चौधरी
एवं राम कुमार चौधरी,
पुत्र श्री रामचन्द्र चौधरी,
वार्ड नं. - 12/13, अलीगंज,
पालिका के समीप,
बांका (बिहार)

475. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय, जयनगर
द्वारा डॉ. महेश चन्द्र सोनथालिया,
सोनथालिया भवन, मेन रोड,
डाकघर - जयनगर,
जिला -मधुबनी (बिहार)

476. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय, डुमरांव,
द्वारा सतनारायणन प्रसाद जायसवाल,
मणिपुर कोठी, चौक रोड डुमरांव,
जिला -बक्सर (बिहार)

477. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय, जनदाहा
द्वारा ब्रिज लाल मेहरोत्रा,
प्रथम तल, मेहरोत्रा कॉम्प्लेक्स,
जनदाहा मार्किट, जनदाहा,
जिला -वैशाली (बिहार)

478. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय,
वारसलीगंज मार्किट,
वारसलीगंज, नवादा (बिहार)

479. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय,
प्रथम तल, असम एक्सेस रोड,
मदरसा के सामने,
देवघर (झारखंड)

480. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय, कंकड़बाग,
प्रथम तल, सी-58, सैक्टर-के,
हनुमान नगर,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)

रोहतक

481. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय,
जी.टी.रोड, बहालगाढ़ चौक,
बहालगाढ़,
जिला सोनीपत (हरियाणा)

482. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा कार्यालय,
गांव व डाकघर बादली,
पेल्ला मोड़, तहसील बहादुरगढ़,
जिला - झज्जर (हरियाणा)

सिंडिकेट बैंक, राजभाषा प्रभाग, प्रधान कार्यालय :
मणिपाल-576104

483. सिंडिकेट बैंक
चित्तूर शाखा
10-402, पहला तल
दोरैस्वामी आर्यंगार रोड
पोस्ट बॉक्स सं. 36, चित्तूर
जिला - चित्तूर
राज्य-आंध्र प्रदेश
पिन : 517 001

484. सिंडिकेट बैंक
पुदिपट्टा शाखा
एच. नं. 4-49
चेर्लोपल्ली जंक्शन
पुदिपट्टा विलेज
जिला : चित्तूर, राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 517 505

485. सिंडिकेट बैंक
तिरुमला हिल्स शाखा
टीटीडी शापिंग कॉम्प्लेक्स
तिरुमला हिल्स
जिला : चित्तूर
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 517 504

486. सिंडिकेट बैंक
पद्मावतीपुरम शाखा
डो. नं. 4-70/2
तिरुचनूर रोड
तिरुपति
जिला : चित्तूर
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 517 503

487. सिंडिकेट बैंक
तिरुपति सी आर एस शाखा
कैरेज रिपेयर शाप
(साउथ सेंट्रल रेलवे)
गांव : सेटिटपल्ली
मंडल : तिरुपति अर्बन
जिला : चित्तूर
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 517 506

488. सिंडिकेट बैंक
गंगावरम शाखा
नगरउवलु साईनगर के पास
मदनपल्ली रोड
गंगावरम
जिला : चित्तूर
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 571 408
489. सिंडिकेट बैंक
श्रीकालहस्ती शाखा
3/996, नागरी स्ट्रीट
विजयलक्ष्मी थियेटर के पास
श्रीकालहस्ती
जिला : चित्तूर
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 517 644
490. सिंडिकेट बैंक
कोट्टाकोना शाखा
गंगाधर नेल्लूर मंडल
पोस्ट ऑफिस रोड
कोट्टाकोना
जिला : चित्तूर
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 517 127
491. सिंडिकेट बैंक
येरवारिपालेम शाखा
डोर नं. 1-32
बाजार स्ट्रीट
येरवारिपालेम
जिला : चित्तूर
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 517 194
492. सिंडिकेट बैंक
क्षेत्रीय कार्यालय
जोन्नलगड्डा
वारि स्ट्रीट
नेल्लूर
जिला : नेल्लूर
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 524 001
493. सिंडिकेट बैंक
ऊटकूर शाखा
सौदापुरम मंडल
जिला : नेल्लूर
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 524 407
494. सिंडिकेट बैंक
वेंकटगिरि शाखा
डोर नं. 8/12/बी, पहला तल
राजा स्ट्रीट
वेंकटगिरि
जिला : नेल्लूर
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 524 132
495. सिंडिकेट बैंक
बालयपल्ले शाखा
वेंकटगिरि तालुक
जिला : नेल्लूर
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 524 404
496. सिंडिकेट बैंक
सुल्लूरपेट शाखा
डोर नं. 18-1/सी, पांडुरंगा स्ट्रीट
ग्रैंड ट्रंक रोड
सुल्लूरपेट
जिला : नेल्लूर
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 524 121
497. सिंडिकेट बैंक
डी.सी. पल्ली शाखा
प्लॉट सं. 126, वार्ड -6
नेल्लूर-मुंबई हाईवे
डी.सी.पल्ली
जिला : नेल्लूर
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 524 307
498. सिंडिकेट बैंक
कावली (नेल्लूर जिला) शाखा
3-12-73-76 ट्रंक रोड
श्रीनिवासुलु रेड्डी बिल्डिंग
कावली
जिला : नेल्लूर
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 524 001
499. सिंडिकेट बैंक
चिंतावरम शाखा
चिल्लकूर मंडल
जिला : नेल्लूर
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 524 412

500. सिंडिकेट बैंक
रापुर शाखा
8-101, मोघल स्ट्रीट
रापुर
जिला : नेल्लूर
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 524-408
501. सिंडिकेट बैंक
चित्तमूर शाखा
द्वारा येल्लसिरी
वक्काडु तालुक
चित्तमूर
जिला : नेल्लूर
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 524 161
502. सिंडिकेट बैंक
साउथ मोपुर शाखा
डोर न. 3-173, बस स्टैंड के पास
साउथमोपुर (डाक घर)
जिला : नेल्लूर
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 524 004
503. सिंडिकेट बैंक
तड़ा शाखा
जी.एन.टी.रोड
2-79, पुलिस स्टेशन के पास
तड़ा
जिला : नेल्लूर
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 524 401
504. सिंडिकेट बैंक
उदयगिरि शाखा
12-234, अन्नपूर्णा कांप्लेक्स
पुराना बस स्टैंड रोड
उदयगिरि
जिला : नेल्लूर
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 524 226
505. सिंडिकेट बैंक
अल्लुरु शाखा
9-9-24, मेन रोड
गवर्नमेंट आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी के सामने
अल्लुरु
जिला : नेल्लूर
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 524 315
506. सिंडिकेट बैंक
विडावालूर शाखा
डब्ल्यू 5-64/2
ए.जी.पी. रेडडी स्ट्रीट
विडवल्लूर
जिला : नेल्लूर राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 524 318
507. सिंडिकेट बैंक
नायुडुपेट शाखा डोर नं. 1-1-61
श्री कालहस्ती रोड
नायुडुपेट
जिला : नेल्लूर
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 524 126
508. सिंडिकेट बैंक
पोदलकूर शाखा
नं. 392, मेन रोड
पोदलकूर
रापुर तालुक
जिला : नेल्लूर
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 524 345
509. सिंडिकेट बैंक
नेल्लूर दर्गामिट्टा शाखा
जीएनटी रोड
दर्गामिट्टा
जिला : नेल्लूर राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 524 003
510. सिंडिकेट बैंक
कोटा (आंध्र प्रदेश) शाखा
मेन रोड, कोटा
जिला : नेल्लूर, राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 524 411
511. सिंडिकेट बैंक
नेल्लूर बृंदावनम (मेन) शाखा
#15-276, बृंदावनम
जिला : नेल्लूर, राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 524 001
512. सिंडिकेट बैंक
आत्माकूर (नेल्लूर जिला) शाखा
मेन रोड के.के.आर. हॉस्पिटल कांप्लेक्स
एल आर पल्ली, आत्माकूर
जिला : नेल्लूर
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 524 322

513. सिडिकोट बैंक
जुबिली हिल्स शाखा
66ए, जर्नलिस्ट कॉलोनी
ए ब्लॉक
जुबिली हिल्स
हैदराबाद
जिला : हैदराबाद
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 500033
514. सिडिकोट बैंक
टोलीचौकी शाखा
8-1-523/261
मेन रोड
बृंदावन कॉलोनी
टोलीचौकी
जिला : हैदराबाद
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 500 008
515. सिडिकोट बैंक
हैदराबाद जहाँनुमा शाखा
19-2-75/76
बहादुरपुर मंडल
व्यायज टॉउन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर
जहाँनुमा हैदराबाद
जिला : हैदराबाद
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 500 053
516. सिडिकोट बैंक
हैदराबाद बेगमपेट शाखा
#1-11-222/6 डी
सरदार पटेल रोड
बेगमपेट
जिला : हैदराबाद
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 500 016
517. सिडिकोट बैंक
हैदराबाद एलबी नगर शाखा
11-14-261/1
भूतल
सिरि नगर
चित्रा ले ऑउट
एन टी आर नगर
हैदराबाद
जिला : रंगारेड्डी
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 500 035
518. सिडिकोट बैंक
हैदराबाद बालानगर शाखा
शंकर टॉवर्स
ए-30 आईडीपीएल रोड
बालानगर टॉउनशिप
जिला : रंगारेड्डी राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 500 037
519. सिडिकोट बैंक
कोतगुडा व्हाइट फील्ड शाखा
सं. 1-62/1 श्री तिरुमला सुभाष ऑर्केड
पहला तल कोतगुडा 'x' रोड
सिरिलिंगमपल्ली मंडल
कोडापुर पोस्ट हैदराबाद
जिला : रंगारेड्डी
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 500 084
520. सिडिकोट बैंक
हैदराबाद बीएचईएल शाखा
सं. 363, एचआईजी कॉलोनी
बीएचईएल रामचंद्रपुरम
जिला : मेडक राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 502 032
521. सिडिकोट बैंक
आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा
सं. 18-4-42/ए/1 एवं 42/6
शमशेर गंज
जिला : हैदराबाद
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 500 053
522. सिडिकोट बैंक
सीपीसी II शाखा
ट्रेनिंग कमांड
बी 1-20 शरावती ब्लॉक
एन.जी.वी. कोरमंगला
जिला : बेंगलूर अर्नन
राज्य : कर्नाटक
पिन : 560 047
523. सिडिकोट बैंक
केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र
डी.सं. 6-3-653
पायोनियर हाउस
एरॉम मंजिल के सामने
सोमाजीगुंडा
जिला : हैदराबाद
राज्य : आंध्र प्रदेश
पिन : 500 082

524. सिंडिकेट बैंक
येलियूर शाखा
रेलवे स्टेशन के सामने
जिला : मंड्या
राज्य : कर्नाटक
पिन : 571 474
525. सिंडिकेट बैंक
प्रशिक्षण केन्द्र
8-1-26, 29 एवं 30/1
पहला तल
पो. बॉ. 1565
राष्ट्रपति रोड
सिकंदराबाद
राज्य : आन्ध्र प्रदेश
पिन : 500 003
526. सिंडिकेट बैंक
क्षेत्रीय कार्यालय
नेफ्थून टॉवर्स
नेहरू ब्रिज के सामने
आश्रम रोड, अहमदाबाद
जिला : अहमदाबाद
राज्य : गुजरात
पिन : 380 009
527. सिंडिकेट बैंक
आई ए एफ हेब्बाल शाखा
ट्रेनिंग कमांड
इंडियन एयर फोर्स
हेब्बाल
जिला : बंगलूर शहर
राज्य : कर्नाटक
पिन : 560 006
528. सिंडिकेट बैंक
जोखा शाखा
178/1
जोखा
तालुक : कमरेज
जिला : सूरत
राज्य : गुजरात
पिन : 394 326
529. सिंडिकेट बैंक
जोलवा शाखा
ग्राम एवं पोस्ट जोलवा
जिला : सूरत
राज्य : गुजरात
पिन : 394 305
530. सिंडिकेट बैंक
वेजालपोर शाखा
मकान सं. 1664
वार्ड सं. 1, ब्लॉक सं. 204
श्रीजी नगर
खेरगांव रोड
पार्वती मोटर्स के पास
धमदाची फाटक
वेजालपोर
वलसाई
राज्य : गुजरात
पिन : 396 030
531. सिंडिकेट बैंक
खटुडा शाखा
तालुका : वधवान
जिला : सुरेन्द्रनगर
राज्य : गुजरात
पिन : 363 040
532. सिंडिकेट बैंक
नव सादुलका शाखा
भरतनगर नव सादुलका
जिला : राजकोट राज्य : गुजरात
पिन : 363 642
533. सिंडिकेट बैंक
खार शाखा
मकान सं. 310
खार लक्ष्मीपुरा
तहसील : मेहसाना
राज्य : गुजरात
जिला : मेहसाना
पिन : 384 002
534. सिंडिकेट बैंक
वारेली शाखा
प्लॉट सं. 1, 2, 3, 4
ग्राम : वारेली
तालुका : पलसाना
जिला : सूरत
राज्य : गुजरात
पिन : 394 237
535. सिंडिकेट बैंक
उंबरे नवलाख शाखा
मिलकाट 675
तालुक : मावल
जिला : पुणे
राज्य : महाराष्ट्र
पिन : 410 506

536. सिंडिकेट बैंक
अतरोली शाखा
ग्राम एवं पोस्ट अतरोली
तालुका : पलसाना
जिला : सूरत
राज्य : गुजरात
पिन : 394 325
537. सिंडिकेट बैंक
कोर्टी शाखा
एस. नं. 727
पुणे-बंगलूर हाइवे
कोर्टी
जिला : सतारा
राज्य : महाराष्ट्र
538. सिंडिकेट बैंक
मोरेवाडी कोल्हापुर शाखा
श्री अप्पा साहेब बाबूराव तेंबुर्ले
प्लॉट नं. 345, आरती
आर. के. नगर मोरेवाडी
जिला : कोल्हापुर
राज्य : महाराष्ट्र
पिन : 416 013
539. सिंडिकेट बैंक
सुदुम्बरे शाखा
सिद्धांत कालेले आफ इंजीनियरिंग
सुदुम्बर
जिला : पुणे
राज्य : महाराष्ट्र
पिन : 412 109
- कापोरेशन बैंक**
540. कापोरेशन बैंक
विजय नगर, यादव मार्किट
फौजाबाद रोड,
बाराबंकी-225001
जिला : बाराबंकी
541. कापोरेशन बैंक
जयऑटोमोबाइल्स
जी टी रोड, मंगलोर चौकी
देवबंद-247554
जिला : सहारनपुर
542. कापोरेशन बैंक
कपूर नर्सिंग होम के निकट
इलाहाबाद बैंक रोड,
इलायट चौक
झांसी - 284001
543. कापोरेशन बैंक-सेवा शाखा
सी/3, द्वितीय तल
सेंटर कोर्ट रोड बिल्डिंग
5, पार्क रोड
लखनऊ-226001
544. कापोरेशन बैंक
6-बी, कृष्णानगर
गोवर्धन नगर
मथुरा -281004
545. कापोरेशन बैंक
बंजारन तहसील रोड
नकुर-247342
जिला - सहारनपुर
546. कापोरेशन बैंक
चक्रौता रोड
बस स्टैण्ड के निकट
बेहत-247121
जिला - सहारनपुर
547. कापोरेशन बैंक
राघव नगर
देवरिया-274001
548. कापोरेशन बैंक
मिनी कैप्स
जीवन विकास, 16/98
एम जी मार्ग, द माल
कानपुर-208001
549. कापोरेशन बैंक कैप्स
सी/3, द्वितीय तल
सेंटर कोर्ट रोड बिल्डिंग
5, पार्क रोड
लखनऊ-226001
550. कापोरेशन बैंक
जीवन प्रकाश
भा जी बी नि भवन
प्रभात नगर, मेरठ -250001
551. कापोरेशन बैंक
रामलीला मैदान
बुध बाजार,
पाकबाड़ा-244102
जिला- मुरादाबाद
552. कापोरेशन बैंक
238, कोतियात सिविल लाइंस
पुराना जिला जेल के सामने
हरिहर प्रेस कम्पाउण्ड
बुलन्दशहर -247554

553. कार्पोरेशन बैंक
टीचर्स कॉलोनी
बिजनौर रोड
गजरौला -244235
जिला- मुरादाबाद
554. कार्पोरेशन बैंक
सी -7
एल आई सी
राजाजीपुरम्
लखनऊ- 226017
555. कार्पोरेशन बैंक
लीला स्ट्रीट इम्पोरियम बिल्डिंग
रायबरेली रोड, गौधीनगर
तेलीबाँग, लखनऊ -226002
556. कार्पोरेशन बैंक
सं. 15/28/8
हरथला
मुरादाबाद-244001
557. कार्पोरेशन बैंक
स्टेशन रोड
छतरी चौराहा
पीलीभीत -262001
558. कार्पोरेशन बैंक
सी-51, आवास विकास
नैनीताल रोड,
रुद्रपुर -263153
जिला- उधमसिंहनगर
559. कार्पोरेशन बैंक
मुहल्ला लाल मोहम्मद
जी टी रोड,
खतौली -251201
जिला- मुजफ्फरनगर
560. कार्पोरेशन बैंक
व्हाइट्स रोड शाखा
38 एवं 39, व्हाइट्स रोड
चेन्नै -600 014
561. कार्पोरेशन बैंक
टी. नगर शाखा
सं. 41, वेंकटरायाणा रोड
टी. नगर, चेन्नै -600 017
562. कार्पोरेशन बैंक
जार्ज टाउन शाखा
101, आर्मेनियम स्ट्रीट
जार्ज टाउन
चेन्नै -600 001
563. कार्पोरेशन बैंक
सेठ इनक्लेव, मेन रोड
पी डब्ल्यू डी गेस्ट हाउस के सामने
सिविल कोर्ट रोड,
शाहजहाँपुर -242001
564. कार्पोरेशन बैंक
जिगनी
सं. 45, निसर्ग नंदना
कोप्पा गेट के पास
बन्नरघट्टा-जिगनी रोड
बेंगलूर -560 083
565. कार्पोरेशन बैंक
केल्लीस कार्नर शाखा
12, आर्म्स रोड
डाक पेटी सं. 113, केल्लीस
कार्नर, कीलपॉक
चेन्नै -600 010
566. कार्पोरेशन बैंक
मिंट स्ट्रीट शाखा
378, प्रथम तल, मिंट स्ट्रीट
साहूकारपेट, चेन्नै -600 079
567. कार्पोरेशन बैंक
वाणिज्यिक एवं वैयक्तिक
बैंकिंग शाखा, 58, प्रथम
अवेन्यु, न्यु-टेक विकास, 100
फीट रोड, अशोक नगर
चेन्नै -600 083
568. कार्पोरेशन बैंक
धीमनपुरा
शामली -247776
जिला -मुजफ्फरनगर
569. कार्पोरेशन बैंक
आंचलिक कार्यालय
38 एवं 39, व्हाइट्स रोड
चेन्नै -600 014
570. कार्पोरेशन बैंक
ईंदिरा नगर शाखा
77, पहला एवेन्यू
ईंदिरा नगर, अडयार
चेन्नै -600 020
571. कार्पोरेशन बैंक
रिटेल आस्ति हब
भू-तल, 161, लिंगी चेट्टी
स्ट्रीट, चेन्नै -600 001

572. कापोरेशन बैंक
आंचलिक लेखा परीक्षा कार्यालय
भू-तल, 161, लिंगी चेट्टी
स्ट्रीट, चेन्नै -600 001
573. कापोरेशन बैंक
हैदराबाद-नागोल शाखा
2-3-554, सड़क सं. 2,
साईनगर कालोनी
नागोल
हैदराबाद -500068
आंध्र प्रदेश
574. कापोरेशन बैंक
नार्कटपल्ली शाखा
स्टोर कांप्लेक्स, मेडिकल
कॉलेज कैंपस
श्रीपुरम
नार्कटपल्ली-508254
जिला नलगोण्डा
आंध्र प्रदेश
575. कापोरेशन बैंक
जगित्याल शाखा
प्रथम तल, सं. 3-5-24
नए बस अड्डे के आउट गेट के पास
जगित्याल-505327
जिला करीमनगर
आंध्र प्रदेश
576. कापोरेशन बैंक
मूसा काम्प्लेक्स
म्यूनिसिपल बस स्टैन्ड के पास
मलप्पुरम-676 505
577. कापोरेशन बैंक
हैदराबाद-मादन्नापेट शाखा
प्रथम तल, सं. 17-1-
178/4/28
मदन्नापेट
हैदराबाद-500059
आंध्र प्रदेश
578. कापोरेशन बैंक
नलगोण्डा शाखा
5-4-61 (पुराना), 5-4-76 (नया)
चर्च कंपाउंड एरिया, प्रकाशम
बाजार रोड
नलगोण्डा-508 001
जिला नलगोण्डा
आंध्र प्रदेश
579. कापोरेशन बैंक
भानुर शाखा
भूमि तल, प्लाट सं. 10,
लहरी रिसोर्ट्स के पास
पटानचेरु-शंकरपल्ली रोड
भानुर -502305
जिला मेदक आंध्र प्रदेश
580. कापोरेशन बैंक
इंडतिल बिल्डिंग
सीसी 16/990-3, पी टी
जेकब रोड तोप्पुमपडी
कोच्चि- 682005
581. कापोरेशन बैंक
संगारेडडी शाखा
रोशनी कांप्लेक्स, प्लाट
सं. 10-70
पोतिरेडडीपल्ली क्रास रोड,
पोतिरेडडीपल्ली
संगारेडडी-502 001
जिला मेदक
582. कापोरेशन बैंक
मिर्यालगुडा शाखा
प्रथम तल, ब्लू व्हेल पालेस
रेडडी कालोनी
मिर्यालगुडा-508207
जिला नलगोण्डा
आंध्र प्रदेश
583. कापोरेशन बैंक
कुरियकल टॉवर्स
पूकाट्टूपडी रोड
इडपल्ली टोल
इडपल्ली-682 024
584. कापोरेशन बैंक
डी नं. 6/505 सी
प्रकाश एस्टेट
नार्त परूर-
683 513
585. कापोरेशन बैंक
सं. 204/12, वट्टमपाडम
जमनघाट-679 563
586. कापोरेशन बैंक
प्रथम तल
किडसन गार्डन
एस एम स्ट्रीट
कोषिकोड-673 001

587. कार्पोरेशन बैंक
निचला तल, XVII/240
(7, 8, एवं 9)
पेंडानाड प्लाजा,
वेल्लापाडू पाला एट्टुमानूर रोड
पाला - 686 575

588. कार्पोरेशन बैंक
एमपी टॉवर्स, टी सी रोड,
चिरक्करा
तलशेरी-670 101

589. कार्पोरेशन बैंक
प्रथम तल, मूर्द मादा
काम्प्लेक्स काजंगाड- पानत्तूर रोड
मालक्कल्लू होसदार्ग तालुक
कासरगोड-671 532

590. कार्पोरेशन बैंक
(सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक)
बी.जी.-1, भूतल,
बी विंग, डेल्टा,
हिरानंदानी बिजनेस पार्क
पवई, मुंबई - 400 076
महाराष्ट्र

591. कार्पोरेशन बैंक
386/सी 1, निचला तल
"कुट्टीत्तरा", प्राईवेट बस
स्टैंड के पास, मावेलीपुरम,
सीपोर्ट-एयरपोर्ट रोड
काक्कनाड-670 101

592. कार्पोरेशन बैंक
निचला तल
होसबेट्टु, कार-स्ट्रीट
मंजेश्वर, कासरगोड तालुक
कासरगोड-671 323

केनरा बैंक

593. मारवाडी कॉलेज, रांची
मारवाडी कॉलेज कैम्पस
हिन्दी पिरी, लेक रोड
रांची- 834 001
राज्य - झारखण्ड

594. टीआरएफ, जमशेदपुर
स्टेशन रोड,
11 बर्मा माइन्स
जमशेदपुर 931 007
जिला - पूर्व सिंहभूम
राज्य - झारखण्ड

595. बोकारो स्टील सिटी,
होली क्रॉस स्कूल
बालिडीह
बोकारो स्टील सिटी - 827010
जिला- बोकारो
राज्य - झारखण्ड

596. गिरीडीह
गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा
स्टेशन रोड, गुरुनानक मार्ग
गिरीडीह - 815301
जिला- गिरीडीह
राज्य - झारखण्ड

597. सरायकेला
वार्ड नं. 2, पुलिस स्टेशन के पास
सरायकेला - 833219
जिला- सरायकेला-खोर्दहान
राज्य - झारखण्ड

598. बी आई ए एल शाखा
बंगलूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शाखा
भूमितल
बी आई ए एल कॉम्प्लेक्स
देवनहल्ली - 562 110

599. कुदूर शाखा
आदित्या कॉम्प्लेक्स
फोर्ट रोड
मागडी तालुक
रामनगर जिला
कुदूर- 562 127

600. डाबसपेट शाखा
मारुति कॉम्प्लेक्स
मधुगिरि रोड
डाबसपेट - 562 111

601. जी बी आई टी शाखा
गोल्डन वैली इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी शाखा
ऊँरगाँव पोस्ट
के जी एफ, रोबर्टसनपेट - 563 120

602. गुब्बी शाखा
तीसरा क्रोस
महालक्ष्मी नगर
ट्रावलर्स बंगला के सामने
एम जी रोड, गुब्बी टाउन
गुब्बी तालुक
तुमकूर जिला - 572 216

603. श्रीनिवासपुरा शाखा
43, एम जी रोड
गवर्मेन्ट गर्ल्स जूनियर कॉलेज के सामने
श्रीनिवासपुरा
कोलार जिला - 563 135

604. अरिसिनकुटे शाखा
संख्या : 2511, माहति कॉम्प्लेक्स
गेजगानहल्ली मेन रोड
अरिसिनकुटे
नेलमंगला तालुक
बेंगलूर ग्रामीण जिला - 562 123

605. मागडी शाखा
बेंगलूर मंगलूर रोड
रामनगर जिला
मागडी-562 120

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई
राजभाषा नियम 10(4) में अधिसूचनार्थ संस्तुत शाखाएं/
कार्यालय

क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

606. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
वैशाली नगर शाखा,
डी-344, हनुमान नगर,
आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर,
जयपुर 302021

क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

607. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
शिया डिग्री कालेज शाखा,
सिंघल मार्केट, कॉम्प्लेक्स अलीगंज,
रेलवे क्रासिंग के सामने
ब्रम्ह नगर, सीतापुर रोड,
लखनऊ उत्तर प्रदेश

क्षेत्रीय कार्यालय, रांची

608. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
रामगढ़ कैंट शाखा,
झण्डा चौक, राष्ट्रीय राजमार्ग -33,
रामगढ़ -829122
जिला- हजारीबाग, झारखण्ड

क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़

609. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
नरवाना शाखा,
दलीप चन्द मार्केट नजदीक अपोलो चौक
नरवाना-जिला जीन्द-126416

610. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
हुड्डा आफिस सोनीपत शाखा,
दिल्ली रोड, सेक्टर 14,
सोनीपत - 131001

611. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
सेवा शाखा चंडीगढ़,
सेक्टर -17, बी, बैंक स्कवेयर
एस. सी. ओ. 64-65, द्वितीय तल,
चंडीगढ़-160017

क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे

612. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
अलीबाग शाखा,
सिध्दिविनायक कॉ हा सो लि.
तल मंजिल, ब्राम्हण आली,
सिध्दिविनायक मंदिर के पीछे
पोस्ट अलीबाग, जिला रायगढ़ 402201

क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे

613. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
औंध शाखा,
शॉप क्र. 3 एवं 4, कल्पतरु एनक्लेव
होटल शिवसागर के सामने
डी. पी. रोड, औंध
पुणे 411 007

क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर

614. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
रंजीत एवेन्यू अमृतसर शाखा,
बी ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
एस सी ओ, 21 हेमकुन्ट बिल्डिंग
रंजीत एवेन्यू अमृतसर 143001 (पंजाब)

615. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
मंडी गुरदासपुर शाखा,
514, जी. टी. रोड, मंडी
गुरदासपुर 143521 (पंजाब)

616. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
अर्बन इस्टेट फेज II जालंधर
एस सी ओ 31 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
अर्बन इस्टेट, फेज II
जालंधर- 144022 (पंजाब)

क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर

617. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
ढेंकानाल शाखा,
मीना बाजार, जगन्नाथ रोड,
ढेंकानाल - 759 001

618. यूनिन बैंक ऑफ इंडिया,
सेवा शाखा, भुवनेश्वर
102, जनपथ,
भुवनेश्वर - 751 001 ओड़िशा

619. यूनिन बैंक ऑफ इंडिया,
बरिपदा शाखा,
लाल बाजार, बारिपदा,
जिला-मयूरभंज - 757 001 ओड़िशा

राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत भारत
सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने वाले इंडियन
बैंक के कार्यालयों/शाखाओं की सूची
राज्य : हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश
अंचल कार्यालय - चंडीगढ़

620. इंडियन बैंक,
कैथल शाखा चांदनी चौक
पुरानी सब्जी मण्डी, कैथल - 136027
जिला - कैथल (हरियाणा)

621. इंडियन बैंक,
सेक्टर -21, पंचकूला शाखा
डी एस एस -184, मेन मार्केट सेक्टर -21
पंचकूला - 134112 (हरियाणा)

622. इंडियन बैंक,
गोराया शाखा जी टी रोड
गोराया - 144409
जिला - जालंधर (पंजाब)

623. इंडियन बैंक,
डेरा बस्सी शाखा
गुरबक्श कॉलोनी
बरवाला रोड
डेरा बस्सी - 140507
जिला - एसएस नगर, मोहाली (पंजाब)

624. इंडियन बैंक,
सेक्टर-45, चंडीगढ़ शाखा
एस सी ओ : 62-63
केशोराम कॉम्प्लैक्स
बुडेल
सेक्टर -45
चंडीगढ़ - 160 047

625. इंडियन बैंक,
मंडी गोविंदगढ़ शाखा
संत रामजी दास स्टील एवं आयरन
रोलिंग मिल
अभलोह रोड
मंडी गोविंदगढ़ - 147301
जिला - फतेहगढ़ साहब (पंजाब)

626. इंडियन बैंक,
एसएस नगर शाखा
एस सी एफ -14
फेज -11
एस ए एस नगर
मोहाली 1600062 (पंजाब)

627. इंडियन बैंक,
जीरकपुर शाखा
शो रूम साइट नं. 1
कालका -जीरकपुर हाईवे
होटल डॉल्फिन के निकट
एन ए सी जीरकपुर 160055
जिला -मोहाली (पंजाब)

628. इंडियन बैंक,
मंडी शाखा
निशांत टेंट हाउस के ऊपर
सौली खड्ड
मंडी-175001
जिला -मंडी
(हिमाचल प्रदेश)

629. इंडियन बैंक,
चौड़ा मैदान
दुकान सं. 3
चौड़ा मैदान
शिमला -171004
जिला - शिमला (हिमाचल प्रदेश)

630. इंडियन बैंक,
ऊना शाखा
अम्ब रोड
ऊना -174303
(हिमाचल प्रदेश)

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

631. ओडीसा क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर
632. जम्मू और कश्मीर क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू
633. गोवा क्षेत्रीय कार्यालय, पणजी
634. अंडमान और निकोबार क्षेत्रीय कार्यालय, पोर्टब्लेअर
635. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मंगलूर
636. पश्चिम बंगाल क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता
637. अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, इटानगर

भारतीय रिजर्व बैंक

638. भारतीय रिजर्व बैंक, सचिवालय मार्ग, सैफाबाद,
हैदराबाद- 500004
639. भारतीय रिजर्व बैंक, पान बाजार, स्टेशन रोड,
गुवाहाटी- 781001

640. भारतीय रिजर्व बैंक, 15, नेताजी सुभाष रोड,
कोलकाता- 700001

दि ओरियण्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

641. क्षेत्रीय कार्यालय, अंबाला
642. मण्डल कार्यालय -2, जम्मू

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
New Delhi, the 24th April, 2012

S. O. 1591.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purpose of the Union) Rules, 1976 (as amended 1987) the Central Government hereby notifies following branches/offices of Banks/Financial Institutions/Insurance Companies under the control of Department of Financial Services, M/o Finance, whereof more than 80% officers/staffs have acquired working knowledge of Hindi.

S.No.	Name of Banks/Financial Institutes/ Insurance companies (As per enclosed list)	Number of branches/offices
1.	State Bank of Hyderabad	161
2.	Punjab & Sind Bank	150
3.	Punjab National Bank	100
4.	Oriental Bank of Commerce	71
5.	Syndicate Bank	57
6.	Corporation Bank	53
7.	Canara Bank	13
8.	Union Bank of India	14
9.	Indian Bank	11
10.	National Bank For Agriculture-And Rural Development	07
11.	Reserve Bank of India	03
12.	The Oriental Insurance Company Limited	02
	Total	642

[No. 11016/1/2012-Hindi]

C. P. DHAUNDIYAL, Jt. Director

AURANGABAD ZONE

1. State Bank of Hyderabad
Kinhi Branch,
At PO Kinhi,
Taluka Bhokar, Distt. Nanded,
Maharashtra-431801
Tele: 02467-230222
2. State Bank of Hyderabad
Umerkhed Branch,
Property No. 118, Indira Gandhi
Ward, Umerkhed, Distt.
Yeotmal, Maharashtra-445206
Tele: 07231-237205

3. State Bank of Hyderabad
Shrirur Anantpal Branch,
Shri VV Dhumle's House Near BSNL
Exchange, Taluka: Shrirur
Anantpal, Dist. Latur-413544, MH
Tele: 02384-250131
4. State Bank of Hyderabad
Jamner Branch,
Anantwadi, near Ice Factory, HN
2193, CTS-3914, Jamner, Distt.
Jalgaon, Pin-424206
5. State Bank of Hyderabad
Faizpur Branch,
Subhash Chowk, CTS No. 1846/47 Main
Market, Faizpur-425303
Distt. Jalgaon, MH
6. State Bank of Hyderabad
Sangola Branch,
Dnyaneshwar Complex, Newar
Mahatma Phule Chowk, Highway Road
Distt. Sholapur-431307, Maharashtra
7. State Bank of Hyderabad
Ghatnandur Branch,
Main Road, Ghatnandur, Tq.
Ambajogai, Distt.
Beed-431519, Maharashtra
Tele: 2446-252001
8. State Bank of Hyderabad
Purna Branch,
Mahaveer Nagar, Purna, Distt.
Parbhani-431511, Maharashtra,
Tele: 02452-254055
9. State Bank of Hyderabad
Chikhli Branch,
Off Khandala Road, Behind Bus
Stand, Chikhli, Distt. Bhuldhana-443201
Maharashtra,
Tele: 07264-242261
10. State Bank of Hyderabad
Ardhapur Branch,
Baig Complex, Hanuman Chowk,
Main Road, Ardhapur Distt.
Nanded-431704, Maharashtra
11. State Bank of Hyderabad
Mukramabad Branch,
Gajwar Sanjay Narsing Rao, Mukramabad
Tal. Mukhed, Distt. Nanded-Maharashtra
12. State Bank of Hyderabad
Ausa Branch,
Wagdara Complex, Main Road,
Ausa Distt. Latur, Maharashtra-413520

- | | |
|---|---|
| <p>13. State Bank of Hyderabad
Shrirur Tajband Branch,
H M Patil/Complex, Shrirur Tajband,
Distt. Latur, Maharashtra-413514</p> <p>14. State Bank of Hyderabad
Washi Branch,
H N 1417 Main Market, Near Bus Stand,
Washi, Tal. Washi, Distt.
Osmanabad, Maharashtra</p> <p>15. State Bank of Hyderabad
Lasalgaon Branch,
Gala No. D/1 Radhai Sankul, Market Road,
Lasalgaon, Distt. Nashik, Maharashtra-422306</p> <p>16. State Bank of Hyderabad
Niphad Branch,
Plot No. 11 CTS No. 1772/A,B, Bagmar Estate, Niphad
Distt. Nasik, Maharashtra-422303</p> <p>17. State Bank of Hyderabad
Sinner Branch,
Gut No. 926, Near Sinnar College, Nasik
Pune Road, Tal Sinnar, Dist. Nasik,
Maharashtra-422103</p> <p>18. State Bank of Hyderabad
Collectorate Complex, Latur Branch,
Collector Office Building, Latur, Maharashtra-
413531</p> <p>19. State Bank of Hyderabad
Ambajogai Road, Latur Branch,
Venkatesh Nagar, Opp. Amba Hanuman
Mandir, Ambajogai Road, Latur,
Maharashtra-413531</p> <p>20. State Bank of Hyderabad
Renapur Branch,
H N-2376, Renapur Latur Dist.
Maharashtra-413527</p> <p>21. State Bank of Hyderabad
Market Yard Latur Branch,
Plot No. 10/11 Hotel Padam Building,
Opp. Market Yard Gate No. 2 Kava Road,
Manthale Nagar-Latur Distt.
Maharashtra-413514</p> <p>22. State Bank of Hyderabad
Gurudwara Nanded Branch,
Dashmesh Hospital Compound,
Gurudwara Gate No. 2 Nanded,
Maharashtra-431602</p> <p>23. State Bank of Hyderabad
Barad Branch,
Gram Panchayat Complex, Barad
Tal. Mukhed, Distt. Nanded,
Maharashtra-431745</p> | <p>24. State Bank of Hyderabad
Degloor Naka Branch,
No. 9-4-1350, Chawalwala
Complex, Degloor Naka, Nanded,
Maharashtra-431602</p> <p>25. State Bank of Hyderabad
SRTM University Nanded Branch,
H N-218, Sanik Niwas, Opp. Govt.
Medical//College, Vishnupuri, Nanded,
Maharashtra-431601</p> <p>NEW DELHI ZONE</p> <p>26. State Bank of Hyderabad
Anugul Branch (21195)
Anugul-759122-Orissa (State)</p> <p>27. State Bank of Hyderabad
Badshahpur Branch (21309)
1420, Rama Complex, Main Sohna Road,
Near S B I, Badshahpur,
Gurgaon- 122101
Gurgaon (Dist.) Haryana (State)</p> <p>28. State Bank of Hyderabad
Berhampur Branch (20602)
Station Road, Hillpatna
Berhampur- 760005
Ganjam (Dist.) -Orissa (State)</p> <p>29. State Bank of Hyderabad
Bhubaneswar-
Chandrasekharpur Branch (21187)
District Centre, Chandrasekharpur,
Bhubaneswar- 751016
Orissa (State)</p> <p>30. State Bank of Hyderabad
Bhubaneswar Branch (20549)
Ground Floor, Ipicol House,
Janpath, Unit-IX
Bhubaneswar-751022
Orissa (State)</p> <p>31. State Bank of Hyderabad
Bhubaneswar- Jagmara Branch (20725)
Jagamara, Khandagiri,
Bhubaneswar- 751030
Orissa (State)</p> <p>32. State Bank of Hyderabad
Bhubaneswar-Goda Gopinath Branch (20724)
217, Narayani Motors,
Cuttack Road, Jharpada, Cuttack Road,
Bhubaneswar- 751006
Orissa (State)</p> <p>33. State Bank of Hyderabad
Cuttack-Badambadi Branch (21068)
Link Road, Near Arunodaya Market,
Cuttack- 753012
Cuttack (Dist.)-Orissa (State)</p> |
|---|---|

34. State Bank of Hyderabad
Bhubaneswar-Rajamaharal Square Branch (21194)
Plot No. 7, 1st Floor, Shakuntala Bhawan
Rajmaharal Square, Ashok Nagar,
Bhubaneswar-751009
Cuttack (Dist.)-Orissa (State)
35. State Bank of Hyderabad
Delhi-CAC, Kailash Colony Branch (21079)
36, Community Centre
Elite House, Zamrudpur,
New Delhi- 110048
New Delhi (Dist) -Delhi (State)
36. State Bank of Hyderabad
Cuttack-Bijupatnaik Chowk Branch (20722)
926/1046, Plot No. 661/866
Kanika Chhak, Tulasipur,
Cuttack -753008
Cuttack (Dist)- Orissa (State)
37. State Bank of Hyderabad
Delhi-Karol Bagh Branch (20918)
East Park Road, Karol Bagh,
New Delhi- 110005
Delhi (State)
38. State Bank of Hyderabad
Delhi-Karkardooma Branch (21375)
H. No. 05, Hargovind Enclave,
New Delhi-110092
New Delhi-Delhi (State)
39. State Bank of Hyderabad
Delhi-Patparganj Branch (21310)
B-139, Kumaun Square, West
Vinod Nagar,
New Delhi-110092
Delhi (State)
40. State Bank of Hyderabad
Delhi-Paschim Vihar Branch (21277)
Meerabagh, Paschimvihar
New Delhi- 110087
New Delhi-Delhi (State)
41. State Bank of Hyderabad
Delhi-Rasmeccc Branch (21016)
D. B. Gupta Road, Karol Bagh
New Delhi - 110005
Delhi (State)
42. State Bank of Hyderabad
Delhi-Pitampura Branch (21224)
H P -6, Mourya Enclave
Opposite Gopalmandir, Pitampura
New Delhi-110088
New Delhi-Delhi (State)
43. State Bank of Hyderabad
Delhi-Vikaspuri Branch (21276)
New Delhi- 110018
Delhi (State)
44. State Bank of Hyderabad
Delhi-Rohini Branch (21223)
Block No. E- 2/25, Ground Floor
Sector -7, Rohini
New Delhi-110085
New Delhi- Delhi (State)
45. State Bank of Hyderabad
Ghaziabad- Indrapuram Branch (21318)
Ground Floor, Hall No. 2,
Guar Gravity Mall, Gaur Green
City, 8-Vaibhavkhand
Indrapuram, Ghaziabad- 201014
Ghaziabad (Dist)- Uttar Pradesh (State)
46. State Bank of Hyderabad
Gurgaon- Sector-10A Branch (21243)
Sco 87, Huda Market
Khandsa Road, Sector 10A
Gurgaon- 122001
Gurgaon (Dist) - Haryana (State)
47. State Bank of Hyderabad
Gurgaon-Old Railway Road Branch (21244)
646, B/9, Kabir Bhawan Chowk
Old Railway Road, Subhashnagar-122001
Gurgaon (Dist) - Haryana (State)
48. State Bank of Hyderabad
Kolkata - Brabourne Road
(Burra Bazaar) Branch (20360)
Kolkata-700001
Kolkata (Dist) -West Bengal (State)
49. State Bank of Hyderabad
Indore- R N T Marg Branch (21090)
UG 3, Corporate House
Indore - 452001
Indore (Dist) - Madhya Pradesh (State)
50. State Bank of Hyderabad
Kolkata-P &SB Branch (20806)
Sarat Bose Road, Opp.
Deshapriya Park
Kolkata -700026
Kolkata (Dist) -West Bengal (State)
51. State Bank of Hyderabad
Kolkata - Howrah BR Branch (20811)
72, Jay Apartment
Panchanantala Road, Howrah
Howrah - 711101
Kolkata (Dist) - West Bengal (State)
52. State Bank of Hyderabad
Kolkata - Rajar Haat Branch (21347)
Ground Floor, Beside Charnock Hospital
Rajarhat Mega City- 700059
Kolkata (Dist) - West Bengal (State)

53. State Bank of Hyderabad
Kolkata - Park Street Branch (20833)
113 Park Street, Poddar Point
Kolkata - 700016
Kolkata (Dist) - West Bengal (State)
54. State Bank of Hyderabad
Lucknow- Aliganj Branch (21168)
93. H.I.G Sector -E
G.S.I. Road, Aliganj
Lucknow- 226024 (Phone : 0522-2335343)
Lucknow (Dist) - Uttar Pradesh (State)
55. State Bank of Hyderabad
Kolkata - Salt lake City Branch (21258)
C. F. 330, Sector-1
Kolkata - 700064
Kolkata (Dist) - West Bengal (State)
56. State Bank of Hyderabad
Paradeep Branch (21212)
Plot No. 447/30, Nigam Nivas
Bijayachandrapur, Iffco Chowk
Paradeep - 754142
Jagatsingpur (Dist) - Orissa (State)
57. State Bank of Hyderabad
Ludhiana- Ferozepur Branch (21346)
Opposite Hotel Park, Ferozepur Road
Ludhiana - 141001
Ludhiana (Dist) - Punjab (State)
58. State Bank of Hyderabad
Delhi - Janakpuri Branch (21275)
New Delhi - 110058
Delhi (State)
59. State Bank of Hyderabad
Regional Office, Delhi
882, 1st Floor
East Park Road, Karolbagh
New Delhi - 110005
Delhi (State)
60. State Bank of Hyderabad
Wazirpur Branch (21274)
Pataudi Road, V.P.O. Wazirpur
Gurgaon - 122505
Gurgaon (Dist) - Haryana (State)
61. State Bank of Hyderabad
Zirakpur Branch (21317)
Showroom No. 6-6 A, Ground Floor
Taggar Tower, Balaji Enclave,
Patiala Road
Zirakpur - 140603
Chandigarh (Dist) - Punjab (State)

GULBARGA ZONE

62. State Bank of Hyderabad
Service Branch
First Floor, Zonal Office Bldg.
Gulbarga - 585101
Karnatak (State)
63. State Bank of Hyderabad
H RBR Layout Branch
06, 3rd Block
Nehru Road, HRBR Layout,
Kammanahalli
Bangalore - 560084
Bangalore (Dist) - Karnataka (State)
64. State Bank of Hyderabad
H S R Layout Branch (21157)
945, 5th Main, 21st Cross, Sector-7
Bangalore - 560102
Bangalore (Dist) - Karnataka (State)
65. State Bank of Hyderabad
Indiranagar Branch
100 ft Road, Indiranagar 1 Stage
Bangalore - 560038
Bangalore (Dist) - Karnataka (State)
66. State Bank of Hyderabad
Bangalore - J P Nagar Branch (20979)
72/1B, Jaraganahalli
Kanakapura Main Road,
J.P. Nagar, 6th Phase,
Bangalore (Dist) - Karnataka (State)
67. State Bank of Hyderabad
Mahalakshmi Layout Branch (21158)
13th Cross, Mahalakshmi Layout
Bangalore - 560086
Bangalore (Dist) - Karnataka (State)
68. State Bank of Hyderabad
Marathahalli Branch (21033)
90 1st Floor, Chinnappanahalli
Anandanagar, Outer Road - 560037
Bangalore (Dist) - Karnataka (State)
69. State Bank of Hyderabad
Bangalore Rasmecce Branch
J. C. Road, Near Old Shivaji Theatre
Bangalore - 560002
Bangalore (Dist) - Karnataka (State)
70. State Bank of Hyderabad
Chandra Layout Branch
80 Ft Road, Chandra Layout,
Bangalore - 560040
Bangalore (Dist) - Karnataka (State)
71. State Bank of Hyderabad
Hassan Branch
Complex, Bus Stand Road
Hassan - 573201
Hassan (Dist) - Karnataka (State)

72. State Bank of Hyderabad
Kathak Chincholi Branch (20467)
2561, Kadaganchi
Basava Temple, Khatakchincholi
Taluka Bhalki- 585429
Bidar (Dist) - Karnataka (State)

73. State Bank of Hyderabad
Bheemarayangudi Branch (20402)
UKP Cada Camp,
Bheemarayangudi
Shahapur - 585287
Gulbarga (Dist) - Karnataka (State)

HYDERABAD ZONE

74. State Bank of Hyderabad
HYD - Adarshnagar Branch (20263)
5-9-22/113, Gurukrupa
Hill Fort Road, Adarshnagar
Hyderabad - 500063 (Phone: 040-23231535)
Hyderabad (Dist) - Andhra Pradesh (State)

75. State Bank of Hyderabad
HYD - Centralised Clg Proc Centre Branch (20577)
H. No.3-5-804 & 3-5-804/2, 2nd Flr Second Floor,
Hyderguda
Hyderabad- 500029 (Phone : 040-23242251)
Hyderabad (Dist) - Andhra Pradesh (State)

76. State Bank of Hyderabad
HYD- City Branch (20073)
First Floor, Charminar Hotel Buld
Sabarjung Musium Roa, Nayapul,
Hyderabad - 500002 (Phone: 040-24523515)
Hyderabad (Dist) - Andhra Pradesh (State)

77. State Bank of Hyderabad
HYD - Exhibition Grounds Branch (20065)
Beside Ajantha Gate, M J Road Nampally
Hyderabad- 500001 (Phone: 040-24747275)
Hyderabad (Dist) - Andhra Pradesh (State)

78. State Bank of Hyderabad
HYD - Himayathnagar Branch (20067)
3-5-906, Swarnamukhi Complex
Himayathnagar, Himayathnagar X Roads
Hyderabad -500029 (Phone: 040-23223336)
Hyderabad (Dist) -Andhra Pradesh (State)

79. State Bank of Hyderabad
HYD - Hussaini Alam Branch (20068)
Hussainialam, Moosa Bowli
Hyderabad- 500064 (Phone: 040-24520394)
Hyderabad (Dist) - Andhra Pradesh (State)

80. State Bank of Hyderabad
HYD - M C Tankbund Branch (20432)
GHMC Building, GHMC HO Building
Municipal Complex, Liberty, Tank Bund Road
Hyderabad - 500063 (Phone: 040-23228923)
Hyderabad (Dist) - Andhra Pradesh (State)

81. State Bank of Hyderabad
HYD - Malakpet Branch (20061)
16-7-384, beside sahifa masjid
Azampura Malakpet
Hyderabad- 500024 (Phone: 040-24520524)
Hyderabad (Dist) - Andhra Pradesh (State)

82. State Bank of Hyderabad
HYD - NRI Branch (20740)
5-9-62, Khan Lateef Khan E S T
Fateh Maidan Club RO, Nampally
Hyderabad- 500001 (Phone: 040-23236538)
Hyderabad (Dist) - Andhra Pradesh (State)

83. State Bank of Hyderabad
HYD - Osmania University Branch (20071)
OU Campus, OU Campus
Hyderabad- 500007 (Phone: 040-27098052)
Hyderabad (Dist) - Andhra Pradesh (State)

84. State Bank of Hyderabad
HYD - Puranapul Branch (20088)
14-10-1284 & 1286, 1st Floor
Opp Gandhi Statue, Puranapul Junction
Hyderabad- 500006 (Phone: 040-24732348)
Hyderabad (Dist) - Andhra Pradesh (State)

85. State Bank of Hyderabad
HYD - RACPC Branch (20994)
4-1-327 to 337 4th F, Sagar Plaza
Bank Street, Abids
Hyderabad- 500001 (Phone: 040-24762305)
Hyderabad (Dist) - Andhra Pradesh (State)

86. State Bank of Hyderabad
HYD - Saidabad Branch (20345)
17-2-626/38, SBH Saidabad
Near Dhobi Ghat Chou, Saidabad
Hyderabad- 500059 (Phone: 040-24520355)
Hyderabad (Dist) - Andhra Pradesh (State)

87. State Bank of Hyderabad
HYD - Smeccc Branch (21122)
3-5-804/2, Near Bharatiya Vidya Hyderabad,
Hyderabad- 500029 (Phone: 040-23241217)
Hyderabad (Dist) - Andhra Pradesh (State)

88. State Bank of Hyderabad
HYD - Vidyanagar Branch (20095)
1-9-647, DR. K L Rao Residency
Adikmet Road, Vidyanagar
Hyderabad- 500044 (Phone: 040-27617489)
Hyderabad (Dist) - Andhra Pradesh (State)

89. State Bank of Hyderabad
Dondapadu (Nalgonda Dist)
Branch (20398)
Seethapuram Colony, Dondapadu
Mellachervu Mandal- 508246
(Phone: 08683-235234)
Nalgonda (Dist) -
Andhra Pradesh (State)

MUMBAI REGION

90. State Bank of Hyderabad
Kharghar Branch
Ekta avenue,
Shop No. 5-8, Sector No. 12,
Near Gokhale High School, Kharghar, .
New Mumbai-410 210
91. State Bank of Hyderabad
New - C.G Road Branch
Sarjan-II, Sarah Co-op Society,
Ground Floor, Shop No. 29-34,
New C. G. Road, Chandkheda,
Ahmedabad.
92. State Bank of Hyderabad
CCPC Pune Branch
Opp : Gokhale Hall
Laxmi Road, Pune- 411 030
93. State Bank of Hyderabad
Ghodbunder Road Branch
Saraswati Vidyalayaya Building,
Shop No. 1 to 5, Ground Floor
Kavesar,
Ghodbunder Road, Thane (West)- 400 601
94. State Bank of Hyderabad
Hadapsar Branch
Farena, Hadapsar,
Near Magarpatta, Pune- 411 028
95. State Bank of Hyderabad
Seawoods Branch
Shreeji Heights
Ground Floor, Plot No. 1,
Sector-46A, Palm Beach Road,
Nerul East, Navi Mumbai-400 706
96. State Bank of Hyderabad
Khadakpada Branch
Brindavan Vatika, Ground Floor,
Opp. Reliance Fresh/Cinemax,
Near KDMC, B Ward Office,
Khadakpada, Kalyan (West),
Dist. Thane-421 301
97. State Bank of Hyderabad
Virar Branch
Kshitij Building, Shop No.20-28,
Gokul Township, Agashi Road,
Virar (W), Dist. Thane- 401 303
98. State Bank of Hyderabad
Kolshet Road Branch
Vakrutunda Residency,
Bhutul Shop No. 1-6,
Dhakoli Naka, Kolshet Road,
Thane (West)- 400 602
99. State Bank of Hyderabad
Rasmeecc Branch
Warden House, Ground Floor.
Plot No. 65, Sector-11,
Near K Star Hotel.
CBD Belapur,
Navi Mumbai- 400 614
100. State Bank of Hyderabad
Meera Road Branch
Rashmi Prime Corner,
Opp. Kanakia Police Station,
1st Floor, Off Mira Bhayander Road,
Mira Road (East)- 40 107
101. State Bank of Hyderabad
Rasmeecc Branch
Marck Mahal, 501-502,
5th Floor, 90, Veer Nauman Road,
Churchgate, Mumbai- 00 021
102. State Bank of Hyderabad
Nizamabad- ser, Branch
5-7-663/3, AP Rev Ser Assn Bldg
First Floor, Collectorate Complex
Nizamabad-503001
Nizamabad (Dist)
Andhra Pradesh (State)
103. State Bank of Hyderabad
Region-I- Nizamabad
5-1-85, 86, Regional Office
Nizamabad- 503 001
Nizamabad (Dist)
Andhra Pradesh (State)
104. State Bank of Hyderabad
Region-II- Nizamabad (Adilabad)
Station Road, Shivaji Chowk
Adilabad- 504 001
Adilabad (Dist)
Andhra Pradesh (State)
105. State Bank of Hyderabad
Zonal Office, Nizamabad
II Floor, Knar Estates
Nizamabad- 503 001
Nizamabad (Dist)
Andhra Pradesh (State)
106. State Bank of Hyderabad
Region-III, Nizamabad
(Mancherial)
12-907/2, First Floor, S. B. H. Main Br.
N. R. Road, Reddy Colony
Mancherial- 504208
Adilabad (Dist)
Andhra Pradesh (State)

- | | |
|---|---|
| <p>107. State Bank of Hyderabad
Navipet Branch
Navipet- 503 245
Nizamabad (Dist)
Andhra Pradesh (State)</p> <p>108. State Bank of Hyderabad
Nizamabad-Pragathi Bhavan
Com Complex Branch (20961)
Opp Municipal Corp.
Collectorate Complex
Nizamabad- 503001
Nizamabad (State)
Andhra Pradesh (Dist)</p> <p>109. State Bank of Hyderabad
Kisan Nagar Branch
3-95/2, State Bank
Main Road, Balkonda Mandal
Kisan Nagar- 503 218
Nizamabad (Dist)
Andhra Pradesh (State)</p> <p>110. State Bank of Hyderabad
Machareddy Branch
6-48/3, Machareddy Mandal
Machareddy- 503111
Nizamabad (Dist)
Andhra Pradesh (State)</p> <p>111. State Bank of Hyderabad
Jukkal Branch
Bus Stand Road, Jukkal
Jukkal- 503305
Nizamabad (Dist)
Andhra Pradesh (State)</p> <p>112. State Bank of Hyderabad
Kamareddy- Indira Nagar Branch
Sai Baba Temple Lane, Vidya Nagar Colony
Kamareddy- 503111
Nizamabad (Dist)
Andhra Pradesh (State)</p> <p>113. State Bank of Hyderabad
Armoor Branch
MG Road, Armoor Main Road
Armoor- 503224
Nizamabad (Dist)
Andhra Pradesh (State)</p> <p>114. State Bank of Hyderabad
Boduppal Branch (21159)
Plot No. 43, OM Building
Ayyappaswamy temple Rd. Srinivasa Colony
Boduppal- 500039
Ranga Reddy (Dist) -Andhra Pradesh (State)</p> | <p>115. State Bank of Hyderabad
Chandanager Branch (21235)
MIG -8, Huda Colony,
Thara Nagar, Seri
Lingampally, Near Rly. Stn.
Hyderabad - 500019
Ranga Reddy (Dist) - Andhra Pradesh (State)</p> <p>116. State Bank of Hyderabad
Defence Colony Branch (21325)
Plot No. 18, G K. Colony
Secunderabad- 500056
Hyderabad (Dist)- Andhra Pradesh (State)</p> <p>117. State Bank of Hyderabad
Hayath Nagar Branch (21096)
Hyderabad - 501505
Ranga Reddy (Dist)- Andhra Pradesh (State)</p> <p>118. State Bank of Hyderabad
II C T. Habsiguda Branch (21045)
Uppal Road, Tarnaka
Hyderabad - 500007
Hyderabad (Dist)- Andhra Pradesh (State).</p> <p>119. State Bank of Hyderabad
Madhapur Branch (21162)
Plot No. 45, 46, & 47, SY No. 10 Main Road, Near
Madhapur Petrol Pump
Serilingampally, Madhapur - 500081
Ranga Reddy (Dist)- Andhra Pradesh (State)</p> <p>120. State Bank of Hyderabad
Miyapur Branch (21300)
11, 12 Jayabharathi Kalpana
Complex, Near Miyapur 'X' Roads
Miyapur, Hyderabad - 500049
Hyderabad (Dist) - Andhra Pradesh (State)</p> <p>121. State Bank of Hyderabad
Nacharam Branch (21101)
A-37, AP Foods Complex
Road No. 14, IDA Nacharam
Hyderabad - 500076
Hyderabad (Dist)- Andhra Pradesh (State)</p> <p>122. State Bank of Hyderabad
Nagole Branch (21056)
2-3-916, Road No. 1, State Bank of Hyderb
Arunodaya Nagar, Nagole
Hyderabad - 500068
Ranga Reddy (Dist)- Andhra Pradesh (State)</p> <p>123. State Bank of Hyderabad
Kodakondla Branch (20447)
3-39, Rajiv Rahadari, Kodakondla Village
Gajwel Mandal- 502312
Medak (Dist)- Andhra Pradesh (State)</p> <p>124. State Bank of Hyderabad
Nisa Hakimpet Branch (21051)
Shameerpet - 500078
Ranga Reddy (Dist)- Andhra Pradesh (State)</p> |
|---|---|

125. State Bank of Hyderabad
Region-I
Zonal Office, Secunderabad
1-11-251/19A, II Floor
Motilal Nagar Lane, Prakash Nagar, Begumpet
Hyderabad - 500016
Hyderabad (Dist)- Andhra Pradesh (State)
126. State Bank of Hyderabad
Region-II
Zonal Office, Secunderabad
1-11-251/19A, II Floor
Motilal Nagar Lane, Prakash Nagar, Begumpet
Hyderabad - 500016
Hyderabad (Dist)- Andhra Pradesh (State)
127. State Bank of Hyderabad
Region-III
Zonal Office, Secunderabad
1-11-251/19A, II Floor
Motilal Nagar Lane, Prakash Nagar, Begumpet
Hyderabad - 500016
Hyderabad (Dist)- Andhra Pradesh (State)

TIRUPATHI ZONE (ENGLISH)

128. State Bank of Hyderabad
Zonal Office,
19-3-13(M),
Renigunta Road,
Tirupathi - 517 501
129. State Bank of Hyderabad
Regional Office, Region-I
19-3-13(M),
Renigunta Road,
Tirupathi - 517 501
130. State Bank of Hyderabad
STV Nagar Branch,
AIR Bypass Road,
STV Nagar
Tirupathi - 517 501
131. State Bank of Hyderabad
Chennai Road Branch,
Near Apsara Theatre,
Kadapa - 516 002
132. State Bank of Hyderabad
Gadwal Branch,
Sun Kulammamettu
Opp. RTC Bus Stand,
Gadwal - 509 125
133. State Bank of Hyderabad
Nandyal Branch,
Despande Building,
Tekke Nunepally Road,
Nandyal- 518 502
134. State Bank of Hyderabad
Jaklair Branch,
Bank Street,
Jaklair - 509 353
135. State Bank of Hyderabad
Nawabpet Branch,
Marikal Road,
Nawabpet - 509 343
136. State Bank of Hyderabad
Guntur- Autonagar Branch (21231)
Plot No. 316 A, First Floor
Phase 1 & 2, Indira Autonagar
Guntur - 522001
Guntur (Dist) - Andhra Pradesh (State)

VISHAKHAPATNAM ZONE

137. State Bank of Hyderabad
Achanta Branch (21248)
Achanta- 534123
West Godavari (Dist)-
Andhra Pradesh (State)
138. State Bank of Hyderabad
Rayanapadu Branch (20397)
5-58, Near Railway gate
Rayanapadu- 521241 (Phone: 0866-2832260)
Krishna (Dist) - Andhra Pradesh (State)
139. State Bank of Hyderabad
Bhimadole Branch (21237)
Bhimadole - 534425
West Godavari (Dist)
Andhra Pradesh (State)
140. State Bank of Hyderabad
Bhogapuram Branch (21156)
7-187, First Floor
Opp. Saw Mill, N -5 Road
Bhogapuram - 535 216
Vizianagaram (Dist) Andhra Pradesh (State)
141. State Bank of Hyderabad
Vizag - CAC, Suryabagh Branch (21077)
Suryabagh, Suryabagh
Visakhapatnam (Dist) - Andhra Pradesh (State)
142. State Bank of Hyderabad
Duvvada Branch (21297)
31-56-4/2, First Floor
Railway Station Road, Opp. Vsez Fly over bridge
Kurmanapalem, Duvvada - 530046
Visakhapatnam (Dist) - Andhra Pradesh (State)
143. State Bank of Hyderabad
Dwaraka Tirumala Branch (21250)
Dwarka Tirumala - 534425
West Godavari (Dist) - Andhra Pradesh (State)

144. State Bank of Hyderabad
Gajapathinagaram Branch (21288)
Balaji Hospital Comp, Opp RTC Complex
Gajapathinagaram - 535270
Vizianagaram (Dist) - Andhra Pradesh (State)
145. State Bank of Hyderabad
Ganapavaram Branch (21236)
Ganapavaram - 534198
West Godavari (Dist) - Andhra Pradesh (State)
146. State Bank of Hyderabad
Vijayawada - Ajitsinghnagar Branch (21179)
Pipula Road, Ajitsinghnagar
Vijayawada - 520015
Krishna (Dist) - Andhra Pradesh (State)
147. State Bank of Hyderabad
Vijayawada - CAC, Patamatalanka Branch (21081)
64-9-2, 1st Floor
S B H Complex, Patamatalanka
Vijayawada - 520014
Krishna (Dist) - Andhra Pradesh (State)
148. State Bank of Hyderabad
Vijayawada - Chittinagar Branch (20714)
K T Road, Chittinagar
Vijayawada - 520009
Krishna (Dist) - Andhra Pradesh (State)
149. State Bank of Hyderabad
Vijayawada - Currencynagar Branch (21148)
48-16-91, Near Currency Nagar
Mahanadu Road, Nagarjunanagar
Vijayawada - 520080
Krishna (Dist.) - Andhra Pradesh (State)

WARANGAL ZONE (ENGLISH)

150. State Bank of Hyderabad
Region-1, Regional Office
S B H Building, JPN Road
Girmajipet
Warangal - 506002
Phone : 0870-2446833
151. State Bank of Hyderabad
Region-2, Regional Office
1-5-47, S B H Main Branch Building
Trunk Road, Jublipura
Khamman - 507003
Phone : 08742-245457
152. State Bank of Hyderabad
Region-3, Regional Office
Azmathpura, Near Rajiv Chowk
Karimnagar - 505001
Phone : 0878-2240022
153. State Bank of Hyderabad
Enkur Branch, 1-80,
Kothagudem Road
Enkur - 507168
Phone : 08744-277677

154. State Bank of Hyderabad
Desaipet Branch, CKM College Campus,
Desaipet,
Warangal - 506006
Phone : 0870-2441456
155. State Bank of Hyderabad
Treasury Branch, 1-7-708,
First Floor, Nakkalgutta, Hanamkonda,
Warangal - 506001
Phone : 0870-2577056
156. State Bank of Hyderabad
Tekulapally Branch
1-24, Kothagudem Road,
Tekulapally - 507123
Phone : 08741-279073
157. State Bank of Hyderabad
Adalat- Hanamkonda Branch
District Court Complex,
Nakkalgutta, Hanamkonda
Warangal - 506001
Phone : 0870-2575043
158. State Bank of Hyderabad
RASMECC, 9-1-2, SBH Building
JPN Road, Warangal - 506002
Phone : 0870-2424707
159. State Bank of Hyderabad
Fathimanagar Branch
24-7-34, Fathimanagar
Main Road, Kazipet
Warangal - 506004
160. State Bank of Hyderabad
Julurpadu Branch
2-93/1, Vengapalem,
Julurpadu - 507111
Phone : 08744-279555
161. State Bank of Hyderabad
Hanamkonda-CBS Complex Branch, Bus
Station Complex
Hanamkonda
Warangal - 506001
Phone : 0870-2546325

10(4) के अंतर्गत अधिसूचित करवाने हेतु

162. Punjab and Sind Bank
Kehri Nodh Singh
Tehsil Khamman,
Distt. Fatehgarh Sahib
163. Punjab and Sind Bank
Patiala Road
Kharora
Distt. Fatehgarh Sahib
164. Punjab and Sind Bank
Zonal Office-III
91, Bhandari House, 1st Floor,
Nehru Place, New Delhi

- | | |
|--|--|
| 165. Punjab and Sind Bank
Kailash Colony,
New Delhi | 179. Punjab and Sind Bank
Kas Building
Near Bus Stand
Jayas Distt. Chatrapati Sahuji Maharaj
Nagar (U.P.) Pin-229305 |
| 166. Punjab and Sind Bank
New Friends Colony,
New Delhi | 180. Punjab and Sind Bank
505 Laloli Road,
Bindki
Distt Fatehpur
(U.P.) 212635 |
| 167. Punjab and Sind Bank
Deshbandhu College,
Kalka ji, New Delhi | 181. Punjab and Sind Bank
Doiwala
Dehradun |
| 168. Punjab and Sind Bank
Jamalpur Chowk,
Gurgaon (Haryana) | 182. Punjab and Sind Bank
Shamli,
Distt. Muzaffarnagar |
| 169. Punjab and Sind Bank
Krishna Nagar
Mathura | 183. Punjab and Sind Bank
Baraguda
Distt. Sirsa-125078 |
| 170. Punjab and Sind Bank
Narayanpur,
Distt. Alwar (Rajasthan) | 184. Punjab and Sind Bank
Pitho
Tehsil Phul
Distt. Bhatinda-151103 |
| 171. Punjab and Sind Bank
Navjeevan Complex, Jiley Road
Niwai, Distt. Tonk
Rajasthan- 304021 | 185. Punjab and Sind Bank
Distt. Hanumangarh Town,
Rajasthan-335513 |
| 172. Punjab and Sind Bank
Tikwali
Faridabad | 186. Punjab and Sind Bank
Chhapianwali,
G. T. Road,
Distt. Muktsar- 152107 |
| 173. Punjab and Sind Bank
Mandal, Distt. Bhilwara
(Rajasthan) | 187. Punjab and Sind Bank
Sri Karanpur
Near Bus Stand
Tehsil Sri Karanpur
Distt. Sri Ganga Nagar- 335073 |
| 174. Punjab and Sind Bank
M-Block, Kalka Ji,
New Delhi | 188. Punjab and Sind Bank
Khera Khurd
Tehsil Sardoolgarh
Distt. Mansa- 151507 |
| 175. Punjab and Sind Bank
D. G. Khaitan School Building
Krishna Realities,
Behind Sunder Nagar,
Malad (West)
Mumbai- 400064 | 189. Punjab and Sind Bank
Giana, Tehsil Talwandi Sabo
Distt. Bhatinda-151301 |
| 176. Punjab and Sind Bank
Plot No. 14, Sector 26-A, Kopri
Palm Beach Road, Vashi
Navi Mumbai-400705 | 190. Punjab and Sind Bank
Dhulkot,
Tehsil Gidderbaha,
Distt. Muktsar-152031 |
| 177. Punjab and Sind Bank
Pushpam Complex
Opp Seema Hall,
Anand Nagar Road,
Satelite,
Ahmedabad-15 | 191. Punjab and Sind Bank
Zonal Office
Civil Station
100 ft. Road
Distt. Bhatinda |
| 178. Punjab and Sind Bank
Allahabad Road,
Jagatpur
Distt Raibreyilly (U.P.) Pin 229402 | |

- | | |
|---|---|
| 192. Punjab and Sind Bank
Ghuman Khurd,
Distt. Gurdaspur-143518 | 205. Punjab and Sind Bank
U.C.P.- 18, Dwaipayans Bldg.
Ambedkar Sami, City Centre,
P.O. Durgapur- 713216,
West Bengal |
| 193. Punjab and Sind Bank
Kaler Kalan,
Distt. Gurdaspur-143519 | 206. Punjab and Sind Bank,
Zonal Office,
42, M.G. Road, River Side,
Uzan Bazar, Gauhati-781001 |
| 194. Punjab and Sind Bank
566/173, Ram Manohar Lohiya Ngr., Ward No.1
Bharua Sumerpur,
Distt. Hamirpur (U.P.)-210502 | 207. Punjab and Sind Bank,
51, Central Road,
Agartala- 799001 |
| 195. Punjab and Sind Bank
Shukla Niwas
Opp. Central Bank of Indian
Natuwa (Shuklaganj)
Distt. Unav (U.P.) | 208. Punjab and Sind Bank,
Kalibari Road, Near Gurudwara
Dimapur-797112 |
| 196. Punjab and Sind Bank
Currency Chest, G.T. Road,
Gumti No. 5,
Kanpur (U.P.)-208012 | 209. Punjab and Sind Bank,
Stadium Road, Deulaland,
Imphal- 795001 |
| 197. Punjab and Sind Bank
B. J. -111, Sector-2
Sault Lak,
Kolkata-700091 | 210. Punjab and Sind Bank,
Rajgarh Road,
Gauhati -781003 |
| 198. Punjab and Sind Bank
Laketown
P-264, Block B,
Kolkata-700089 | 211. Punjab and Sind Bank,
Beltola Road,
Gauhati-781028 |
| 199. Punjab and Sind Bank
Patna Central School,
Sudarshan Vihar, Patna- 800040 | 212. Punjab and Sind Bank,
Suraj Market, Garali,
Jorhat- 785001 |
| 200. Punjab and Sind Bank
26/7, Shahpur Colony,
New Alipur,
Kolkatta-700053 | 213. Punjab and Sind Bank,
Adabadi Tinali,
Opp. Kishor Petrol Pump
Maligaon, Guhati-781014 |
| 201. Punjab and Sind Bank,
92, R.K. Avenue,
Rajender Nagar,
Patna- 800016 | 214. Punjab and Sind Bank,
348/349, M. B. Market,
Chickpet Area,
Benglore- 560053 |
| 202. Punjab and Sind Bank,
Shahdev Kunta,
P.O. Ballia
Balasore, Orrisa-756056 | 215. Punjab and Sind Bank,
78/1, J.C. Road,
Benglore- 560002 |
| 203. Punjab and Sind Bank,
Near Singh More, Kalyanpur,
(Hesag),
Ranchi-834003, Jharkhand | 216. Punjab and Sind Bank,
435/434. Oppanakara Street,
Coimbatore-641001 |
| 204. Punjab and Sind Bank,
15 Coaldock Road, Khidirpur.
Kolkata-700043 | 217. Punjab and Sind Bank,
Metro Estate,
Abids Road,
Hyderabad-500001 |
| | 218. Punjab and Sind Bank,
165, Thambu Shetty Street,
Post Bag No. 1955
Georg Town,
Chennai-600001 |

219. Punjab and Sind Bank,
161-Mount Road
Post Box No. 2729
Chennai-600002
220. Punjab and Sind Bank,
I. B. D.
770A Anna Salai
Spencer Tower (Ground Floor)
Chennai-600002
221. Punjab and Sind Bank,
185-A, Part-I, Market Road, Hampankatta
Mangalore-575001
222. Punjab and Sind Bank,
60/4, Radhkrishan Nilayam
Bhanumahia Road,
Mysore
223. Punjab and Sind Bank,
Sapna Continental Complex,
Udgir Road, Bidar
224. Punjab and Sind Bank,
44 Main Road,
Adyar, Chennai-600028
225. Punjab and Sind Bank,
1-7-323, First Floor,
Near Chenoy Trade Centre,
Park Lane,
Secunderbad-500003
226. Punjab and Sind Bank,
37-A First Floor,
Nandi Kovil Street,
Trichirapalli-620002
227. Punjab and Sind Bank,
I. B. D.
Kamakchi Amman Koil Streets
Tirupur- 641604
228. Punjab and Sind Bank,
M. G. Road,
Trivandrum-695001
229. Punjab and Sind Bank,
Parkasam Road,
Governorpet,
Vijayawada-520002
230. Punjab and Sind Bank,
Surya Bagh,
Vishakhapatnam-530020
231. Punjab and Sind Bank,
Krishna Building
Parry & Co. Junction
Near Uma Maheshwar Temple
Quilon
232. Punjab and Sind Bank,
Assets Recovery Branch
770A, Spencer Tower,
Mount Road
Chennai-600002
233. Punjab and Sind Bank,
Hindustan College of Engineering
Post Bag No. 1
Day Range Campus
Pudur-603103,
Tamil Nadu
234. Punjab and Sind Bank,
Zonal Office,
B-38, Industrial Area Naraina
Phase-1, New Delhi-110028
235. Punjab and Sind Bank,
B-2/17, Paschim Vihar
New Delhi-110006
236. Punjab and Sind Bank,
Bank House, Ground Floor,
21, Rajendera Place,
New Delhi-110008
237. Punjab and Sind Bank,
Sector-6, Choti Market,
Dwarka, New Delhi
238. Punjab and Sind Bank,
Sanatan Dharam Public School,
Moti Nagar,
New Delhi
239. Punjab and Sind Bank,
914 Railway Road,
Rani Bagh,
Delhi
240. Punjab and Sind Bank,
Sachdeva Public School,
Sector 13, Rohini
New Delhi
241. Punjab and Sind Bank,
1432/6, Main Road,
Near Batra Cinema Complex,
Mukherjee Nagar,
Delhi
242. Punjab and Sind Bank,
C-25, Vikas Puri,
New Delhi-110018
243. Punjab and Sind Bank,
J-82, Main Khayala Road,
Vishnu Garden
New Delhi

- | | |
|---|---|
| 244. Punjab and Sind Bank,
Near Metro Pillar 682
Uttam Nagar,
New Delhi | 256. Punjab and Sind Bank,
Currency Chest,
Dayal Singh College Road,
Dawat Hotel
Karnal (Haryana) |
| 245. Punjab and Sind Bank,
Bhankarpur,
Tehsil Dera Bassi,
Distt. Mohali | 257. Punjab and Sind Bank,
Government Brijendra College
Faridkot-151203 |
| 246. Punjab and Sind Bank,
SCO 272,
Sector 32-D
Chandigarh. | 258. Punjab and Sind Bank,
V. P. O. Jand Sahib
District Faridkot. |
| 247. Punjab and Sind Bank,
Mohali Bye Pass Road,
Furniture Market,
SCO-2
Balongi | 259. Punjab and Sind Bank,
V. P. O. Mudki
Talwandi Bhai Road
Tehsil & Distt. Ferozepur-142060 |
| 248. Punjab and Sind Bank,
SCO 12-13,
AKS Colony,
Patiala Road,
Zirakhpur | 260. Punjab and Sind Bank,
V. P. O. Rama
Tehsil Nihal Singh Wala
District Moga- 142039 |
| 249. Punjab and Sind Bank,
Chandigarh Road,
Lalu
Tehsil Dera Bssi
Distt. Mohali | 261. Punjab and Sind Bank,
Bath, P. O. Bath
Distt. Tarn Taran |
| 250. Punjab and Sind Bank,
Currency Chest,
SCO 84-91
Bank Square,
Sector 17-B,
Chandigarh-160017 | 262. Punjab and Sind Bank,
Manawala, Block Chogawan,
Distt. Amritsar |
| 251. Punjab and Sind Bank,
Sant Nischal Singh Public School,
Yamuna Nagar (Haryana) | 263. Punjab and Sind Bank,
Ajnala,
Distt. Amritsar-143102 |
| 252. Punjab and Sind Bank,
Railway Road
Gharaunda (Karnal)
(Haryana) | 264. Punjab and Sind Bank,
Chowk Mehta,
The Baba Bakala
Distt. Amritsar |
| 253. Punjab and Sind Bank,
Chattri Wala Kuan
Main Bazar Taraori (Karnal)
(Haryana) | 265. Punjab and Sind Bank,
Zonal Office,
Chowk Phawara (Rural)
Amritsar |
| 254. Punjab and Sind Bank,
Bank Road,
Ambala Cantt.
(Haryana) | 266. Punjab and Sind Bank,
G. T. Road
Near Bus Stand
Kartarpur-144801 |
| 255. Punjab and Sind Bank,
Rajgarh Road,
Gangwa, Distt. Hissar
(Haryana) | 267. Punjab and Sind Bank,
Goraya, G.T. Road,
Distt. & Tehsil Jalandhar |
| | 268. Punjab and Sind Bank,
Village Jandiala Manjki,
Distt. Jalandhar |
| | 269. Punjab and Sind Bank,
7-1-129 & 130, Ameerpet,
Near Seshamahall Theater,
Hyderabad |

270. Punjab and Sind Bank,
Bannerhatta
49, 8th Main Malya,
Banglore
271. Punjab and Sind Bank,
Bhunerheri,
Tehsil & Distt. Patiala-147003
272. Punjab and Sind Bank,
Bhawanigarh,
Tehsil & Distt. Sangrur-148115
273. Punjab and Sind Bank,
Railway Road, Barnala,
Distt. Sangrur-148101
274. Punjab and Sind Bank,
Badbar, Tehsil & District
Sangrur- 148106
275. Punjab and Sind Bank,
Badrukhan,
Tehsil & Distt. Sangrur- 148001
276. Punjab and Sind Bank,
Bhotna,
Tehsil Barnala,
Distt. Sangrur- 148115
277. Punjab and Sind Bank,
Baba Gandha Singh Public School,
Dhanaula Chowk, Barnala,
Distt. Sangrur- 148101
278. Punjab and Sind Bank,
Dhanetha, Tehsil Samana
Distt. Patiala-147101
279. Punjab and Sind Bank,
Ghagga, Tehsil Samana
Distt. Patiala-147102
280. Punjab and Sind Bank,
Gharachon, Tehsil &
Distt. Sangrur- 148026
281. Punjab and Sind Bank,
Sarhind Road, Jhill, Patiala-147001
282. Punjab and Sind Bank,
Ghanauli Mandi, Tehsil Moonak,
Distt. Sangrur- 148027
283. Punjab and Sind Bank,
Model Town, Patiala-147001
284. Punjab and Sind Bank,
Mahal Kalan, Teh. Barnala,
Distt. Sangrur-148104
285. Punjab and Sind Bank,
Maine
Dakala Road (Sular)
Tehsil & Distt. Patiala- 147001
286. Punjab and Sind Bank,
Patran, Tehsil Samana
Distt. Patiala-147105
287. Punjab and Sind Bank,
22 No. Phatak
Near Gurudwars Khel Sahib
Patiala-147001
288. Punjab and Sind Bank,
Urban Estate,
Opp. Punjabi University,
Patiala-147001
289. Punjab and Sind Bank,
Passiana,
Tehsil & Distt. Patiala-147001
290. Punjab and Sind Bank,
Rajpura Town,
Distt. Patiala-140401
291. Punjab and Sind Bank,
Rakhra, Nabha Road,
Distt. Patiala-147201
292. Punjab and Sind Bank,
Khalsa Sr. Sec. School,
Rajpura Town,
Distt. Patiala-140401
293. Punjab and Sind Bank,
Anaj Mandi, Sunam,
Distt. Sangrur- 148028
294. Punjab and Sind Bank,
Sekha, Tehsil Barnala,
Distt. Patiala-148101
295. Punjab and Sind Bank,
Devigarh Pehwa Road, Patiala-147111
296. Punjab and Sind Bank,
Tohra, Tehsil Nabha, Distt. Patiala-147104
297. Punjab and Sind Bank,
Bhani Mehraj,
Distt. Barnala
298. Punjab and Sind Bank,
Dasua,
Distt. Hoshiarpur
299. Punjab and Sind Bank,
Zonal Office,
Tanda Bye Pass Road,
Gurmukh's Tower
Hoshiarpur
300. Punjab and Sind Bank,
A-5, Jagat Puri,
Near Nathu Colony Chowk,
Mandoli Road,
New Modern Shahdara, Delhi

301. Punjab and Sind Bank,
130-A, Arjun Nagar,
Kotla Mubarkpur,
New Delhi
302. Punjab and Sind Bank,
Kaison Tower, First Floor,
Alpha-1,
Greater Noida
303. Punjab and Sind Bank,
Meerut Road,
Baghpat-250 609
304. Punjab and Sind Bank,
C 32/1 Pallavpuram
Phase-II,
Meerut
305. Punjab and Sind Bank,
Milak, Gurudwars Dera Baba Nagina
Singh Sahib, Baba Jagir Singh Sahib,
Dharmarth Nyas Rampur Road,
Distt. Rampur
306. Punjab and Sind Bank,
Haldwani Road,
Near Citi Hospital,
Wazpur,
Distt. Udham Singh Nagar
307. Punjab and Sind Bank,
Barundi,
Teh. and Distt. Ludhiana- 141 201
308. Punjab and Sind Bank,
Leelon, via Sindhwan
Distt. Lundhiana
309. Punjab and Sind Bank,
Zonal Office
5th floor, Nobal Enclave,
Bhai Bala Chowk,
Ludhiana- 141 001
310. Punjab and Sind Bank,
Zonal Office, Rajbaha Road,
Patiala
311. Punjab and Sind Bank,
Zonal Office, Spencer Tower,
770-A, Anna Salai,
Chennai
- BULANDSHAHR**
312. Punjab National Bank,
BO - Rabupura
Village - Rabupura
PO - Rabupura
Tehsil - Jewar
Distt.- Gautam Budh Nagar
Pincode - 203 209
313. Punjab National Bank,
BO - Dankaur
Village - Dankaur
PO - Dankaur
Tehsil - Dankaur
Distt.- Gautam Budh Nagar
Pincode - 203 201
314. Punjab National Bank,
BO - Jewar
Village - Jewar
PO - Jewar
Tehsil - Jewar
Distt.- Gautam Budh Nagar
Pincode - 203 135
315. Punjab National Bank,
BO - Khurja Rural
Village - Khurja
City Station Road, Kakrala
PO - Tehsil - Khurja
Distt.- Bulandshahr
Pincode - 203 131
316. Punjab National Bank,
BO - Tappal
Village - Tappa
PO - Tappal
Tehsil - Khair
Distt.- Aligarh
Pincode - 202 165
317. Punjab National Bank,
B/O - Gabhana
NH-1-91, Block-Chandos
Distt.- Aligarh
318. Punjab National Bank,
B/O - Pisava
Block - Chandos
Distt.- Aligarh
- Circle Office Biharsharif**
319. Punjab National Bank,
B/O - Nawagarhi
Near Masjid
Distt.- Munger
Bihar
320. Punjab National Bank,
B/O - Rajgir
Digambar Jain Dharamshala
Bihar
Pin- 803 116
321. Punjab National Bank,
B/O - Sabour
High School Chowk, Sabour
Bihar
Pin- 813 210

Circle Office Dharamshala

322. Punjab National Bank,
B/O - Rait
District Kangra
Himachal Pradesh
Pin- 176 208
323. Punjab National Bank,
B/O - Bhanjru
District Chamba Himachal Pradesh
Pin- 176 316

Circle Office Dehradun

324. Punjab National Bank,
B/O - 14, Infantry Division
Army Complex
Clemen Town
Dehradun (Uttarakhand)
325. Punjab National Bank,
B/O - Military Campus
Raiwala
Distt. Dehradun (Uttarakhand)
326. Punjab National Bank,
B/O - Barrage Construction Division
Pashulok, Rishikesh
Distt. Dehradun (Uttarakhand)
327. Punjab National Bank,
B/O - S.R. M. Foundation of India
Shankaracharya Nagar
Distt. Tehri Garwal (Uttarakhand)
328. Punjab National Bank,
B/O - Tehri Hydro Development
Corporation Limited
Rishikesh
Distt. Dehradun (Uttarakhand)
329. Punjab National Bank,
B/O - Krishi Utpadan Mandi Samiti
Rishikesh
Distt. Dehradun (Uttarakhand)
330. Punjab National Bank,
B/O - Herbertpur Christian Hospital
Herbertpur
Distt. Dehradun (Uttarakhand)
331. Punjab National Bank,
B/O - The National Institute for the Visually
Handicapped,
Rajpur Road
Dehradun (Uttarakhand)
332. Punjab National Bank,
B/O - Tehri Hydro Development
Corporation Limited
Bhagirathpuram Tehri,
Distt. Garhwal (Uttarakhand)

333. Punjab National Bank,
B/O- PPCL,
93 Rajpur Road
Dehradun (Uttarakhand)
Pin- 248 001
334. Punjab National Bank,
B/O - Vishal Shopping Complex
Bus Stand, Barkot
Distt. Uttarkashi (Uttarakhand)
Pin - 249 141
335. Punjab National Bank,
B/O - Chinyalisaur,
Near Akrishi Vigyan Kender
Distt. Uttarkashi (Uttarakhand)
Pin - 249 141
336. Punjab National Bank,
B/O - Block Road
Chamba
Distt. New Tehri (Uttarakhand)
Pin - 249 145
337. Punjab National Bank,
B/O - Sahastradhara Road,
PO Gujra
Dehradun (Uttarakhand)
Pin - 248 001
338. Punjab National Bank,
B/O - 566 Bell Road, Graphic Era
PO. Clemen Town,
Dehradun (Uttarakhand)
Pin - 248 002
339. Punjab National Bank,
B/O - PPCL
93 Rajpur Rural Dehradun (Uttarakhand)
Pin - 248 001

Circle Office Kurukshetra

340. Punjab National Bank,
B/O - Ledi
Village and Post Office Ledi
Distt. Yamuna Nagar,
Haryana
Pin - 135 103
341. Punjab National Bank,
B/O - Mustafabad
Janata School, Chhappar Road
Distt. Yamuna Nagar,
Haryana
Pin - 133 103
342. Punjab National Bank,
B/O - M. N. College
Shahabad Markanda Ladwa Road
Distt. Kurukshetra, Haryana
Pin - 136 135

343. Punjab National Bank,
B/O - Jhansa Road
Near Maa Bhadra Kali Mandir
Distt. Kurukshetra, Haryana
Pin - 136 118
344. Punjab National Bank,
B/O - Kalayat
Railway Road, Near Grain Market
Distt. Kaithal, Haryana
Pin - 136 017
345. Punjab National Bank,
B/O - Radaur
S. K. Road, Near Bus Stand
Distt. Yamuna Nagar, Haryana
Pin - 135 133
346. Punjab National Bank,
B/O - Dhand
Opp. New Grain Market
Distt. Kaithal, Haryana
Pin - 136 020
347. Punjab National Bank,
B/O - Gurukul
Dhand Road, Kurukshetra
Distt. Kurukshetra, Haryana
Pin - 136 119
348. Punjab National Bank,
B/O - S.D. Public School
Jagadhari Distt. Yamuna Nagar, Haryana
Pin - 135 003

Circle Office Indore

349. Punjab National Bank,
B/O - Army War College
COC, Mhow
M.P.
Pin - 453 441
350. Punjab National Bank,
B/O - M.P. H. B. , P. I. M. R.
EB- Ring Road, Near Bombay Hospital
A. B. Road
Indore (M.P.)
351. Punjab National Bank,
B/O - PRK Residency
Old AB Road
Rau, Distt. Indore
(M.P.) Pin - 453 331
352. Punjab National Bank,
B/O - 987-A, Sudama Nagar,
Gumashta Nagar
Indore
(M.P.) Pin - 452 009

353. Punjab National Bank,
B/O - 60-61 Vasant Vihar
Near Trimurti Chauraha
Dhar (M.P.) Pin - 454 001
354. Punjab National Bank,
B/O - Main Highway
Village Jakhiya
Teh. - Sanwer, Distt. Indore
(M.P.) Pin - 453 551
355. Punjab National Bank,
B/O - AB Road
Near Reliance Petrol Pump
Tanki Chauraha Shajapur
(M.P.) Pin - 465 001
356. Punjab National Bank,
B/O - Barwani - Anjad Road
Near Dargah Barwani
Barwani (M.P.) Pin - 451 551
357. Punjab National Bank,
B/O - 8-E Sadhana Nagar
Airport Road
Indore
(M.P.) Pin - 452 005
358. Punjab National Bank,
B/O - Rajgarh
A-7 Bhanwaar Colony
By Pass Road
Near Khilchipur Chauraha
(M.P.) Pin - 465 661
359. Punjab National Bank,
B/O - Sujalpur
Gandhi Nagar Colony
Opp. SDM Bunglow, Main Road,
(M.P.) Pin - 465 333
360. Punjab National Bank,
B/O - Manpur
Main Highway
A.B. Road
Teh. Mhow
(M.P.) Pin - 452 551
361. Punjab National Bank,
B/O - Badwaha
D-1, Shree Kanwar Colony,
Maheshwar Road
Badwaha (M.P.) Pin - 451 115

Circle Office Rohtak

362. Punjab National Bank,
B/O - Kosli
Distt. Rewari
(Haryana)
Pin - 123 302

363. Punjab National Bank,
B/O - Distt. Secretariat Rewari
(Haryana)
Pin - 123 401
364. Punjab National Bank,
B/O - Kairo
Distt. Bhiwani
(Haryana)
Pin - 127 029
365. Punjab National Bank,
B/O - Kalinga
Distt. Bhiwani
(Haryana)
Pin - 127 411
366. Punjab National Bank,
B/O - Tosharn
Distt. Bhiwani
(Haryana)
Pin - 127 040
367. Punjab National Bank,
B/O - Siwani
Distt. Bhiwani
(Haryana)
Pin - 127 406
368. Punjab National Bank,
B/O - Kheri Sadh
Distt. Rohtak
(Haryana)
Pin - 124 027
369. Punjab National Bank,
B/O - Shikha Bharti School
Rohtak
(Haryana)
Pin - 124 001
370. Punjab National Bank,
B/O - Sunari Kalan
Rohtak
(Haryana)
Pin - 124 001
371. Punjab National Bank,
B/O - Kasar Distt. Jhajjar
(Haryana)
Pin - 124 507
372. Punjab National Bank,
B/O - N.T.P.C. Jharli
Distt. Jhajjar
(Haryana)
Pin - 124 105

373. Punjab National Bank,
B/O - Badsa
Distt. Jhajjar
(Haryana)
Pin - 124 105

374. Punjab National Bank,
B/O - Mirpur
Distt. Rewari
(Haryana)
Pin - 123 502

Circle Office Meerut

375. Punjab National Bank,
B/O - Binoli
Vill. & Post Binoli
Near Bus Stand
Teh. Baraut, Distt. Baghpat

376. Punjab National Bank,
B/O - Dasna
Teh. and Distt. Ghaziabad
U. P.

377. Punjab National Bank,
B/O - Dhaulana
Opp. Police Station
Teh. Hapur
Distt. Ghaziabad

378. Punjab National Bank,
B/O - Kharkhoda
Opp. Police Station
Main Road
Teh. and Distt. Meerut

379. Punjab National Bank,
B/O - Ramraj
Vill. Saifpur Ferozepur (Ramraj)
Near Petrol Pump
Teh. and Distt. Meerut-245 206

380. Punjab National Bank,
B/O - Bypass
386, Multan Nagar
Baghpat Road
Meerut

381. Punjab National Bank,
B/O - Rohta
Vill. & Distt. Meerut
Pin - 250 002

382. Punjab National Bank,
B/O - Khekra
Vill. Khekra
Distt. Meerut

Circle Office Hameerpur

383. Punjab National Bank
B/O Nari
Distt. Una
Himachal Pradesh
Pin - 174001
384. Punjab National Bank
B/O Do-Sarka
Distt. Hameerpur
Himachal Pradesh
Pin - 174030
385. Punjab National Bank
B/O Bijhad
Distt. Hameerpur
Himachal Pradesh
Pin - 176040
386. Punjab National Bank
B/O Nadaun
Distt. Hameerpur
Himachal Pradesh
Pin Code - 177033
387. Punjab National Bank
B/O Sainik School Sujampur
Distt. Hameerpur
Himachal Pradesh
Pin - 176110
388. Punjab National Bank
B/O Jhanduta
Distt. Bilaspur
Himachal Pradesh
Pin - 174031
389. Punjab National Bank
B/O Haroli
Distt. Una
Himachal Pradesh
Pin - 174301
390. Punjab National Bank
B/O Bangana
Distt. Una
Himachal Pradesh
Pin - 174307
391. Punjab National Bank
B/O Sameerpur
Distt. Hameerpur
Himachal Pradesh
Pin - 177601
392. Punjab National Bank
B/O Ghumarvi
Distt. Bilaspur
Himachal Pradesh
Pin - 174021

Circle Office Jodhpur

393. Punjab National Bank
B/O Jalore
Distt. - Jalore (Raj.)
Pin - 343 001
394. Punjab National Bank
B/O Nagore
Distt. - Nagore (Raj.)
Pin - 341 001
395. Punjab National Bank
B/O Ladnu
Distt. - Nagore (Raj.)
Pin - 341 306
396. Punjab National Bank
B/O Vijaynagar
Distt. - Ajmer (Raj.)
Pin - 305 624
397. Punjab National Bank
B/O Kekri
Distt. - Ajmer (Raj.)
Pin - 305 404

Circle Office Patiala

398. Punjab National Bank
B/O Sector-68, M.C. Office
Mohali, Distt. - Mohali
Pin - 160 062
399. Punjab National Bank
B/O Patran
Narvana Road, Patran
District Patiala
Pin - 147 105

Circle Office Ahmedabad

400. Punjab National Bank
Ground Floor
Nagin Desai Street
Near Railway Station
Bardoli
District Surat
Pin - 394 601
401. Punjab National Bank
Ground Floor
Megh Plaza Complex
Verai Chakla
Patan
District Patan
Pin - 384 265
402. Punjab National Bank
Ground Floor
Shantivan Residency
Vyara
District Tapi
Pin - 394 650

403. Punjab National Bank
Ground Floor
Gurukrupa Complex
Near LIC, Chitra Road
GODHRA
District PANCHMAHAL
Pin - 389 001

404. Punjab National Bank
Ground Floor
Gadi Road
Govind Nagar Road
Opp. Labana Hospital
Central Park, DAHOD
District DAHOD
Pin - 389 151

405. Punjab National Bank
Plot No. 19
Telephone Exchange Road.
NEW ANJAR
District KUTCH
Pin - 370 110

406. Punjab National Bank
Nawa Vadaj Branch
7, Shivalik Yash Complex
Opp. Shastri Nagar BRTS Stop
Naranpura, Ahmedabad
District Ahmedabad
Pin - 380 013

Circle Office Nagpur

407. Punjab National Bank
B/O D.C. Office (District Co-ordinator Office)
Kingsway, Station Road
Nagpur
Pin - 440 001

408. Punjab National Bank
B/O A.R.M.B.
(Asset Retail Management Branch),
Kingsway, Station Road
Nagpur
Pin - 440 001

Circle Office Kapurthala

409. Punjab National Bank
B/O Kalanaur
VPO Kalanaur
Distt. Gurdaspur
Pin - 143 512

410. Punjab National Bank
B/O Hussainpur
VPO Hussainpur
Distt. Kapurthala
Pin - 144 620

411. Punjab National Bank
B/O Mansurwal
Distt. Kapurthala
Pin - 144 601

Oriental Bank of Commerce

Branches to be Notified in the Gazette of India under Rule 10(4) of Official Language Rules, 1976

Agra

412. Oriental Bank of Commerce
B/O Shikohabad
801, D-Katra Mira, Eta Road,
Shikohabad,
Distt. Firozabad

413. Oriental Bank of Commerce
B/O Fatehabad Road, Agra
Hotel Lov-Kush Building,
Municipal No. 30106/20-K-1,
Fatehabad Road,
Agra-282 001

414. Oriental Bank of Commerce
B/O Tundla
Vardhaman Building,
Near Tundla Chauraha,
Tundla,
Distt. Firozabad-283 204

415. Oriental Bank of Commerce
B/O Shivaji Nagar, Jhansi
6/36/18, Giyan Sthali Public School,
Kanpur Road,
Jhansi-284 001

416. Oriental Bank of Commerce
B/O 214, Gopalpura,
Shamsabad,
Distt.-Agra-283 125

417. Oriental Bank of Commerce
B/O G.L. Institute of Engineering & Technology,
N.H. 2, Akabarpur,
Distt. - Mathura - 281 406

418. Oriental Bank of Commerce
B/O Baijnathganj, Itawa Road,
Opp. Bus Stand, Sirsaganj,
Distt. - Firozabad - 205 151

419. Oriental Bank of Commerce
B/O Agrsen Market, Delhi Palwal Road,
Khair, Distt.- Aligarh - 202 138

New Delhi

420. Oriental Bank of Commerce
B/O Okhala, Phase-I
C-61, D.D.A. Shed, Okhla Phase-1,
New Delhi-110020

421. Oriental Bank of Commerce
B/O Jasola
50, Pocket-1, Jasola
New Delhi-110025

Dehradun

422. Oriental Bank of Commerce
B/O Jawalapur
Railway Road, Jawalapur
Distt. Haridwar-249 407
423. Oriental Bank of Commerce
B/O Rudraprayag
Badrinath Road
Rudraprayag-246 421
424. Oriental Bank of Commerce
B/O Purkaji
Delhi Road, Near Bus Stand Purkaji
Distt. Mujaffarnagar-251 317
425. Oriental Bank of Commerce
B/O Selaqui
Selaqui Industrial Area,
Selaqui, Dehradun

Mumbai

426. Oriental Bank of Commerce
B/O Kalina
Imgeen Chambers, CST Road,
Kalina, Santacruz (East)
Mumbai-400 025
427. Oriental Bank of Commerce
B/O Mumbai Central,
Orkid City Center,
265, Belasis Road,
Mumbai Central, Mumbai-400 008
428. Oriental Bank of Commerce
B/O Bhaikhala
Ground Floor, 85-A,
Mustafa Bazaar,
Victoria Road, Bhaikhala (East)
Mumbai-400 010
429. Oriental Bank of Commerce
B/O Worli
201, City View Building
Dr. Ani Besant Road
Worli, Mumbai-400 018
430. Oriental Bank of Commerce
B/O Hill Road, Bandra
Shop No.2, 3 & 4, Topaz Apartment,
55, Varoda Road,
Bandra (West), Mumbai - 400 050
431. Oriental Bank of Commerce
B/O Bhaikhala
Shop No.2 & 3, Be Side Aarked,
Dr. Baba Sahab Ambedkar Road,
Parel, Mumbai - 400 012

Lucknow

432. Oriental Bank of Commerce
B/O Balrampur
Anand Bagh,
Balrampur (Distt.)-Uttar Pradesh
433. Oriental Bank of Commerce
B/O Jhansi
Y-1-A1-07 Trivanipuram
Jhansi
Allahabad
434. Oriental Bank of Commerce
B/O Munshi Pulia
101, D-Block,
Indira Nagar
Munshi Pulia
Lucknow
435. Oriental Bank of Commerce
B/O Akbarpur
Nai Sarak Sahajadpur
Ambedkar Nagar,
Akbarpur
436. Oriental Bank of Commerce
B/O Itaunja
Raja Ka Bagh
Near Iffco
Krishak Seva Kendra
Itaunja
Lucknow
437. Oriental Bank of Commerce
B/O Sahaganj
Hotel Awadh Plaza,
Opp. Bus Stand,
Nai Abadi
Sahaganj
438. Oriental Bank of Commerce
B/O Banthra
Banthra Bazar
Kanpur Road,
Lucknow
439. Oriental Bank of Commerce
B/O Mughal Sarai
482, Ravi Nagar,
Mughal Sarai
Distt.- Chandauli
440. Oriental Bank of Commerce
B/O Sidhauri
Prem Nagar
Near Maheshwari Petrol Pump,
NH-24, Sitapur, Uttar Pradesh

- | | |
|--|---|
| <p>441. Oriental Bank of Commerce
B/o Mirzapur
Teliganj
Mirzapur-UP</p> <p>442. Oriental Bank of Commerce
B/o Basharatpur,
Medical College Road,
Basharatpur,
Gorakhpur</p> <p>443. Oriental Bank of Commerce
B/o Badlapur-Jaunpur
Shahganj Road,
Badlapur,
Jaunpur</p> <p>444. Oriental Bank of Commerce
B/o Pratapgarh
A-141, Senani Chowk,
Meera Bhawan Chowraha
Pratapgarh</p> <p>445. Oriental Bank of Commerce
B/o Chintahat
Matiyari Chauraha,
Chanhath
Lucknow</p> <p>446. Oriental Bank of Commerce
B/o Ghazipur
18, Tulsi Sagar Colony
Near Bari Bagh Chungi
Ghazipur (UP)</p> <p>447. Oriental Bank of Commerce
B/o Bairia
Vill & PO Bairia,
PWD Guest House,
Bhojpur Road,
Ballia</p> <p>448. Oriental Bank of Commerce
B/o Kheta Sarai
Tehsil : Shahganj,
Jaunpur</p> <p>449. Oriental Bank of Commerce
B/o Maharajganj
Lohia Nagar,
Pharenda Road,
Maharajganj</p> <p>450. Oriental Bank of Commerce
B/o Unnao
41, Civil Lines,
Kutchery Road,
Unnao</p> | <p>451. Oriental Bank of Commerce
B/o Saraimbeer
Near Kamar Palace,
Distt. AZAMGARH
UP</p> <p>452. Oriental Bank of Commerce
B/o Fatehpur
Lucknow-Banda Sagar Road,
Main Market
Fatehpur- UP</p> <p>453. Oriental Bank of Commerce
B/o Padrauna
S Rungta Commercial Building
Subhash Chowk
Padrauna-UP</p> <p>454. Oriental Bank of Commerce
B/o Lalganj, Rae Bareilly
Station Road,
Lalganj
Rae Bareilly</p> <p>Hyderabad</p> <p>455. Oriental Bank of Commerce
B/o-9-1-129/1,
Oxford Plaza, S.D. Road,
Scundrabad (Andhra Pradesh)</p> <p>456. Oriental Bank of Commerce
B/o. Gurubabadi Road,
Opp. Lalita Thiyatre,
Nizamabad (Andhra Pradesh)</p> <p>457. Oriental Bank of Commerce
Regional Office,
103, 8-2-248A,
Maharshi House, Road No. 03,
Banjara Hills, Hyderabad - 500 034</p> <p>458. Oriental Bank of Commerce
B/o. Mukarampura, CVRN Road,
Karim Nagar (Andhra Pradesh)</p> <p>459. Oriental Bank of Commerce
B/o. Plot No. 10-14,
Auto Nagar,
Hyderabad - 500 070</p> <p>460. Oriental Bank of Commerce
B/o. 18/3, Sri Sai Sampada Plaza,
Street - 6, Habsiguda,
Hyderabad - 500 007</p> <p>461. Oriental Bank of Commerce
B/o. Sarada Sadan,
Opp. Balaji Grand Bazar,
10-5-2/7/F, Road No.1,
Banjara Hills, Hyderabad - 500034</p> |
|--|---|

462. Oriental Bank of Commerce
B/o. Plot No.5, Venkatgiri,
Jubilee Hills,
Hyderabad - 500 003

463. Oriental Bank of Commerce
B/o. Plot No. 214/P,
Budha Nagar, Near Uppal Depot,
Warangal Highway,
Hyderabad - 500 039

464. Oriental Bank of Commerce
B/o. Plot No. 03, Regency Plaza,
Maithriviher Area, Ameerpet,
Hyderabad - 500 016

Patna

465. Oriental Bank of Commerce
Regional Office,
1st Floor, Verma Centre,
Boring Road,
Patna

466. Oriental Bank of Commerce
B/o. Kuju,
Main Road, NH-33,
P.O. Kuju,
Distt. - Hazaribagh (Jharkhand)

467. Oriental Bank of Commerce
B/o. Barhi,
Patna Ranchi Road,
HP Petrol Pump,
Distt. - Hazaribagh (Jharkhand)

468. Oriental Bank of Commerce
B/o. Godda,
Ward No. 3(Old)/6 (New),
Hatia Chowk, Pirpainty Road,
Godda

469. Oriental Bank of Commerce
B/o. Katihar,
North Bihar Chamber of Commerce &
Industries,
Chamber Rath, M.G. Road,
Katihar (Bihar)

470. Oriental Bank of Commerce
B/o. Sarfuddinpur,
Village & PO. - Sarfuddinpur,
Distt. - Muzaffarpur (Bihar)

471. Oriental Bank of Commerce
B/o. Mohania,
Aghoreshwar Complex, Near MBGB,
Ramgarh Road,
Mohania (Bihar)

472. Oriental Bank of Commerce
B/o. Nawada,
Mohalla - Garhpar,
Nardiganj Road,
Near Chitragupt Mandir,
Post & Distt. - Nawada (Bihar)

473. Oriental Bank of Commerce
B/o. Behea,
C/o Nirmala Devi,
W/o Jagdish Prasad Jaiswal,
Kateya Road, Raja Bazar,
Behea (Bihar)

474. Oriental Bank of Commerce
B/o. Banka
C/o Mukesh Kumar Choudhary,
Rajesh Kumar Choudhary &
Ram Kumar Choudhary,
S/o Sh. Ram Chandra Choudhary,
Ward No. 12/3, Ali Ganj,
Near Nagar Palika,
Banka (Bihar)

475. Oriental Bank of Commerce
B/o. Jainagar
C/o Dr. Mahesh Chandra Sonthalia,
Sonthalia Bhawan, Main Road,
PO - Jainagar,
Distt. - Madhubani (Bihar)

476. Oriental Bank of Commerce
B/o. Dumraon,
C/o Satnarayan Prasad Jaiswal,
Manipur Kothi, Chowk Road,
Dumraon, Distt. - Buxar (Bihar)

477. Oriental Bank of Commerce
B/o. Jandaha
C/o. Brij Lal Mehrotra,
1st Floor, Mehrotra Complex,
Jandaha Market, Jandaha,
Distt. - Vaishali (Bihar)

478. Oriental Bank of Commerce
B/o. Warsaliganj,
Warsaliganj Market,
Warsaliganj,
Nawada (Bihar)

479. Oriental Bank of Commerce
B/o. Deoghar,
1st Floor, Assam Access Road,
Opp. Madarsa,
Deoghar (Bihar)

480. Oriental Bank of Commerce
B/o. Kankarbagh,
1st Floor, Hanuman Nagar,
Kankarbagh, Patna (Bihar)

BANKS

484. Syndicate Bank of Commerce
Door No. 17, Road, Bahadurpally, Vik.
Dist. Nellore
State: Andhra Pradesh (Haryana)

485. Syndicate Bank of Commerce
Door No. 17, Road, Bahadurpally, Vik.
Dist. Nellore
State: Andhra Pradesh (Haryana)

Syndicate Bank, Office, Language Division, (H.O.)
Mandala-276194

486. Syndicate Bank
Chittoor Branch
Door No. 17, 1st Floor
Deraswamy Iyengar Road
P.B. No. 26, Chittoor
Dist. Chittoor
State: Andhra Pradesh
Pin: 517611

487. Syndicate Bank
Padipalla Branch
D. No. A-49
Cheripalli Junction
Padipalla Village
Dist. Chittoor
State: Andhra Pradesh
Pin: 517565

488. Syndicate Bank
Tiramala Hills Branch
TID Shopping Complex
Tiramala Hills
Dist. Chittoor
State: Andhra Pradesh
Pin: 517504

489. Syndicate Bank
Padmavatipuram Branch
D. No. A-70/2
Tiruchanoor Road
Tirupati
Dist. Chittoor
State: Andhra Pradesh
Pin: 517503

490. Syndicate Bank
Tirupati CRS Branch
Carriage Repair Shop
(South Central Railway)
Village: Settipalli
Mandal: Tirupati Urban
Dist. Chittoor
State: Andhra Pradesh
Pin: 517506

488. Syndicate Bank
Gangavaram Branch
Near Naganallu Samagari
Madarapalle Road
Gangavaram
Dist. Chittoor
State: Andhra Pradesh
Pin: 517407

489. Syndicate Bank
Srikalahasti Branch
3/996, Nagar Street
Near Vijayalakshmi Theatre
Srikalahasti
Dist. Chittoor
State: Andhra Pradesh
Pin: 517644

490. Syndicate Bank
Kotrakona Branch
Gangadhara Nellore Mandal
Post Office Road
Kotrakona
Dist. Chittoor
State: Andhra Pradesh
Pin: 517122

491. Syndicate Bank
Yerravampalem Branch
D. No. 1-32
Bazar Street
Yerravampalem
Dist. Chittoor
State: Andhra Pradesh
Pin: 517194

492. Syndicate Bank
Regional Office
Jonnalagadda
Vari Street
Nellore
Dist. Nellore
State: Andhra Pradesh
Pin: 524001

493. Syndicate Bank
Utukur Branch
Sydapuram Mandal
Dist. Nellore
State: Andhra Pradesh
Pin: 524407

494. Syndicate Bank
Venkatagiri Branch
Door No. 8/12/B
1st Floor
Raja Street
Venkatagiri
Dist. Nellore
State: Andhra Pradesh
Pin: 524132

495. Syndicate Bank
Balayapalle Branch
Venkatagiri Taluk
Dist. : Nellore
State: Andhra Pradesh
Pin: 524 404
496. Syndicate Bank
Sullurpet Branch
D.No.18-1/C
Panduranga Street
Grand Trunk Road
Sullurpet
Dist. : Nellore
State: Andhra Pradesh
Pin: 524 121
497. Syndicate Bank
D.C. Palli Branch
Plot No.126, Ward-6
Nellore Bombay Highway
D.C. Palli
Dist. : Nellore
State: Andhra Pradesh
Pin: 524 307
498. Syndicate Bank
Kavali (Nellore Dist. :) Branch
3-12-73-76 Trunk Road
Srinivasulu Reddy Building
Kavali
Dist. : Nellore
State: Andhra Pradesh
Pin: 524001
499. Syndicate Bank
Chintavaram Branch
Chillakur Mandal
Dist. : Nellore
State: Andhra Pradesh
Pin: 524412
500. Syndicate Bank
Rapur Branch
6-101, Moghal Street
Rapur
Dist. : Nellore
State: Andhra Pradesh
Pin: 524408
501. Syndicate Bank
Chittamur Branch
Via Yellasi
Vakkadu Taluk
Chittamur
Dist. : Nellore
State: Andhra Pradesh
Pin: 524 161
502. Syndicate Bank
South Mopur Branch
D.No. 3-173
Near Bus Stand South Mopur (P.O.)
Dist: Nellore
State: Andhra Pradesh
Pin: 524 004
503. Syndicate Bank
Tada Branch
G.N.T. Road
2-79, Near Police Station Tada
Dist. : Nellore
State: Andhra Pradesh
Pin: 524401
504. Syndicate Bank
Udayagiri Branch
12-234, Annapurna Complex
Old Bus Stand Road
Udayagiri
Dist. : Nellore
State: Andhra Pradesh
Pin: 524226
505. Syndicate Bank
Alluru Branch
9-9-24, Main Road
Opp. Govt. Ayurvedic Dispensary
Alluru
Dist. : Nellore
State: Andhra Pradesh
Pin: 524315
506. Syndicate Bank
Vidavalur Branch
W 5-642
A.G.P. Reddy Building
Vidavalur
Dist. : Nellore
State: Andhra Pradesh
Pin: 524318
507. Syndicate Bank
Nayudupet Branch
Door No.1-1-61
Sri Kalahasti Road
Nayudupet
Dist. : Nellore
State: Andhra Pradesh
Pin: 524 126
508. Syndicate Bank
Podalakur Branch
No. 392, Main Road
Podalakur
Rapur Taluk
Dist. : Nellore
State: Andhra Pradesh
Pin: 524 345

- | | |
|---|---|
| <p>509. Syndicate Bank
Nellore Dargamitta Branch
GNT Road
Dargamitta
Dist. : Nellore
State: Andhra Pradesh
Pin: 524 003</p> <p>510. Syndicate Bank
Kota (Andhra Pradesh) Branch
Main Road, Kota
Dist. : Nellore
State : Andhra Pradesh
Pin: 524411</p> <p>511. Syndicate Bank
Nellore Brindavanam Branch (Main) Branch
15-276 Brindavanam
Dist. : Nellore
State: Andhra Pradesh
Pin: 524 001</p> <p>512. Syndicate Bank
Atmakur (Nellore Dist) Branch
Main Road
K. K. R. Hospital Complex
L.R. Palli, Atmakur
Dist. : Nellore
State: Andhra Pradesh
Pin: 524322</p> <p>513. Syndicate Bank
Jubilee Hills Branch
66A, Journalist Colony
A. Block
Jubilee Hills Hyderabad
Dist. : Hyderabad
State: Andhra Pradesh
Pin: 500 033</p> <p>514. Syndicate Bank
Tolichowki Branch
8-1-523/261
Main Road
Brindavan Colony
Tolichowki
Dist. : Hyderabad
State: Andhra Pradesh
Pin: 500 008</p> <p>515. Syndicate Bank
Hyderabad Jahanuma Branch
19-2-75/76
Bahadurpura Mandal
Boys Town Industrial Training Centre
Jahanuma, Hyderabad
Dist. : Hyderabad
State: Andhra Pradesh
Pin: 500 053</p> | <p>516. Syndicate Bank
Hyderabad Begumpet Branch
1-11-222/6D-
Sardar Patel Road
Begumpet
Main Road
Dist. : Hyderabad
State: Andhra Pradesh
Pin: 500 016</p> <p>517. Syndicate Bank
Hyderabad L.B. Nagar Branch
11-14-261/1
Ground Floor
Siri Nagar
Chitra Layout NTR Nagar
Hyderabad
Dist. : Rangareddy
State: Andhra Pradesh
Pin: 500 035</p> <p>518. Syndicate Bank
Hyderabad Balanagar Branch
Sanker Towers
A-30 IDPL Road
Balanagar Township
Dist. : Rangareddy
State : Andhra Pradesh
Pin : 500 037</p> <p>519. Syndicate Bank
Kothaguda Whitefield Branch
No. 1-62/1
Sri Tirumala's Subhas Arcade
First Floor
Kothaguda 'X' Roads
Sirilingampally Mandal
Kodapur Post
Hyderabad
Dist. : Rangareddy
State: Andhra Pradesh
Pin: 500 084</p> <p>520. Syndicate Bank
Hyderabad BHEL Branch
No. 363 HIG Colony
BHEL
Ramachandrapuram
Dist. : Medak
State: Andhra Pradesh
Pin : 502032</p> <p>521. Syndicate Bank
Asset Recovery Management Branch
No.18-4-42/A/1 and 42/6
Shamsher Gunj
Dist. : Hyderabad
State: Andhra Pradesh
Pin: 500 053</p> |
|---|---|

522. Syndicate Bank
CPC II Branch
Training Command
B-1-20, Sharavathi Block
N.G V. Koramangala
Dist. : Bangalore Urban
State: Karnataka
Pin: 560 047
523. Syndicate Bank
Central Processing Centre
D.No. 6-3-653
Pioneer House
Opp. Erram Manzil Somajiguda
Hyderabad
State: Andhra Pradesh
Pin: 500 082
524. Syndicate Bank
Yeliyur Branch
Opp. Railway Station
Dist. : Mandya
State: Karnataka
Pin: 571474
525. Syndicate Bank
Training Centre
8-1-26, 29 and 30/1
1st Floor
P.B.No. 1565
Rastrapati Road
Secunderabad
State: Andhra Pradesh
Pin: 500 003
526. Syndicate Bank
Regional Office
Neptune Towers
Opp. Nehru Bridge
Ashram Road
Dist. : Ahmedabad
State: Gujarat
Pin: 380 009
527. Syndicate Bank
I A F Hebbal Branch
Training Command
Indian Air Force Hebbal
Dist. : Bangalore Urban
State: Karnataka
Pin: 560 006
528. Syndicate Bank
Jokha Branch
178/1, Jokha
Tq: Kamrej
Dist. : Surat
State: Gujarat
Pin: 394 326
529. Syndicate Bank
Jolva Branch
Village & Post: Jolva
Dist. : Surat
State: Gujarat
Pin: 394 305
530. Syndicate Bank
Vejalpore Branch
House No. 1664
Ward No. 1, Block No. 204
Shreeji Nagar
Khergam Road
Near Parvati Motors
Dhamdachi Fatak
Vejalpore
Valsad
State : Gujarat
Pin : 396030
531. Syndicate Bank
Katuda Branch
Tq: Vadhvan
Dist. : Surendranagar
State: Gujarat
Pin: 363 040
532. Syndicate Bank
Nava Sadulka Branch
Bharatnagar, Nava Sadulka
Dist. : Rajkot
State: Gujarat
Pin : 363 642
533. Syndicate Bank
Khara Branch
House No. 310
Khara Laxmipura Tehsil : Mehsana
Tehsil : Mehsana
Dist. : Mehsana
State : Gujarat
Pin : 384 002
534. Syndicate Bank
Vareli Branch
Plot No.1, 2, 3, 4
Village: Vareli
Taluk : Palsana
Dist. : Surat
State: Gujarat
Pin: 394237
535. Syndicate Bank
Umbare Navlakh Branch
Milkat 675
Taluk : Maval
Dist. : Pune
State : Maharashtra
Pin : 410 506

536. Syndicate Bank
Antroli Branch
Village & P.O.: Antroli
Taluk : Palsana
Dist: Surat
State: Gujarat
Pin: 394 325
537. Syndicate Bank
Korti Branch
S.No.727 Pune-Bangalore Highway Korti
Dist : Satara
State: Maharashtra
Pin: 415 109
538. Syndicate Bank
Morewadi Kolhapur Branch
S.No.727
Sri Appa Saheb Baburao Temburle
Plot No.345, arati
R.K. Nagar, Morewadi
Pune-Bangalore Highway
Dist : Kolhapur
State: Maharashtra
Pin: 416 013
539. Syndicate Bank
Sudumbare Branch
Siddhant College of Engineering Sudumbare
Dist : Pune
State: Maharashtra
Pin: 412 109
540. Corporation Bank
Vijay Nagar, Yadav
Market, Paisar Dehat,
Faizabad Road,
Barabanki-225001
541. Corporation Bank
Jai Automobiles,
G.T. Road, Manglor
Chowki, Deoband-247554
542. Corporation Bank
Near Kapoor Nursing
Home, Allahabad
Bank Road, Elite
Howk
Jhansi-284001
543. Corporation Bank
Service Branch
No.C/3, 2nd
Floor, Center Court
Buildings, 5, Park Road
Near Om Pharma
Lucknow -226001
544. Corporation Bank
6-B, Krishna Nagar,
Goverdhan Nagar,
Mathura-281004
545. Corporation Bank
Banjaran Tehsil Rd,
Nakur-247342
Dist. -Saharanpur
546. Corporation Bank
Chakroata Rd, Near
Bus Stand, Behat-247121
Dist. - Saharanpur
547. Corporation Bank
Raghav Nagar,
Deoria-274001
548. Corporation Bank
Mini Caps, Jeevan
Vikas, 16/98, M G Marg
The Mall
Kanpur 208001
549. Corporation Bank
CAPS
No. C/3, 2nd
Floor, Center Court
Buildings,5, Park Road
Near Om Pharma
Lucknow-226001
550. Corporation Bank
Jeevan Prakash, Lic of
India Buldg,
Prabhat Nagar
Meerut-250 001
551. Corporation Bank
Ramalila Ground,
Budh Bazar, Pakbada-244102
Dist. -Moradabad
552. Corporation Bank
238, Kothiyat Civil
Lines, Opp:Old Dist.
Jail,Harihar Press
Compound,
Bulandshahr-247554
553. Corporation Bank
Teachers Colony,
Bijnore Road,
Dist - Muradabad
Gajra Wala-244235
554. Corporation Bank
C-7, Lic Rajajipuram,
Lucknow-226 017

555. Corporation Bank
Leela Steel Emporium
Building, Raibareilly Road,
Gandhi Nagar,
Telibagh,
Lucknow -226 002
556. Corporation Bank
No.15/28/8, Harthala,
Moradabad-24400 1
557. Corporation Bank
Station Road,
Chhatari Chauraha,
Pilibhit -262001
558. Corporation Bank
C-51, Awas Vikas, Nainital Road,
Rudrapur-26315
Dist: Udhy Amsingh Nagar
559. Corporation Bank
Mohalla Lal Mohammad,
G.T. Road, Khatauli-251201
Dist-Mujafar Nagar
560. Corporation Bank
Whites Road Branch
38 & 39, Whites Road
Chennai - 600014
561. Corporation Bank
T. Nagar Branch No.41,
Venkatanarayana
Road, T. Nagar,
Chennai - 600 017
562. Corporation Bank
George Town Branch
101, Armenian Street
George Town
Chennai - 600001
563. Corporation Bank
Seth Enclave, Main Road,
Opp: Pwd Guest House
Civil Road
Shahjahanpur- 242001
564. Corporation Bank
JIGANI
No 45, Nisarga Nandana
Bannerghatta-Jigani Rd.
Bangalore - 560 083
565. Corporation Bank
Kellys Corner Branch
12, Ormes
Road, P.B.No.113, Kellys
Corner, Kilpauk,
Chennai - 600 010
566. Corporation Bank
Mint Street Branch
378, First Floor,
Mint Street, Sowcarpet,
Chennai - 600 079
567. Corporation Bank
Commercial & Personal Banking Br.
58, First Avenue
NU-Tech Vikas
100 Feet Road
Ashok Nagar
Chennai- 600 083
568. Corporation Bank
Dheeman Pura
Shamli-247776
Dist- Muzaffer Nagar
569. Corporation Bank
Zonal Office
38 & 39, Whites Road
Chennai - 600 014
570. Corporation Bank
Indira Nagar Branch
77, First Avenue
Indira Nagar, Adyar
Chennai - 600 020
571. Corporation Bank
Retail Asset Hub,
Ground Floor, 161,
Linghi Chetty Street
Sowcarpet,
Chennai - 600 001
572. Corporation Bank
Zonal Auditt Office,
Ground Floor, 161,
Linghi Chetty Street
Sowcarpet,
Chennai - 600 001
573. Corporation Bank
Hyderabad-Nagole Branch
2-3-554, Road No.2,
Sai Nagar Colony Nagole
Hyderabad-500068
Andhra Pradesh
574. Corporation Bank
Narkatpally Branch
Store Complex
Medical College
Campus, Sripuram
Narkatpally - 508 254
District Nalgonda
Andhra Pradesh

575. Corporation Bank
Jagtial Branch
First Floor, No.3-5-24
Near New Bus Stand Out Gate
Jagtial - 505327
District Karimnagar
Andhra Pradesh
576. Corporation Bank
Moosa Complex
Near Municipal Bus Stand
Malappuram-676 505
577. Corporation Bank
Hyderabad-Madannapet
First Floor, No.17-1-178/4/28
Madannapet
Hyderabad-500059
Andhra Pradesh
578. Corporation Bank
Nalgonda Branch
5-4-61, (Old) 5-4-76 (New)
Church Compound Area
Prakasham Bazar Road
Nalgonda- 508 254 District Nalgonda
Andhra Pradesh
579. Corporation Bank
Bhanur Branch Ground
Floor, Plot No.10
Near Lahari Resorts
Patancheru -Shankarpally Road
Bhanur - 502305
District Medak
Andhra Pradesh
580. Corporation Bank
Edathil Building
CC 16/990-3
P.T. Jacob Road
Thoppumpady
Kochi-682005
581. Corporation Bank
Sangareddy Branch
Roshni Complex, Plot
No.10-70
Pothireddy-502 001
District-Medak
Andhra Pradesh
582. Corporation Bank
Miryalguda Branch
First Floor, Blue Whale Place
Reddy Colony
Miryalguda -508 207
District Nalgonda
Andhra Pradesh
583. Corporation Bank
Kurikel Towers
Pookattupady Road
Edapally Toll
Edappally - 682 024
584. Corporation Bank
D.No. 6/505 C
Prakash Estate
Northparur 683 513
585. Corporation Bank
No. 204/12
Vattampadam
Nhamanghat - 679 563
586. Corporation Bank
First Floor
Kidson Garden
S M Street
Kozhikode- 673001
587. Corporation Bank
Ground Floor,
XVII/240 (7, 8 & 9)
Pendanathu Plaza Vellappadu
Palaettumanoor Road
Palai -686 575
588. Corporation Bank
Empee Towers, T.C. Road,
Chirakkara Thalassery - 673001
589. Corporation Bank
1st Floor
Lurdh Matha Complex
Kanhagad-Panathur Road
Malakkallu
Hosadurg Taluk
Kasargod - 671 532
590. Corporation Bank
(A Premier Public Sector Bank)
BG-I, Ground Floor B-Wing, Delphi,
Hiranandani Business Park
Powai, Mumbai- 400076
Maharastra State
591. Corporation Bank
368/ C 1, Ground Floor
"Kuttethara"
Near Private Bus Stand
Mavelipuram, Seaport-Airport Road
Kakkanad - 682 030
592. Corporation Bank
Ground Floor
Hosabettu, Car Street
Manjeshwar
Kasargod Taluk
Kasargod - 671323

CANARA BANK

593. Marwari College,
Ranchi Marwari College
Campus, Hind Piri, Lake Road
Ranchi - 834 001
State - Jharkhand-
594. TRF, Jamshedpur
Station Road
11 Burma Mines
Jamshedpur - 931007
District: East Singh Bhum
State: Jharkhand
595. Bokaro Steel City, Holy Cross School Balidih
Bokaro Steel City-827010
District: Bokaro
State: Jharkhand
596. Giridih.
Gurudwara Shri Guru Singh Sabha,
Station Road, Guru Nanak Marg
Giridih-815301
District: Giridih
State: Jharkhand
597. Seraikela
Ward No 2, Near Police Station
Seraikela-833219
District: Seraikela-Kharswan
State: Jharkhand
598. B.I.A.L Branch
Bangalore International Airport Branch
Ground floor
B I A L Complex
Devanahalli - 562 110
599. KUDUR Branch
Aditya Complex
Fort Road Magadi Taluk
Ramanagar District
Kudur 562 127
600. DABASPET Branch
Maruti Complex
Madhugiri Road
Dabaspeta 562 111
601. G V I T Branch
Golden Valley Institute of Technology Branch
Orgaum Post
K G F, Robertsonpet - 563120
602. GUBBI Branch
III rd Cross
Mahalakshmi Nagar
Opposite Traveller's Bungalow
M.G Road, Gobbi Town
Gubbi Taluk
Tumkur District - 572 216

603. SRINIVASAPURA Branch
43, M.G Road
Opp. Govt. Girls Junior College
Srinivasapura
Kolar District - 563 135

604. ARISINAKUNTE Branch
No. 2511, Maruti Complex
Gejaganahalli Main Road
ARISINAKUNTE
Nelamangala Taluk
Bangalore Rural District - 562123

605. MAGADI Branch
Bangalore Mangalore Road
Ramanagar District
Magadi - 562 120

UNION BANK OF INDIA

**Official Language Implementation Division, Central
Office, Mumbai**

**Branches/Offices recommended for notification under
Official Language Rule 10(4)**

**Name of the Regional Office No.,
Name & Address of Branch / Office**

606. **Regional Office, Jaipur**
Union Bank of India,
Vaishali Nagar Branch,
D-344, Hanuman Nagar,
Amrapali Marg, Vaishali Nagar,
Jaipur- 302021
607. **Regional Office, Lucknow**
Union Bank of India,
Shiya Degree College Branch
Singhal Market Complex
In front of Railway Crossing
Brahma Nagar, Sitapur Road,
Lucknow, Uttar Pradesh,
Pin - 226008
608. **Regional Office, Ranchi**
Union Bank of India
Ramgarh Cantt. Branch Jhanda Chowk, N.H 33,
Ramgarh-829122 Distt.-Hazaribagh
Jharkhand
609. **Regional Office, Chandigarh**
Union Bank of India
Narwana Branch,
Dalip Chand Market
Near to Apolo Chowk Narwana,
Distt.-Jind-126416
610. Union Bank of India
Service Branch, Chandigarh
Sector-17B, Bank Square,
S. C. O., 64-64, Second Floor,
Chandigarh-160017

611. Union Bank of India
Hudda Office Sonipat Branch,
Delhi Road, Sector 14,
Sonipat 131001
612. Regional Office, Thane
Union Bank of India
Alibaug Branch
Siddhivinayak Co. Op. Hsg. Soc. Ltd.,
Ground Floor, Brahmin Ali,
Behind Siddhivinayak Temple,
Post-Alibaug,
Distt.-Raigad-402201
613. Regional Office, Pune
Union Bank of India
Aundh Branch
Shop No. 3 & 4, Kalpataru Enclave,
Opp. Hotel Shivsagar,
D. P. Road, Aundh, Pin 411007
614. Regional Office, Jalandhar
Union Bank of India
Ranjit Avenue Branch
B-Block, District Shopping Complex
SCO-21, Hemkunt Building
Ranjit Avenue
Amritsar 143001 (Punjab)
615. Union Bank of India
Mandi Gurdaspur Branch
514, G. T. Road,
Mandi, Gurdaspur-143521 (Punjab)
616. Union Bank of India
Urban Estate Branch
SCO-31, Shopping Complex,
Urban Estate, Phase-II,
Jalandhar -144022
617. Regional Office, Bhubaneswar
Union Bank of India
Dhenkanal Branch
Meena Bazar, Jagannath Road,
Dhenkand-759001, Orissa
618. Union Bank of India
Service Branch Bhubaneswar
102, Janpath,
Bhubaneswar-751001, Orissa
619. Union Bank of India
Baripada Branch
Lal Bazar, Baripada,
Distt.-Mayurbhang-757001
Orissa.

Indian Bank**List of Branches/Offices of Indian Bank to be notified under Rule 10(4) of Official Language Rules, 1976 in the Gazette of Government of India****State: Haryana; Punjab; Himachal Pradesh
Zonal Office : Chandigarh**

620. Indian Bank, Kaithal Branch
Chandani Chowk
Old Subzi Mandi,
Kaithal, 136027
Distt. : Kaithal (Haryana)
621. Indian Bank, Sector-21, Panchkula Branch
DSS -184, Main Market
Sector 21,
Panchkula - 134 112 (Haryana)
622. Indian Bank, Goraya Branch
G T Road,
Goraya - 144409
Distt. : Jalandhar
Punjab
623. Indian Bank, Dera Bassi Branch
Gurbaksh Colony
Barwala Road
Dera Bassi - 140507
Distt. : S A S Nagar Mohali (Punjab)
624. Indian Bank, Sector-45,
Chandigarh Branch
SCO : 62-63, Keshoram Complex,
Budail, Sector-45
Chandigarh- 160047
625. Indian Bank, Mandi Govindgarh Branch
Saint Ramji Dass Steel and Iron Rolling Mill-
Amloh Road,
Mandi Govindgarh - 147301
Distt. - Fatehgarh Sahab (Punjab)
626. Indian Bank. SAS Nagar Branch
SCF-14
Phase-XI
SAS Nagar, Mohali - 160062
(Punjab)
627. Indian Bank. Zirakpur Branch
Show Room Site No.1
Kalka - Zirakpur Highway
Near Hotel Dolphin
NAC Zirakpur - 160055
Distt. - Mohali (Punjab)
628. Indian Bank. Mandi Branch
Above Nishant Tent House
Sauli Khadd
Mandi-175001
Distt.-Mandi
(Himachal Pradesh)

629. Indian Bank, Chaura Maidan Branch
Shop No.3
Chaura Maidan
Shimla - 171004
Distt - Shimla (Himachal Pradesh)

630. Indian Bank, Una Branch
Amb Road
Una - 174303
(Himachal Pradesh)

National Bank For Agriculture And Rural Development

631. Oddisa Regional Office,
Bhubneshwar

632. Jammu and Kashmir Regional Office,
Jammu

633. Goa Regional Office,
Panaji

634. Andman & Nicobar Regional Office,
Portblair

635. Regional Training Centre,
Mangur

636. West Bengal Regional Office,
Kolkata

637. Arunachal Pradesh Regional Office,
Itanagar

Reserve Bank of India

638. Reserve Bank of India,
Secretariate Road, Saifabad.
Hyderabad - 500004

639. Reserve Bank Of India,
Pan Bazar, Station Road.
Guwahati - 781001

640. Reserve Bank Of India,
15, Netaji Subhash Road.
Kolkata - 700001

The Oriental Insurance Company Limited

641. Regional Office, Ambala

642. Divisional Office - 2, Jammu

नई दिल्ली, 1 मई, 2012

का.आ. 1592.—भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ड) के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री सौरभ चन्द्र, सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को अगले आदेशों तक श्री प्रदीप कुमार चौधरी के स्थान पर भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) के निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप में नामित करती है।

[फा. सं. 24/27/2002-आईएफ-1]

एस. गोपाल कृष्ण, अवर सचिव

New Delhi, the 1st May, 2012

S.O. 1592.—In pursuance of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (e) of sub-section (1) of Section 6 of the Export Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981), the Central Government hereby nominates Shri Saurabh Chandra, Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, as Director on the Board of Directors of Export Import Bank of India (Exim Bank) vice Shri Pradeep Kumar Chaudhery until further orders.

[F.No. 24/27/2002-IF-1]

S. GOPAL KRISHNA, Under Secy.

कार्यालय, मुख्य आयकर आयुक्त

जयपुर, 30 अप्रैल, 2012

सं. 01/2012-13

का.आ. 1593.—आयकर नियम, 1962 के नियम 2 सी ए के साथ पठनीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43वां) की धारा 10 के खण्ड (23सी) की उप-धारा (vi) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य आयकर आयुक्त, जयपुर एतद्द्वारा निर्धारण वर्ष 2011-12 एवं आगे के लिए कथित धारा के उद्देश्य से "ई. एम. सी. सी. प्रबन्ध समिति, जयपुर (स्थायी खाता संख्या AAATE0247P)" को स्वीकृति देते हैं।

2. बशर्ते कि समिति आयकर नियम, 1962 के नियम 2 सी ए के साथ पठनीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के उप-खण्ड (23 सी) की उप-धारा (vi) के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करे।

[सं. मुआआ/अआआ/(मु.)/जय/10(23सी)(vi)/2012-13/494]

ब्रजेश गुप्ता, मुख्य आयकर आयुक्त

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOMETAX

Jaipur, the 30th April, 2012

No. 01/2012-13

S. O. 1593.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) read with rule 2CA of the Income-tax Rules, 1962 the Chief Commissioner of Income-tax, Jaipur hereby approves "E. M. C. C. Prabandh Samiti, Jaipur(PAN-AAATE0247P)" for the purpose of said section from A. Y. 2011-12 & onwards.

2. Provided that the society conforms to and complies with the provisions of sub-clause (vi) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 read with rule 2CA of the Income-tax Rules, 1962.

[No. CCIT/JPR/Addl. CIT(Hqrs.)/10(23C)(vi)/2012-13/494]

BRIJESH GUPTA, Chief Commissioner of Income-tax

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

(राजभाषा यूनिट)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2012

का.आ. 1594.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम 4 के अनुसरण में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं माशरता विभाग) के अंतर्गत, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के निम्नलिखित दो केन्द्रीय विद्यालयों को, ऐसे कार्यालयों के रूप में, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी-वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :

- i. केन्द्रीय विद्यालय न. 1, तिरुपति, रामनगर एरिया, तिरुपति-07।
- ii. केन्द्रीय विद्यालय, छावनी क्षेत्र, हिसार।

[सं. 11011-1/2011-रा.भा.ए.]

अनन्त कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

(O. L. UNIT)

New Delhi, the 30th April, 2012

S. O. 1594.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following two Kendriya Vidyalayas of Kendriya Vidyalaya Sangathan under the Ministry of Human Resource Development, (Deptt. of School Education & Literacy) as offices, whose more than 80% members of the staff have acquired working knowledge of Hindi:

- i. Kendriya Vidyalaya, No.1, Tirupati, Ramnagar Area, Tirupati-07.
- ii. Kendriya Vidyalaya, Military Station, Hissar.

[No. 11011-1/2011-O.L.U.]

ANANT KUMAR SINGH, Jt. Secy.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2012

का.आ. 1595.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालयों, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद्वारा अधिसूचित करती है :

1. कयर प्रदर्शन व सूचना केन्द्र, राजीव गांधी हैंडीक्राफ्ट्स भवन, दूसरा तल, बाबा खडग सिंह मार्ग, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001

2. कयर भवन, 35, शियो चरनलाल रोड, इलाहाबाद-211001, उत्तर प्रदेश।
3. कयर भवन, एस सी ओ-84 सेक्टर 38-सी, चंडीगढ़-160036, पंजाब।
4. कयर भवन, एल जी एफ, 28-29, मंगलम टावर, गोलघर, गोरखपुर-273001, उत्तर प्रदेश।
5. कयर भवन, प्लॉट नं. 5, स्कीम नं 47, माइक्रोवेव टॉवर स्क्वायर, इंदौर-452001 मध्य प्रदेश।
6. कयर भवन, रवीन्द्र भवन, ए आई आर के सामने, एम आई रोड, जयपुर-302001, राजस्थान।
7. कयर भवन, 79/16 लाटूश रोड, (भारतीय स्टेट बैंक के नीचे), कानपुर-208001, उत्तर प्रदेश।
8. कयर भवन, 5, स्टेडियम हाउस, चर्च गेट, मुंबई-400020, महाराष्ट्र।
9. कयर भवन, बिसकॉमन भवन, वेस्ट लॉन, पटना-800001, बिहार।
10. कयर भवन, नीलगुप्त काम्प्लेक्स, एस एन रोड, महाबीर चौक, अप्पर बाजार, राँची-834001, झारखंड।
11. कयर भवन, सं. 61, गांधी रोड, जैन धर्मशाला के पास, देहरादून-248001, उत्तराखंड।

[सं. ई. 12016/01/2005-हिन्दी]

सी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 27th April, 2012

S. O. 1595.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices, under the control of the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, whose more than 80% staff has acquired working knowledge in Hindi:—

1. Coir Exhibition and Information Center, Rajiv Gandhi Handicrafts Bhawan, Second Floor, Baba Kharag Singh Marg, Cannought Place, New Delhi-11 0001.
2. Coir Bhawan, 35, Sheo Charan Lal Road, Allahabad-211001, Uttar Pradesh
3. Coir Bhawan, S C O - 84, Sector 38-C, Chandigarh-160036, Punjab.
4. Coir Bhawan, L G F, 28-29, Manglam Tower, Golghar, Gorakhpur- 273001, Uttar Pradesh.
5. Coir Bhawan, Plot No.5, Scheme No. 47, Microwave Tower Square, Indore-452001, Madhya Pradesh.
6. Coir Bhawan, Raveendra Bhawan, Opposite A I R, M I Road, Jaipur-302001, Rajasthan.

7. Coir Bhawan, 79/16, Latouche Road (Below State Bank of India), Kanpur-208001, Uttar Pradesh.
8. Coir Bhawan, 5, Stadium House, Church Gate, Mumbai-400020, Maharashtra.
9. Coir Bhawan, Biscomaun Bhawan, West Lawn, Patna-800001, Bihar.
10. Coir Bhawan, Nilgupt Complex, S N Road, Mahabir Chowk, Upper Bazar, Ranchi-834001, Jharkhand.
11. Coir Bhawan, No. 61, Gandhi Road, Near Jain Dharma Sala, Dehradun-248001, Uttarakhand.

[No. E-12016/01/2005-Hindi]

C. K. MISHRA, Jt. Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2012

का.आ. 1596.—दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 10 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद से परामर्श करने के बाद, एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग-I में निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः :-

2. रामा दंत चिकित्सा कालेज अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, कानपुर द्वारा प्रदान की जा रही दंत चिकित्सा डिग्रियों की मान्यता के बारे में दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1984 का 16) की अनुसूची के भाग-I में क्रम संख्या 58 के सामने कॉलम 2 एवं 3 की मौजूदा प्रविष्टियों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी नामतः :-

“ओर्थोडोन्टिक्स एवं डेंटोफेशियल ओर्थोपेडिक्स एम डी. एस (पेरियो.) (यदि दिनांक 6-7-2011 को अथवा उसके पश्चात् प्रदान की गई हो)।

परियोडॉन्टोलॉजी (यदि दिनांक 6-7-2011 को अथवा उसके पश्चात् प्रदान की गई हो)।

ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी (यदि दिनांक 9-7-2011 को अथवा उसके पश्चात् प्रदान की गई हो)।

डॉ. बी. डी. आर.
अम्बेडकर
विश्वविद्यालय, आगरा
एम डी. एस (आर्थो.)
डॉ. बी. डी. आर.
अम्बेडकर
विश्वविद्यालय, आगरा
एम डी. एस (ओरल
सर्जरी) डॉ. बी. डी. आर.
अम्बेडकर
विश्वविद्यालय, आगरा”

[फा. सं. वी. 12017/44/2003-डी ई (खंड VI)]

अनिता त्रिपाठी, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

New Delhi, the 22nd November, 2012

S. O. 1596.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 10 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Central Government, after consultation with

the Dental Council of India, hereby, makes the following amendments in Part-I of the Schedule to the said Act, namely:—

2. In the existing entries of column 2 & 3 against Serial No.58, in Part-I of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948) pertaining to recognition of dental degrees awarded by Dr.B.R. Ambedkar University, Agra, the following entries in respect of Rama Dental College Hospital & Research Centre, Kanpur, shall be inserted thereunder:—

“Orthodontics & Dentofacial Orthopedics (if granted on or after 6-7-2011)	MDS (Ortho.), Dr. B. R. Ambedkar University, Agra
Periodontology (if granted on or after 6-7-2011)	MDS (Perio.), Dr. B. R. Ambedkar University, Agra
Oral & Maxillofacial Surgery (if granted on or after 9-7-2011)	MDS (Oral Surgery), Dr. B. R. Ambedkar University, Agra”

[F.No. V. 12017/44/2003-DE (Vol. VI)]

ANITA TRIPATHI, Dy. Secy.

(आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2012

का.आ. 1597.—केंद्रीय सरकार, राजपत्र (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग के प्रशासनिक निबंधनधीन निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :-

1. क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान, जयपुर।

[सं. ई-11018/2/2003-पा.वि.प.(रा.पा.)]

एस. श्रीनिवास, उप सचिव

[Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Siddha, Unani and Homoeopathy (AYUSH)]

New Delhi, the 23rd April, 2012

S. O. 1597.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies the following office under the administrative control of the Department of AYUSH, Ministry of Health & Family Welfare, where more than 80% staff have acquired the working knowledge of Hindi:

1. Regional Research Institute for Homoeopathy, Jaipur.

[No. E-11018/2/2003-I.S.M. (O.L.)]

S. SRINIVAS, Dy. Secy.

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 मई, 2012

का.आ. 1598.—केन्द्र सरकार सार्वजनिक स्थल (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि. (एनटीपीसी लि.) के अधिकारी डा. राजीव कुमार मुखोपाध्याय, वरिष्ठ प्रबंधक (मानव संसाधन-कर्मचारी विकास केन्द्र) को भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य पद पर संपदा अधिकारी नियुक्त करती है तथा इस प्रयोजन से विद्युत मंत्रालय के दिनांक 8 जुलाई, 1993 के संख्या का.आ. 1590 की भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित अगला संशोधन करती है : अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में तालिका में क्रम सं. 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“2. डा. राजीव कुमार, मुखोपाध्याय, वरिष्ठ प्रबंधक (मानव संसाधन-कर्मचारी विकास केन्द्र), नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि. (एनटीपीसी लि.) फरक्का सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	फरक्का पुलिस थाना, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत फरक्का में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि. (एनटीपीसी लि.) अथवा फरक्का सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा स्वामित्व प्राप्त/पट्टे पर दी गई/किराए पद दी गई सभी भूमियाँ, क्वार्टर, एस्टेट संपत्तियों और आवास। बैष्णबनगर पुलिस थाना, जिला मालदा पश्चिम बंगाल के अंतर्गत खेजुरियाघाट में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि. (एनटीपीसी लि.) अथवा फरक्का सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा स्वामित्व प्राप्त/पट्टे या किराए पर दी गई सभी भूमियाँ, क्वार्टर, एस्टेट संपत्तियाँ एवं अन्य आवास।”
---	---

[फा. सं. 8/6/1992-थर्मल-1]

आई. सी. पी. केसरी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : प्रमुख अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 1590, दिनांक 8 जुलाई, 1993 के द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा विगत संशोधन का.आ. 465, दिनांक फरवरी 1, 2007 को किया गया था।

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 1st May, 2012

S. O. 1598.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints Dr. Rajib Kumar Mukhopadhyay, Senior Manager (Human Resources-Employees Development Centre), an officer of the National Thermal Power Corporation Limited (NTPC Limited) equivalent to the rank of Gazetted Officer of the Government of India to be Estate Officer and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Power number S. O. 1590, dated the 8th July, 1993, namely :—

In the said notification, in the Table, for serial number 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“2. Dr. Rajib Kumar Mukhopadhyay, Senior Manager (Human Resources-Employees Development Centre), National Thermal Power Corporation Limited (NTPC Limited), Farakka Super Thermal Power Project.	All lands, quarters, Estate Properties and accommodations owned/ leased/rented by National Thermal Power Corporation Limited (NTPC Limited), or Farakka Super Thermal Power Project in Farakka under the Farakka Police Station, District—Murshidabad, West Bengal. All lands, quarters, Estate Properties and other accommodations owned, leased or rented by Thermal Power Corporation Limited (NTPC Limited) or Farakka Super Thermal Power Project in Khejuriaghat under the Baishnabnagar Police Station, District Malda, West Bengal.”
--	--

[F. No. 8/6/1992-TH.-1]

I. C. P. KESHARI, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide number S. O. 1590, dated the 8th July, 1993 and last amended vide number S. O. 465, dated the 1st February, 2007.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)



नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2012

का.आ. 1599.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

तः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एकता बेइंग मशीन एंड टूल्स, 181/1, ए.जे.सी. बोस रोड, सेमिलटन चैम्बर, दूसरा तल, कोसकता-700014, पश्चिमी बंगाल द्वारा विनिर्मित साधारण यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) वाले "ई 211 टी" शृंखला के अस्वचालित तोलन उपकरण (मेकेनिकल हैंगिंग स्प्रिंग बेलेंस) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "एकता" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/11/524 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल स्प्रिंग सिद्धांत पर आधारित मेकेनिकल अस्वचालित तोलन उपकरण (मेकेनिकल हैंगिंग स्प्रिंग बेलेंस) है इसकी अधिकतम क्षमता 150 कि.ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 10 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) 1 कि.ग्रा. है। अंशांकन स्केल पर दिया गया प्वांटर मापमान को सूचित करता है।

आकृति-1



आकृति-2 : मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम।

उपकरण की बाड़ी पर दिए गए छेदों में से लीड और सील वायर लगाकर सील किया जा सकता है। कपटपूर्ण व्यवहार के लिए मशीन को खोले जाने से रोकने के लिए सीलिंग की जाती है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 100 से 1000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 500 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{-3} , 2×10^{-3} , 5×10^{-3} , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू.एम-21 (281)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 22nd February, 2012

S.O. 1599.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of models) Rules, 2011, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Mechanical hanging spring balance) of ordinary accuracy (accuracy class-III) of series "E 211T" and with brand name "EKATA" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. Ekata Weighing Machines and Tools, 181/1, A.J.C. Bose Road, Samilton Chamber, 2nd Floor, Kolkata-700014, West Bengal and which is assigned the approval mark IND/09/11/524.

The said model is the principal of spring based non-automatic weighing instrument (Mechanical hanging spring balance) with a maximum capacity of 150 kg. and minimum capacity of 10 kg. The verification scale interval (e) is 1 kg. A pointer on the dial indicates the results of the measurement.

Figure-1




Figure-2 : Sealing diagram of the sealing provision of the model.

Sealing can be done by applying lead and seal wire through the holes provided on the body of the instruments. Sealing shall be done to prevent opening of the weighing machine for fraudulent practice. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

Further, in exercise of the power conferred by sub-rule (9) of rule 8 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 500 kg. with verification scale interval (n) in the range of 100 to 1,000 for 'e' value of 5g or more and with 'e' value of 1×10^k , 2×10^k or 5×10^k , where k is a positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (281)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology


नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2012

का.आ.1600.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एकता वेइंग मशीन एंड टूल्स, 181/1, ए.जे.सी. बोस रोड, सेमिलटन चैम्बर, दूसरा तल, कोलकाता-700014, पश्चिमी बंगाल द्वारा विनिर्मित साधारण यथार्थता (यथार्थता वर्ग IIII) वाले "ई 199 टी" शृंखला के अस्वचालित तोलन उपकरण (मेकेनिकल क्रोन स्केल) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "एकता" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/11/525 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल स्प्रिंग सिद्धांत पर आधारित मेकेनिकल अस्वचालित तोलन उपकरण (मेकेनिकल क्रोन स्केल) है। इसकी अधिकतम क्षमता 1000 कि.ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 50 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) 5 कि.ग्रा. है। अंशांकन स्केल पर दिया गया प्वांटर मापमान को सूचित करता है।

आकृति-1



आकृति-2 : माडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम

उपकरण की बाडी पर दिए गए छेदों में से लीड और सील वायर लगाकर सील किया जा सकता है। कपटपूर्ण व्यवहार के लिए मशीन को खोले जाने से रोकने के लिए सीलिंग की जाती है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 100 से 1000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 500 कि.ग्रा. से 30000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{-3} , 2×10^{-3} , 5×10^{-3} , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21 (281)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 22nd February, 2012

S.O. 1600.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Mechanical Crane scale) of ordinary accuracy (accuracy class-III) of series "E 199T" and with brand name "EKATA" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. Ekata Weighing Machines and Tools, 181/1, A.J.C. Bose Road, Samilton Chamber, 2nd Floor, Kolkata-700014, West Bengal and which is assigned the approval mark IN.09/11/525.

The said model is the principle of spring based non-automatic weighing instrument (Mechanical crane scale) with a maximum capacity of 1000 kg and minimum capacity of 50 kg. The verification scale interval (e) is 5kg. A pointer on the dial indicates the results of the measurement.

Figure-1 Model




Figure-2—Sealing diagram of the sealing provision of the model.

Sealing can be done by applying lead and seal wire through the holes provided on the body of the instruments. Sealing shall be done to prevent opening of the weighing machine for fraudulent practice. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

Further, in exercise of the power conferred by sub-rule (9) of rule 8 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 500 kg. and up to 30000 kg with verification scale interval (n) in the range of 100 to 1,000 for 'e' value of 5g. or more and with 'e' value of 1×10^k , 2×10^k or 5×10^k , where k is a positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (281)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology


नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2012

क्र.आ.1601.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स पेंटावेय टेक्नोलॉजी, दूसरा तल, सूबी निवास, पेढ्या, एलपुल्ली, पालकड, केरल द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) वाले "एसपी" शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म टाइप) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "एसटीएचआरए" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/11/518 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म टाइप) है। इसकी अधिकतम क्षमता 1000 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 4 कि.ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) 200 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

आकृति-1



आकृति-2 : मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम।

डिस्पले की बाड़ी में से सीलिंग वायर निकाल कर डिस्पले पर सीलिंग की जाती है। सील के साथ जुड़े हुए डिस्पले के बेस प्लेट और टॉप कवर में बने दो छेदों में से सीलिंग वायर निकाल कर सील से जोड़ा गया है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 50 कि.ग्रा. से 5000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान $1 \times 10^*$, $2 \times 10^*$, $5 \times 10^*$, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21 (276)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 22nd February, 2012

S.O.1601.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Platform type) with digital indication of medium accuracy (accuracy class-III) of series "ASP" and with brand name "ASTHRA" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. Pentaweigh Technologies, 2nd Floor, Subi Nivas, Petta, Elappully, Palakkad, Kerala and which is assigned the approval mark IND/09/11/518.

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 1000 kg. and minimum capacity of 4 kg. The verification scale interval (e) is 200 g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts, 50 Hertz alternative current power supply.

Figure-1




Figure-2 : Schematic Diagram of sealing provision of the model.

Sealing is done on the display by passing sealing wire from the body of the display. The seal is connected by whole in base plate and top cover of display, then seal wire is passed through these two holes attached with seal. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in mother board to disable access to external calibration.

Further, in exercise of the power conferred by sub-rule (9) of rule 8 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50 kg. and up to 5000 kg. with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5 g. or more and with 'e' value of 1×10^k , 2×10^k or 5×10^k , where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer, in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (276) 2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology


नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2012

का.अ.1602.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स पेंटवेय टेक्नोलॉजी, दूसरा तल, सूबी निवास, पेट्टा, एलपुल्ली, पालकडु, केरल द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) वाले "एसटी" शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टॉप टाइप) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "एसटीएचआरए" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/11/519 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टॉप टाइप) है इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) 5 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

आकृति-1



आकृति-2 : मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम।

डिस्पले की बाड़ी में से सीलिंग वायर निकाल कर डिस्पले पर सीलिंग की जाती है। सील के साथ जुड़े हुए डिस्पले के बेस प्लेट और टॉप कवर में बने दो छेदों में से सीलिंग वायर निकाल कर सील से जोड़ा गया है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा. तक के "ई" मान के लिए 100 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 50 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{-6} , 2×10^{-6} , 5×10^{-6} , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21 (276)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 22nd February, 2012

S.O.1602.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Table top type) with digital indication of medium accuracy (Accuracy Class-III) of series "AST" and with brand name "ASTHRA" (hereinafter referred to as the said Model), manufactured by M/s. Pentaweigh Technologies, 2nd Floor, Subi Nivas, Petta, Elappully, Palakkad, Kerala and which is assigned the approval mark IND/09/11/519.

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 30 kg. and minimum capacity of 100 g. The verification scale interval (e) is 5g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts, 50 Hertz alternative current power supply.

Figure-1



Figure-2 : Schematic Diagram of sealing provision of the model.

Sealing is done on the display by passing sealing wire from the body of the display. The seal is connected by whole in base plate and top cover of display, then seal wire is passed through these two holes attached with seal. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in mother board to disable access to external calibration.

Further, in exercise of the power conferred by sub-rule (9) of rule 8 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50 kg. with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10,000 for 'e' value of 100 mg. to 2 g. and with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5 g. or more and with 'e' value of 1×10^k , 2×10^k or 5×10^k , where k is a positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (276)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology


नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2012

का.आ.1603.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स बी.के. वेइंग स्केल एंड सिस्टम्स, गांव डिमिसार, पी ओ डिमिसार, जिला नयागढ़, उड़ीसा द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) वाले “बीडब्ल्यूएसपी” शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म टाइप) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम “इशीता” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/11/520 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म टाइप) है इसकी अधिकतम क्षमता 200 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 400 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) 20 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

आकृति-1



आकृति-2 : मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम।

डिस्पले की बाड़ी में से सीलिंग वायर निकाल कर डिस्पले पर सीलिंग की जाती है। सील के साथ जुड़े हुए डिस्पले के बेस प्लेट और टॉप कवर में बने दो छेदों में से सीलिंग वायर निकाल कर सील से जोड़ा गया है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे 5 ग्रा. या उससे अधिक के “ई” मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 50 कि.ग्रा. से 5,000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और “ई” मान 1×10^{-3} , 2×10^{-3} या 5×10^{-3} , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21 (280)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 22nd February, 2012

S.O. 1603.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Platform type) with digital indication of medium accuracy (accuracy class-III) of series "BWSP" and with brand name "ESHEETA" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. B. K. Weighing Scale and Systems, Village Dimisar, P. C. Dimisar, District Nayagarh, Orissa and which is assigned the approval mark IND/09/11/520.

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 200kg. and minimum capacity of 400 kg. The verification scale interval (e) is 20g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts, 50 Hertz alternative current power supply.

Figure-1




Figure-2 : Schematic Diagram of sealing provision of the model.

Sealing is done on the display by passing sealing wire from the body of the display. The seal is connected by whole in base plate and top cover of display, than seal wire is passed through these two holes attached with seal. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in mother board to disable access to external calibration.

Further, in exercise of the power conferred by sub-rule (9) of rule 8 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg. and up to 5000 kg. with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g. or more and with 'e' value of 1×10^k , 2×10^k or 5×10^k , where k is a positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (280)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology


नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2012

क्र.आ. 1604.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स बी.के. वेइंग स्कैल एंड सिस्टम्स, गांव डिमिसार, पी ओ डिमिसार, जिला नयागढ़, उड़ीसा द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग II) वाले “बीडब्ल्यूएसटी” श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टॉप टाइप) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम “इशीता” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/11/521 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टॉप टाइप) है। इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) 2 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

आकृति-1



आकृति-2 मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम

डिस्पले की बाड़ी में से सीलिंग वायर निकालकर डिस्पले पर सीलिंग की जाती है। सील के साथ जुड़े हुए डिस्पले के बेस प्लेट और टॉप कवर में बने दो छेदों में से सीलिंग वायर निकालकर सील से जोड़ा गया है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक. यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे। 1 मि. ग्रा. से 50 मि.ग्रा. तक के “ई” मान के लिए 100 से 100,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) और 100 मि. ग्रा. या उससे अधिक के “ई” मान के लिए 5000 से 100,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 50 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और “ई” मान 1×10^{-6} , 2×10^{-6} , 5×10^{-6} , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21 (280)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 22nd February, 2012

S.O. 1604.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Table top type) with digital indication of high accuracy (accuracy class-II) of series "BWST" and with brand name "ESHEETA" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. B. K. Weighing Scale and Systems, Village Dimisar, P. O. Dismisar, District Nayagarh, Orissa and which is assigned the approval mark IND/09/11/521;

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 30kg. and minimum capacity of 100g. The verification scale interval (e) is 2g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts, 50 Hertz alternative current power supply.

Figure-1




Figure-2 : Schematic Diagram of sealing provision of the model.

Sealing is done on the display by passing sealing wire from the body of the display. The seal is connected by whole in base plate and top cover of display, than seal wire is passed through these two holes attached with seal. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in mother board to disable access to external calibration.

Further, in exercise of the power conferred by sub-rule (9) of rule 8 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50kg. with verification scale interval (n) in the range of 100 to 100,000 for 'e' value of 1mg. to 50 mg. and with verification scale interval (n) in the range of 5000 to 100,000 for 'e' value of 100mg. or more and with 'e' value 1×10^k , 2×10^k or 5×10^k , where k is a positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (280)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology


नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2012

का.आ.1605.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स स्काई कारपोरेशन, 84-महादेव एस्टेट-1, सेलूलर मिल कम्पाउंड, नियर कैनाल-रामोल रोड, सीटीएम, अहमदाबाद-26 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले "एसपी" शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म टाइप) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "सोनिक" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/1.1/463 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म टाइप) है। इसकी अधिकतम क्षमता 500 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 2 कि.ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) 100 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

आकृति-1



आकृति-2 : मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम

डिस्पले की बाड़ी में से सीलिंग वायर निकालकर डिस्पले पर सीलिंग की जाती है। सील के साथ जुड़े हुए डिस्पले के बेस प्लेट और टॉप कवर में बने दो छेदों में से सीलिंग वायर निकालकर सील से जोड़ा गया है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा. तक है "ई" मान के लिए 100 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 50 कि.ग्रा. से 5000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{-5} , 2×10^{-5} या 5×10^{-5} , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(199)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 22nd February, 2012

S.O.1605.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report(see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Platform type) with digital indication of medium accuracy (accuracy class-III) of series "SP" and with brand name "SONIC" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s Sky Corporation, 84-Mahadev Estate-1, Cellular Mill Compound, Near Canal-Ramol Road, CTM, Ahmedabad-26 and which is assigned the approval mark IND/09/11/463:

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 500 kg. and minimum capacity of 2kg. The verification scale interval (e) is 100g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts, 50Hertz alternative current power supply.

Figure 1.



Figure 2 : Schematic Diagram of sealing provision of the model.

Sealing is done on the display by passing sealing wire from the body of the display. The seal is connected by whole in base plate and top cover of display, than seal wire is passed through these two holes attached with seal. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in mother board to disable access to external calibration.

Further, in exercise of the power conferred by sub-rule (9) of rule 8 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg. and up to 5000kg. with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10,000 for 'e' value of 100mg. to 2g. and with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g. or more and with 'e' value of 1×10^k ; 2×10^k or 5×10^k where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (199)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology


नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2012

क्र.अ.1606.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा:

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स स्काई कारपोरेशन, 84-महादेव एस्टेट-1, सेलूलर मिल कम्पाउंड, नियर कैनाल-रामोल रोड, सीटीएम, अहमदाबाद-26 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले "एसटी" शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबलटाप टाइप) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "सोनिक" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई.एन.डी/09/11/464 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबलटाप टाइप) है। इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) 5 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

आकृति-1



आकृति-2 मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम।

डिस्पले की बाड़ी में से सीलिंग वायर निकालकर डिस्पले पर सीलिंग की जाती है। सील के साथ जुड़े हुए डिस्पले के बेस प्लेट और टॉप कवर में बने दो छेदों में से सीलिंग वायर निकालकर सील से जोड़ा गया है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा. तक के "ई" मान के लिए 100 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन, मापमान अंतराल (एन) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 50 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^0 , 2×10^0 या 5×10^0 , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक, पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू.एम-21(199)/2011]

बी. एन. दीक्षित निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 22nd February, 2012

S.O.1606.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report(see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Table top type) with digital indication of medium accuracy (accuracy class-III) of series "ST" and with brand name "SONIC" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s Sky Corporation, 84-Mahadev Estate-1, Cellular Mill Compound, Near Canal-Ramol Road, CTM, Ahmedabad-26 and which is assigned the approval mark IND/09/11/464;

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 30 kg. and minimum capacity of 100g. The verification scale interval (e) is 5g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts, 50Hertz alternative current power supply.

Figure 1.




Figure 2 : Schematic Diagram of sealing provision of the model.

Sealing is done on the display by passing sealing wire from the body of the display. The seal is connected by whole in base plate and top cover of display, than seal wire is passed through these two holes attached with seal. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in mother board to disable access to external calibration.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-rule (9) of rule 8 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50kg. with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10000 for 'e' value of 100mg. to 2g. and with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g. or more and with 'e' value of 1×10^k , 2×10^k or 5×10^k where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured

[F No. WM-21 (199)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology

(भारतीय मानक ब्यूरो)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2012

का.आ.1607.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिए गए मानक (कों) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :—

अनुसूची

क्रम सं.	संशोधित भारतीय मानक (कों) की संख्या, वर्ष और शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस 15111 (भाग 2) : 2002	8 मार्च, 2012	13 अप्रैल, 2012

इस भारतीय संशोधन की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : ईटी 23/टी-81]

आर. के. त्रेहन, वैज्ञानिक 'ई' एवं प्रमुख (विद्युत तकनीकी)

(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)

New Delhi, the 13th April, 2012

S. O.1607.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendment to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed has been issued :—

SCHEDULE

S.No.	No. & year of the Indian Standards	No. & Year of the Amendment	Date from which the Amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 15111 (Part 2) : 2002 Self Ballasted Lamps for General Lighting Services Part 2 Performance Requirements	8 March, 2012	13 April, 2012

Copy of this Amendment are available with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune and Thiruvananthapuram.

[Ref: ET 23/T-81]

R. K. TREHAN, Scientist 'E' & Head (Electrotechnical)

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2012

का.आ.1608.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिस भारतीय मानक का विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है वह वे स्थापित हो गया है :—

अनुसूची

क्र.सं.	स्थापित भारतीय मानक (कों) की संख्या वर्ग और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस : 13730 (भाग 2) : 2012 विशेष प्रकार की कुंडलण तारों की विशिष्ट भाग 2 टॉका लगाने योग्य पोलिथेन गोल कॉपर की तारें, वर्ग 130, बंधनीय पतं सहित (पहला पुनरीक्षण)		17-4-2012

इस भारतीय मानक की एक प्रति भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयंबटूर, गुवाहाटी, विशाखापट्टणम, जयपुर, नागपुर, कानपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : ईटी 33/टी-69]

आर. के. त्रेहन, वैज्ञानिक 'ई' एवं प्रमुख (विद्युत तकनीकी)

New Delhi, the 17th April, 2012

S. O. 1608.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies the Indian Standards to the Indian Standards, particulars of which is given in the Schedule hereto annexed has been issued :—

SCHEDULE

S.No.	No. & Year of the Indian Standard	No. & Year of the Indian Standards, if any, Superseded by the New Indian Standard	Date of Establishment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 13730 (Part 2) : 2012 Specification for Particular Types of Winding Wires Part 2 Solderable Polyurethane enamelled round Copper Wire, Class 130 with a bonding layer (First Revision)	---	17-4-2012

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref: ET 33/T-69]

R. K. TREHAN, Scientist 'E' & Head (Electrotechnical)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2012

का.आ.1609.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं :—

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानक (कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हों, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आईएस/आईएसओ : 5636-3 : 1992 वायु परागम्यता ज्ञात करना (मध्यम श्रेणी) भाग 3 बेंडसेन पद्धति	-	1 अप्रैल, 2011

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, गोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों को <http://www.standardsbis.in> द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है।

[संदर्भ : सीएचडी 15/आईएस/आईएसओ 5636-3]

ई. देवेन्दर, वैज्ञानिक 'जी' एवं प्रमुख (रसायन)

New Delhi, the 24th April, 2012

S. O.1609.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :—

SCHEDULE

S.No.	No. & Year of the Indian Standards Established	No. & Year of Indian Standards, if any, Superseded by the New Indian Standard	Date of Establishment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS/ISO : 5636-3 : 1992 Paper and Board— Determination of Air permeance (Medium Range)— Part 3 Bendtsen Method	—	1st April, 2011

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune and Thiruvananthapuram. on line purchase of Indian Standard can be made at : <http://www.standardsbis.in>.

[Ref: CHD 15/IS/ISO 5636-3]

E. DEVENDAR, Scientist 'G' & Head (Chemical)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2012

का.आ.1610.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के नियम 4 के उप-नियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं :-

अनुसूची

क्रम सं.	लाइसेंस संख्या	स्वीकृत करने की तिथि, वर्ष/माह	लाइसेंसधारी का नाम व पता	भारतीय मानक का शीर्षक	भा मा संख्या	भाग	अनु वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (9)
1.	3716563	7-4-2011	मैसर्स कला जवैलर्स, 201/2, डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर, राजश्री थियेटर के पास, सैक्टर 21, गांधीनगर-382021	स्वर्ण तथा स्वर्ण धातुओं के आभूषणों शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन	1417	-	- 1999
2.	3716361	7-4-2011	मैसर्स इंडियन हैल्थकेयर इनस, डी-25, डायमंड पार्क, नेशनल हाइवे नंबर 8, जी आई डी सी, नरोडा, अहमदाबाद-382330	पैकेजबंद पेयजल	14543	-	- 2004
3.	3716462	7-4-2011	मैसर्स एस के बिबरेजस, एट शंकरपुरा, पोस्ट टैटालाव, वडोदरा, डबोई-391110	पैकेजबंद पेयजल	14543	-	- 2004
4.	3717363	7-4-2011	मैसर्स फेयरमेट कैमिकल्स प्रा.लि., आर एस नंबर 129, ब्लॉक नंबर 235, जंबूसर रोड, एट तथा पी. ओ. महूवाड, ता पादरा, वडोदरा-391440	एडहैसिव फार यूस विद सिरामिक्स टाईलस मोसैयिक	15477	-	- 2004
5.	3716260	7-4-2011	मैसर्स सनराईस एंटरप्राईस, 5बी, सरस्वती इंडस्ट्रियल एस्टेट, डांडी रोड, सुभाष चंद्र गार्डन के सामने, सूरत मोरा, भागल-395005	पैकेजबंद पेयजल	14543	-	- 2004
6.	3717464	8-4-2011	मैसर्स कोन प्लस (ए डिविजन कलाथिया इंजिनियरिंग तथा कंसट्रक्शन लिमिटेड), कोनप्लस यूनिट, आई ओ सी पेट्रोल पम्प के पीछे, मनन ऑटो गोडाउन के सामने, कामोड पीराना रोड, कामोड सर्कल के पास, 200 फीट पर, एस पी रिंग रोड पर, कामोड गांव, कामोड, अहमदाबाद	प्रीकास्ट कंक्रीट पाईप (विद एंड विदाउट रेनिफोर्समेंट)	458	-	- 2003
7.	3717565	8-4-2011	मैसर्स महालक्ष्मी स्पन पाईप फैक्टरी, चकालसी रोड, पोस्ट कंजरी, ता. नडियाड, खेडा	प्रीकास्ट कंक्रीट पाईप (विद एंड विदाउट रेनिफोर्समेंट)	458	-	- 2003

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.	3717262	8-4-2011	मैसर्स गॉलफ सिरामिक्स लिमिटेड, सर्वे नंबर 731 से 733, मीठागांव के पास, मेहसाना बेचारजी रोड, बालाजी इंस्ट्रूलेटर प्रा. लिमिटेड, के पास, मेहसाना, बालोल-384410	विटरियस सैनिटरी एप्लाइडसिंस (विटरियस चाईना)	2556	-	-	1994
9.	3718264	13-4-2011	मैसर्स सिलीकोन जवैल इंडस्ट्रीज (प्रा.) लिमिटेड, सर्वे नंबर 57 तथा 59, गांव जीताली, जीआईडीसी अंकलेश्वर-393001	वुड पार्टिकल बोर्ड (मिडियम डैसिटी) फार जनरल परपस	3087	-	-	2005
10.	3718870	15-4-2011	मैसर्स बिजय इंडस्ट्रीज, 3, भार्गव एस्टेट, फुट मार्केट के पीछे नरोडा रोड, अहमदाबाद-380025	शू पालिस पेस्ट	1746	-	-	1992
11.	3719165	20-4-2011	मैसर्स पटेल तथा पटेल जवेलर्स, प्लॉट नंबर 1/55, शॉप नंबर ई, खोडियार काम्पलैक्स, ए के रोड, सूरत-395006	स्वर्ण तथा स्वर्ण धातुओं के आभूषणों शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन	1417	-	-	1999
12.	3719872	21-4-2011	मैसर्स सेमकोन कैमिकल्स प्रा.लि., 137, महा गुजरात इंडस्ट्रियल एस्टेट, सरखेज बावला हाइवे, गांव मोरयिया, अहमदाबाद-382213	एडहैसिव फार यूस विद सिरामिक्स टाइल तथा मोसैडकस	15477	-	-	2004
13.	3720049	25-4-2011	मैसर्स सिलीकोन जवैल इंडस्ट्रीज (प्रा.) लिमिटेड, सर्वे नंबर 57 तथा 59, गांव जीताली, जीआईडीसी, अंकलेश्वर, भारूच-393001	वुड प्रोडक्ट्स- प्रीलैमिनेटिड पार्टिकल बोर्ड	12823	-	-	1990
14.	3719973	25-4-2011	मैसर्स गणपति वुड प्लाई इंडस्ट्रीज, प्लॉट नंबर 7, सर्वे नंबर 276, गांव धर्मपुरा, ता. तथा डिस्ट्रिक्ट, खेड़ा-387560	ब्लॉक बोर्ड	1659	-	-	2004
15.	3720756	26-4-2011	मैसर्स पैकीरजियो इलैक्ट्रिकल्स, डी/67/सी, सरदार एस्टेट, अजवा रोड, बड़ोदा-390019	प्लागस तथा सॉकेट आउटलेटस	1293	-	-	2005
16.	3720655	26-4-2011	मैसर्स पैकीरजियो इलैक्ट्रिकल्स, डी/67/सी, सरदार एस्टेट, अजवा रोड, बड़ोदा-390019	स्विचिस फार डोमैस्टिक तथा सिमिलर परपस	3854	-	-	1997
17.	3721051	26-4-2011	मैसर्स गुजरात क्राफ्ट इंडस्ट्रीज लि., 431, सांतेज बडसर रोड, ता. कलोल, गांधीनगर, सांतेज-382721	एग्रो टैक्सटाईल हाई डैनसिटी पालीथिलीन (एचडीपीई) वोवन बैडस फार वर्मीकलचर	15907	-	-	2010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18.	3721152	27-4-2011	मैसर्स सीट लिमिटेड हलोल प्लांट एट तथा पी ओ गैटमुवाला, ता हलोल, डिस्ट्रिक्ट पंचमहल- 389350	आटोमोटिव विहीकल न्यूमैटिक टायर फार कर्मशाल विहीकल डायगोनल तथा रैडियल प्लार्ई	15636	--	--	2005
19.	3722356	28-4-2011	मैसर्स सिलीकोन क्राप साईस प्रा.लि., 32, नारायण एस्टेट, सानंद विरमगाम रोड, एट ईवावा, अहमदाबाद, सानंद	पैस्टिसाईडस पेंडीमैथलीन ई सी	12751	--	--	1989
20.	3722861	29-4-2011	मैसर्स एशियन पेंडस लिमिटेड, 2602, जी आई डी सी इंडस्ट्रियल एस्टेट, अंकलेश्वर, भारूच-393002	पालीयूरथेन फुल ग्लास इनैमल (टू पैक)	13213	--	--	1991
21.	3723358	29-4-2011	मैसर्स विशाखा इरीगेशन प्रा. लि., ब्लॉक नंबर 792/4बी, 2बी, 2सी-3, गांव मोती भोयान, ता कलोल, गांधीनगर-382721	अनप्लास्टिसाइड पी वी सी पाईप फार पोटेबल वाटर सपलाईस	4985	--	--	2000
22.	3722962	29-4-2011	मैसर्स विमल एक्वा विमल डेरी लि., पालवसाना क्रास रोड, मेहसाना-384002	पैकेजबंद पेयजल	14543	--	--	2004

[सं. सीएमडी/13:11]

टी. बी. नारायणन, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख

New Delhi, the 24th April, 2012

S.O.1610.—In pursuance of sub-regulation (5) of the regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given in the following schedule :—

SCHEDULE

Sl. No.	Licences No.	Grant Date	Name and Address of the Party	Title of the Standard	IS No.	Part	Sec.	Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	3716563	7-4-2011	M/s. Kala Jewellers 201/2, District Shopping Centre, Near Rajshree Theatre, Sector 21, Gandhinagar-382021	Gold and Gold alloys, jewellery/artefacts- fineness and marking	1417	--	--	1999
2.	3716361	7-4-2011	M/s. Indian Healthcare Inc. D-25, Diamond Park, National Highway No. 8, GIDC, Naroda, Ahmedabad-382330	Packaged drinking water	14543	--	--	2004
3.	3716462	7-4-2011	M/s. S K Beverages At Shankarpura, Post Tentalav Vadodara, Dabhoi-391110	Packaged drinking water	14543	--	--	2004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.	3717363	7-4-2011	M/s. Fairmate Chemicals Pvt. Ltd., R.S. No. 129, Block No. 235, Jambusar Road, At & PO. Mahuvad, Ta : Padra, Vadodara-391440	Adhesives for use with Ceramic Tiles and Mosaics	15477	-	-	2004
5.	3716260	7-4-2011	M/s. Sunrise Enterprise, 5-B, Saraswati Industrial Estate Dandi Road, Opp. Shubhash Chandra Garden, Surat Mora Bhagal-395005	Packaged drinking water	14543	-	-	2004
6.	3717464	8-4-2011	M/s. Con Plus (A division Kalathia Engineering & Construction Ltd.), Conplus+ Unit, Behind IOC Petrol Pump Opp. Manan Auto Godown, Kamod-Pirana Road, Near Kamod Circle, on 200Ft. S.P. Ring Road, Kamod Village, Kamod, Ahmadabad	Precast concrete pipes (with and without reinforcement)	458	-	-	2003
7.	3717565	8-4-2011	M/s. Mahalaxmi Spun Pipe Factory, Chakalasi Road, Post : Kanjari, Tal : Nadiad, Kheda	Precast concrete pipes (with and without reinforcement)	458	-	-	2003
8.	3717262	8-4-2011	M/s. Golf Ceramics Limited, Survey No. 731 to 733, Near Mithagav, Mehasana-Bechraji Road, Near Balaji Insulator Pvt. Ltd., Mehasana, Balol-384410	Vitreous Sanitary appliances (vitreous china) :	2556	-	-	1994
9.	3718264	13-4-2011	M/s. Silicon Jewel Industries (P) Ltd., Survey No. 57 & 59, Village Jitalee, G.I.D.C. Ankleshwar Bharuch, Ankleshwar-393001	Wood particle boards (medium density) for general purposes	3087	-	-	2005
10.	3718870	15-4-2011	M/s. Vijay Industries, 3, Bhargave Estate, B/H. Fruit Market, Narodaroad, Ahmedabad-380025	Shoe polish, paste	1746	-	-	1992
11.	3719165	20-4-2011	M/s. Patel and Patel Jewellers, Plot No. 1/55, Shop No. E, Khodiyar Complex, A.K. Road, Surat-395006	Gold and Gold alloys, jewellery/artefacts-fineness and marking	1417	-	-	1999
12.	3719872	21-4-2011	M/s. Samcon Chemicals (P) Ltd., 137, Maha Gujarat Industrial Estate, Sarkhej Bavla Highway, Village Moraiya, Ahmadabad-382213	Adhesives for use with Ceramic Tiles and Mosaics	15477	-	-	2004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13.	3720049	25-4-2011	M/s. Silicon Jewel Industries (P) Ltd., Survey No. 57 & 59, Village Jitalee, G.I.D.C. Ankleshwar, Bharuch-393001	Wood Products- Prelaminated Particle Boards-Specification	12823	—	—	1990
14.	3719973	25-4-2011	M/s. Ganpati Wood Ply Industries, Plot No. 7, Survey No. 276, Village Dharmapura, TA & Distt., Kheda-387560	Block Boards	1659	—	—	2004
15.	3720756	26-4-2011	M/s. Pancrazio Electrials, D/67/C, Sardar Estate, Ajiwa Road, Baroda-390019	Plugs and socket outlets	1293	—	—	2005
16.	3720665	26-4-2011	M/s. Pancrazio Electrials, D/67/C, Sardar Estate, Ajiwa Road, Baroda-390019	Switches for domestic and similar purposes	3854	—	—	1997
17.	3721051	26-4-2011	M/s. Gujarat Craft Industries Limited, 431, Santej-Vadsar Road, Tal : Kalol, Gandhinagar Santej-382721	Agro-textiles-high density polyethylene (HDPE) woven beds for vermiculture	15907	—	—	2010
18.	3721152	27-4-2011	M/s. Ceat Limited-Halol Plant At & P.O. Gerao-vaia, TA Halol, Distt. Panchmahal-389350	Automotive vehicles- pneumatic tyres for commercial vehicles- diagonal and radial ply	15636	—	—	2005
19.	3722356	28-4-2011	M/s. Silcon Crop Science Pvt. Ltd., 32, Narayanan Esate, Sanand-Virangam Road, At : Iyava, Ahmadabad, Sanand	Pesticides- pendimethalin ec -	12751	—	—	1989
20.	3722861	29-4-2011	M/s. Asian Paints Limited, 2602, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar, Bharuch-393002	Polyurethane full gloss enamel (two pack)	13213	—	—	1991
21.	3723358	29-4-2011	Vishakha Irrigation Pvt. Ltd., Block No. 792/4B, 2B, 2C-3, Village Moti Bhoyan, Taluka Kalol, Gandhinagar-382721	Unplasticized PVC Pipes for Potable Water Supplies	4985	—	—	2000
22.	3722962	29-4-2011	M/s. Vimal Aqua Vimal Dairy Ltd., Palavasana Cross Road, Mehsana-384002	Packaged drinking water	14543	—	—	2004

[No. CMD/13:11]

T. B. NARAYANAN, Scientist 'F' & Head

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2012

का.आ.1611.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम (5) के उपविनियम (6) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि निम्न विवरण वाले लाइसेंसों को उनके आगे दर्शायी गई तारीख से रद्द/स्थगित कर दिया गया है :-

अनुसूची

क्रम सं.	लाइसेंस संख्या सीएम/एल-	लाइसेंसधारी का नाम व पता	लाइसेंस के अंतर्गत वस्तु/प्रक्रम सम्बद्ध भारतीय मानक का शीर्षक	रद्द करने की तिथि
1.	7481885	मैसर्स महाराजा जवैलर्स, शॉप नंबर 1 तथा 3, सरेला शॉपिंग सेंटर, गोड डोड रोड, डिस्ट्रिक्ट सूरत	स्वर्ण तथा स्वर्ण धातुओं के आभूषणों शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	1-4-2011
2.	7876407	मैसर्स डी जी जवैलर्स, जी एफ/3/सी, मिलेनियम प्लाजा, स्वामीनारायण मंदिर के सामने, जजिस बंगला रोड, वस्त्रापुर, अहमदाबाद-380015	स्वर्ण तथा स्वर्ण धातुओं के आभूषणों शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	28-4-2011

[सं. सीएमडी/13 : 13]

टी. बी. नारायणन, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख

New Delhi, the 24th April, 2012

S. O. 1611.—In pursuance of sub-regulation (6) of the regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulation 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that the licences particulars of which are given below have been cancelled with effect from the date indicated against each :—

SCHEDULE

S.No.	Licences No. CM/L-	Name & Address of the Licensee	Article/Process with relevant Indian Standards covered by the licence cancelled	Date of Cancellation
1.	7481885	M/s. Maharaja Jewellers, Shop No. 1 & 3, Sarela Shopping Centre, GHOD-DOD Road, Distt. : Surat	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts-Fineness and marking IS 1417 : 1999	1-4-2011
2.	7876407	M/s. D. G Jewells, GF/3/C, Millennium Plaza, Opp. Swaminarayan Temple, Judges Bungalow Road, Vastrapur, Ahmedabad-380015	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts-Fineness and marking IS 1417 : 1999	28-4-2011

[No. CMD/13 : 13]

T. B. NARAYANAN, Scientist 'F' & Head

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2012

का.आ. 1612.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 4 के उप-नियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसें के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं :-

अनुसूची

क्रम सं.	लाइसेंस संख्या	स्वीकृत करने की तिथि, वर्ष/माह	लाइसेंसधारी का नाम व पता	भारतीय मानक का शीर्षक	भा मा संख्या	भाग	अनु	वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	3724461	4-5-2011	मैसर्स साहादरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ब्लॉक नंबर 88/89, गांव महुवेज, ता मंगरोल, सूरत-394125	भारतीय मानक कार्बोमेटिड तथा सैमी कार्बोमेटिड एसबैस्टोज सिमेंट शीट्स	459	-	-	2002
2.	3725362	4-5-2011	मैसर्स सिट्टान इंजीनियर्स, 30, निमेश एसटेट, अमर एसटेट के पास, मैमको चार रस्ता, नरोडा रोड, अहमदाबाद-380025	सबमर्सिबल पम्पसेट	8034	-	-	2002
3.	3724259	5-5-2011	मैसर्स महेश इंडस्ट्रीज, प्लॉट नंबर 262, जी वी एम एम इंडस्ट्रियल एस्टेट, ओढव, अहमदाबाद-382415	इरीगेशन इक्वूपमेंट पालीथिलीन पाईप्स फार इरीगेशन लेटरलस	12786	-	-	1989
4.	3725463	6-5-2011	मैसर्स नागार्जुन फर्टिलाइजर तथा कैमिकल्स लिमिटेड, प्लॉट नंबर 2505, 2506, जीआईडीसी, पंचमहल, हलोल-389350	इरीगेशन इक्वूपमेंट पालीथिलीन पाईप्स फार इरीगेशन लेटरलस	12786	-	-	1989
5.	3725564	6-5-2011	मैसर्स नागार्जुन फर्टिलाइजर तथा कैमिकल्स लिमिटेड, प्लॉट नंबर 2505, 2506, जीआईडीसी, पंचमहल, हलोल-389350	एमीटिंग पाईप सिस्टम	13488	-	-	2008
6.	3725665	6-5-2011	मैसर्स हर्ष बिजनेज, प्लॉट नंबर 4,5,6, केवल कृपा इंडस्ट्रियल सोसाइटी, भाटेना-3, के पीछे, अंजना सूरत-395002	पैकेजबंद पेयजल	14543	-	-	2004
7.	3725968	6-5-2011	मैसर्स गोपीनाथ एंटरप्राइस प्रा. लि., ब्लॉक नंबर 162, भारत एलुमिनियम के पीछे, सातेज-बडसर रोड, गांव सातेज, गांधीनगर, कलोल-382721	टैक्स्टाईल तारपोलिन मेड फ्राम हाई डेंसिटी पालीथिलीन क्लेथ फैब्रिक	7903	-	-	2005
8.	3726364	6-5-2011	मैसर्स प्रभात इलास्टोमर्स प्रा. लि., ए/1, 413-415, जीआईडीसी एस्टेट, रोड नंबर 4, सारीगाम, बलसाद-396155	रबर ग्रासकेट फार प्रेशर कुर्कर्स	7466	-	-	1994
9.	3727770	13-5-2011	मैसर्स जीटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रा. लि., न्यू जे के मोटर के पीछे, वेंट ब्रीज, 427/मोरैयाख सरखेज बावला रोड, सानंदर, अहमदाबाद-382213	कम्प्रेसन टाईप ट्यूबलर टर्मिनल एंडस फार एलुमिनियम कंडक्टर्स आफ इंसुलेटिड केबल	8309	-	-	1993

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.	3728368	13-5-2011	मैसर्स ए वन बिबरेज, एट शोभासन, ता. मेहसाना, एट गांव, शोभासन-384001	पैकेजबंद पेयजल	14543	-	-	2004
11.	3728469	18-5-2011	मैसर्स उजाला केबल इंडस्ट्रीज लकी इंडस्ट्रियल एस्टेट, अमराईवाडी, अहमदाबाद-380026	पी वी सी इंसुलेटिड केबल	694	-	-	1990
12.	3728671	18-5-2011	मैसर्स मारुति टैकनोप्लास्ट (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, 157/ए, त्रिभुवन एस्टेट, काठवाडा के पास, जी आई डी सी, ओढव, अहमदाबाद-382430	प्लास्टिक फ्लशिंग सिस्ट्रन फोर वाटर क्लोसैट्स तथा यूरिनलस	7231	-	-	1994
13.	3728570	19-5-2011	मैसर्स हेमरत्ना ज्वैलर्स, 3-4, राहंस पार्वट, गीतांजली, वराछा, मेन रोड, सूरत-395006	स्वर्ण तथा स्वर्ण धातुओं के आभूषणों शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन	1417	-	-	1999
14.	3729370	19-5-2011	मैसर्स हीरांबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्लॉट नंबर 1503, जीआईडीसी, फेस-III, वापी, वलसाद-396195	पैरिटसाईड डैलटामैथरिन डब्ल्यू पी	13457	-	-	1992
15.	3729269	20-5-2011	मैसर्स हीरांबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्लॉट नंबर 1503, जीआईडीसी, फेस-III, वापी, वलसाद-396195	टेमेफोस इमलसीफायेबल कंसट्रैट्स	8498	-	-	1977
16.	3728873	23-5-2011	मैसर्स गनैबो इंडिया लिमिटेड, प्लॉट नंबर 1302-1306, जीआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, चंपानेर रोड, पंचमहल, हलोल-389350	पोटेबल फायर एक्सटींग्श्वर परफोरमैस तथा कंसट्रक्शन	15683	-	-	2006
17.	3728974	23-5-2011	मैसर्स कैमट वैंटस तथा फलोस प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नंबर 129/सी/2, जीआईडीसी एस्टेट, भारूच, अंकलेश्वर-380002	टेमेफोस इमलसीफायेबल कंसट्रेट्स	8498	-	-	1977
18.	3729168	23-5-2011	मैसर्स देव इंजीनियरिंग कम्पनी, 3/2, अरविंद एस्टेट, सरस्वती विद्यालय के पीछे सीटीएम रोड, अमराईवाडी, अहमदाबाद-380026	ओपन वेल सबमर्सिबल पम्पसैट	14220	-	-	1994
19.	3729471	26-5-2011	मैसर्स रेगबो केबल इंडस्ट्रीज ब्लॉक नंबर 733, मारुति पेंट्स के के सामने, गांव रकनपुर, सोला सांतेज रोड, ता हलोल, गांधीनगर	पी वी सी इंसुलेटिड केबल	694	-	-	1990

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20.	3729875	27-5-2011	श्री यमुना आभूषण, एफ-3, रेलवे फाटक, जीआईडीसी रोड, श्याम प्लाजा काम्पलेक्स, बी वी नगर, आनंद	स्वर्ण तथा स्वर्ण धातुओं के आभूषणों शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन	1417	—	—	1999
21.	3730052	31-5-2011	मैसर्स महावीर ज्वैलर्स, स्वामीनारायण मंदिर के पास, साहेरा, अहमदाबाद-389210	स्वर्ण तथा स्वर्ण धातुओं के आभूषणों शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन	1417	—	—	1999

[सं. सीएमडी/13:11]

टी. बी. नारायणन, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख

New Delhi, the 24th April, 2012

S.O.1612.—In pursuance of sub-regulation (5) of the regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given in the following schedule :—

SCHEDULE

Sl. No.	Licences No.	Grant Date	Name & Address of the Party	Title of the Standard	IS No.	Part	Sec.	Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	3724461	4-5-2011	M/s. Sahyadri Industries Ltd. Block No. 88/89, Village: Mahuvej Tal : Mangrol, Surat, Mahuvej-394125	Indian standard corrugated and semi-corrugated asbestos cement sheets	459	—	—	2002
2.	3725362	4-5-2011	M/s. Syntron Engineers, 30, Nimesh Estate Near Amar Estate Memco Char Rasta Naroda Road, Ahmedabad-380025	Submersible pumpsets	8034	—	—	2002
3.	3724259	5-5-2011	M/s. Mahesh Industries, Plot No 262, G.V.M.M. Industrial Estate, Odhav, Ahmedabad-382415	Irrigation equipment - polyethylene pipes for irrigation laterals -	12786	—	—	1989
4.	3725463	6-5-2011	M/s. Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Ltd., Plot No. 2505, 2506, GIDC. Panchmahal, Halol-389350	Irrigation equipment- polyethylene pipes for irrigation laterals -	12786	—	—	1989
5.	3725564	6-5-2011	M/s. Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Ltd., Plot No. 2505, 2506, GIDC. Panchmahal, Halol-389350	Emitting pipes system	13488	—	—	2008
6.	3725665	6-5-2011	Harsh Beverages, Plot No. 4,5,6, Keval Krupa, Industrial Society, Behind Bhatena-3, Anjana, Surat-395002	Packaged drinking water (other than packaged natural mineral water)	14543	—	—	2004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.	3725968	6-5-2011	Gopinath Enterprise Pvt. Ltd., Block No. 162, Behind Bharat Aluminium Santej-vadsar Road Village: Santej, Gandhinagar Kalol-382721	Textiles-tarpaulins made from high density polyethylene woven fabric-	7903	-	-	2005
8.	3726364	6-5-2011	M/s/ Prabhat Elastomers Private Limited., A/1, 413-415, GIDC Estate Road No.4, Sarigam, Valsad-396155	Rubber Gaskets for pressure cookers	7466	-	-	1994
9.	3727770	13-5-2011	M/s. Zeeta Electrical Engineering Pvt. Ltd., Behind New J K Motor, Weight Bridge, 427/Moraiya, Sarkhej-Bavla Road, Sanand, Ahmedabad-382213	Compression type tubular terminal ends for aluminium conductors of insulated cables	8309	-	-	1993
10.	3728368	13-5-2011	M/s. A One Beverages, At Shobhasan, Tal. Mehsana, At Village Shobhasan-384001	Packaged drinking water (other than packaged natural mineral water)	14543	-	-	2004
11.	3728469	18-5-2011	M/s. Ujala Cable Industries Lucky Industrial Estate Amraiwadi, Ahmedabad 380026	PVC insulated cables	694	-	-	1990
12.	3728671	18-5-2011	Maruti Technoplast (India) Pvt. Ltd., 157/A, Tribhuvan Estate, Near Kathwada, GIDC, Odhav Ahmedabad 382430	Plastic flushing cisterns for waterclosets and urinals	7231	-	-	1994
13.	3728570	19-5-2011	Hemratna Jewellers, 3-4 Rahhans Point, Gitanjali, Varachha, Main Road, Surat-395006	Gold and gold alloys, jewellery/artefacts - fineness and marking -	1417	-	-	1999
14.	3729370	19-5-2011	Heranba Industries Ltd., Plot No. 1503, GIDC, Phase III, Vapi, Valsad-396195	Pesticide-deltamethrin wp-	13457	-	-	1992
15.	3729269	20-5-2011	Heranba Industries Ltd., Plot No. 1503, GIDC, Phase III, Vapi, Valsad-396195	Temephos emulsifiable concentrates	8498	-	-	1977
16.	3728873	23-5-2011	Gannebo India Limited, Plot No. 1302-1306, GIDC Industrial Estate, Champaner Road, Panchmahal, Halol-389350	Portable fire extinguishers - performance and construction	15683	-	-	2006
17.	3728974	23-5-2011	Chemet Wets & Flows Pvt. Ltd., Plot No. 129/C/2, GIDC Estate, Bharuch, Ankleshwar-380002	Temephos emulsifiable concentrates	8498	-	-	1977
18.	3729168	23-5-2011	Dev Engineering Co., 3/2, Arvind Estate, B/H Saraswati Vidhyalay, C.T.M., Road, Amraiwadi, Ahmedabad-380026	Openwell submersible pumpsets	14220	-	-	1994

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19.	3729471	26-5-2011	Rainbow Cable Industries, Block No. 733, Opp Maruti Paints, Village Rakanpur, Sola-Santej Road, Taluka Kalol Dist. Gandhi Nagar, Rakanpur	PVC insulated cables	694	-		1990
20.	3729875	27-5-2011	Shree Yamuna Abhushan F-3, Railway Fatak, G.I.D.C., Road, Shyam Plaza Complex, V. V. Nagar, Anand.	Gold and gold alloys, jewellery/artefacts - fineness and marking -	1417	-		1999
21.	3730052	31-5-2011	Mahavir Jewellers Near Swamynarayan Temple, Sahera, Ahmadabad-389210	Gold And gold alloys, jewellery/artefacts - fineness and marking -	1417	-		1999

[No. CMD/13:11]

T. B. NARAYANAN, Scientist 'F' & Head.

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2012

का.आ.1613.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम 1988 के विनियम (5) के उप-विनियम (6) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि निम्न विवरण वाले लाइसेंसों को उनके आगे दर्शायी गई तारीख से रद्द/स्थगित कर दिया गया है :-

अनुसूची

क्र. सं.	लाइसेंस संख्या सीएम/एल	लाइसेंसधारी का नाम व पता	लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तु/प्रकम सम्बद्ध भारतीय मानक का शीर्षक	रद्द करने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	7482988	मैसर्स श्री गोपीनाथ ज्वैलर्स शॉप नं. 1-2, सूर्या शॉपिंग सेंटर, सेवाश्रम रोड, भारुच-392001	स्वर्ण तथा स्वर्ण धातुओं के आभूषणों शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	5-5-2011
2.	7649594	मैसर्स एरोलैक्स केबलस प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नंबर 5 तथा 6, महागुजरात, इंडिस्ट्रियल एस्टेटमैरैया, सरखेज बावला हाईवे, ता सानंद, अहमदाबाद-382213	पी वी सी इंसूलेटिड केबल आई एस 694 : 1990	16-5-2011
3.	7740075	मैसर्स दागिना, 14, वाईट हाउस, पैलेस रोड, पालनपुर, डिस्ट्रिक्ट बनसकांटा-385001	स्वर्ण तथा स्वर्ण धातुओं के आभूषणों शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	20-5-2011
4.	7347982	मैसर्स एच एम एलुमिनियम एलॉय प्रा. लिमिटेड, 393 से 396, जी आई डी सी इंडस्ट्रियल एस्टेट, मंजूसर, ता सावलीवडोदरा-391770	एलुमिनियम कंडक्टरस फार ओवरहेड ट्रांसमिशन परपस आईएस 398 : पार्ट 4 : 1994	20-5-2011
5.	3668780	मैसर्स पी एस एल लिमिटेड, सर्वे नंबर 124, खादत, महुडी रोड, तालुक्का मानसा डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर-382855	स्पारल वैलडिड पाईपस आई एस 5504 : 1997	20-5-2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	7949004	मैसर्स डिवाइन इंडिया, सर्वे नंबर 215, टोल प्लाजा के पास, आर टी ओ ऑफिस के पास, बाय पास रोड, डि साबरकांटा-383 220	पैकेजबंद पेयजल आई एस 14543 : 2004	18-5-2011
7.	7981303	मैसर्स शांति ज्वैल्स, 13 ए, शॉप नंबर यू 32,33, जोली शॉपिंग पाइंट अभिनंदन ए सी मार्केट के सामने, गोड डोड रोड, सूरत-395 001	स्वर्ण तथा स्वर्ण धातुओं के आभूषणों शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417: 1999	20-5-2011

[सं. सी एम डी/13:13]

टी. बी. नारायणन, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख

New Delhi, the 24th April, 2012

S.O. 1613.—In pursuance of sub-regulation (6) of the regulation (5) of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that the licences particulars of which are given below have been cancelled with effect from the date indicated against each :

SCHEDULE

Sl. No.	Licences No. CM/L	Name and Address of the Licensee	Article/Process with relevant Indian Standards covered by the licence cancelled	Date of Cancellation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	7482988	M/s. Shree Gopinath Jewellers Shop No. 1-2, Surya Shopping Centre, Sewashram Road, Distt. : Bharuch-392 001	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts-Fineness and Marking IS 1417 : 1999	5-5-2011
2.	7659494	M/s. Aerolex Cables Pvt. Ltd., Plot No. 5 and 6 Mahagujarat Industrial Estate Moraiya Surkhej Bavla Highway, Tal : Sanand, Ahmedabad-382 213	PVC Insulated Cables IS 694 : 1990	16-5-2011
3.	7740075	M/s. Dagina 14, White House, Palace Road, Palanpur, Distt. : Banas Kantha-385 001	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts-Fineness and Marking IS 1417 : 1999	20-5-2011
4.	7347982	M/s. H. M. Aluminium Alloy Pvt. Ltd., 393 to 396, GIDC Indl. Estate Manjusar, Taluka Savli, Savli Distt. : Vadodara-391 770	Aluminium conductors for overhead transmission purposes : Part 4 IS 398 : Part 4 : 1994	20-5-2011
5.	3668780	M/s. PSI. Limited, Survey No. 124, Khadat, Towards Mahudi Road, Taluka-Mansa Distt.-Gandhinagar, Mahudi, Distt. : Gandhinagar-382 855	Spiral welded pipes IS 5504 : 1997	20-5-2011
6.	7949004	M/s. Divine India Survey No. 215, Near Toll Plaza, Near R.T.O. Office, By Pass Road, Himatnagar, Distt : Sabarkantha Gujarat-383 220	Packaged drinking water (other than packaged natural mineral water)- IS 14513 : 2004	18-5-2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	7981303	M/s. Shanti Jewellers 13A, Shop No. U-32, 33, Jolly Shopping Point, Opp. Abhinandan A/c Market, Ghod Dod Road, Surat-395001	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts-Fineness and Marking IS 1417 : 1999	20-5-2011

[No. CMD/13:13]

T. B. NARAYANAN, Scientist 'F' & Head

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2012

का.आ.1614.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के नियम 4 के उप-नियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं :—

अनुसूची

क्रम सं.	लाइसेंस संख्या	स्वीकृत करने की तिथि, वर्ष/माह	लाइसेंसधारी का नाम व पता	भारतीय मानक का शीर्षक	भा मा संख्या	भाग	अनु	वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	3730254	01-06-2011	मैसर्स एन जी बिजनेस, सर्वे नंबर 453, गुरुदास के पीछे, वैस्टर्न पार्क के पास, एस जी हाइवे रोड, बांडकदेव, अहमदाबाद-380054	पैकेजबंद पेयजल (अदर दैन पैकेजड नेचुरल मिनरल वाटर)	14543	—	—	2004
2.	3730557	01-06-2011	मैसर्स रैकान फार्माकैम प्रा. लिमिटेड, पैराडाईस काम्प्लेक्स, सयार्जगंज, बड़ोदरा	एसकोरबिक एसिड, फुड ग्रेड	5342	—	—	1996
3.	3730961	03-06-2011	मैसर्स के एन ज्वैलर्स, 4, 8/681 रामराज सदन, कुम्हारवाड, नवसारी-396445	स्वर्ण तथा स्वर्ण धातुओं के आभूषणों शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन	1417	—	—	1999
4.	3732056	03-06-2011	मैसर्स जेन फुड तथा बिजनेस, प्लॉट नंबर 98, विश्वाकर्मा नगर, शामलाजी रोड, गणेशपुर साबरकांटा, मोडासा-383315	पैकेजबंद पेयजल (अदर दैन पैकेजड नेचुरल मिनरल वाटर)	14543	—	—	2004
5.	3734969	03-06-2011	मैसर्स विमल क्राप केंयर प्रा. लिमिटेड, 98, लि मन्नाडिया गांव, एनएच नंबर 08, रनासन पावर हाउस के पास, गांधीनगर, गुजरात-382330	लमीडाकलोप्रिड एस एल	15335	—	—	2003
6.	3732157	07-06-2011	मैसर्स श्री महाकाली ज्वेलर्स, जी/3, प्रियाप्रेम काम्प्लेक्स, गाडकरी मार्ग, सेंट्रल बैंक के पास नवसारी-396445	स्वर्ण तथा स्वर्ण धातुओं के आभूषणों शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन	1417	—	—	1999
7.	3733361	07-06-2011	मैसर्स ब्लू वाटर, बी/1/2, गोपाल नगर, नंदिता क्रास रोड, एट टैन, ताल्लुका बारडोली, सूरत-394601	पैकेजबंद पेयजल (अदर दैन पैकेजड नेचुरल मिनरल वाटर)	14543	—	—	2004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.	3731660	07-06-2011	मैसर्स खुशबु प्रा. लिमिटेड, 143-ए, धानोट गांव, छतराल, कडी रोड, ता. कलोल, गांधीनगर-382729	वुड फलश डोर शटर (सालिड कोर टाईप) पार्ट 1 प्लाईवुड फेस पैनल	2202	1	-	
9.	3731761	07-06-2011	मैसर्स खुशबु प्रा. लिमिटेड, 143-ए, धानोट गांव, छतराल, कडी रोड, ता. कलोल, गांधीनगर-382729	ब्लाक बोर्ड	1659			2004
10.	3731862	07-06-2011	मैसर्स नंदप्लाई तथा बोर्ड प्रा. लिमिटेड, 34, जाक इंडस्ट्रियल एरिया, गांव जाक, वाहेला रोड, पी ओ पारदोल, ता. देहगाम, अहमदाबाद-382325	ब्लाक बोर्ड	1659			2004
11.	3734868	16-06-2011	मैसर्स सारथी एग्रो कैम, 1306/5, फेस 4, जीआईडीसी नरोडा, अहमदाबाद-382330	पैस्टिसाईडस- पेंडीमैथालिन ई सी	12751			1989
12.	3737066	22-06-2011	मैसर्स टाईड इंडस्ट्रीज, प्लाट नंबर 231, प्रतापपुरा, हलोल-391750, पंचमहल	शु पालिश पेस्ट	1746			1992
13.	3737167	23-06-2011	मैसर्स जगरनॉट ऑटो इंडस्ट्रीज, प्लाट नंबर 1618, जी आई डी सी, सारीगाम, डिस्ट्रिक्ट वलसाद-396155	आटोमोटिव वहिकल्स टयूब्स फार न्यूमैटिक टायर	13098			1991
14.	3736266	23-06-2011	मैसर्स कैमेट वेटस तथा फलांस, प्लाट नंबर 129/सी/2, जीआईडीसी, अहमदाबाद, भारूच, अंकलेश्वर-393002	लामबडा साइड्लोथ्रान डब्ल्यू पी	14510			1997
15.	3736367	23-06-2011	मैसर्स गणपति वुड प्लाई इंडस्ट्रीज, प्लाट नंबर 7, सर्वे नंबर 276, गांव धर्मपुरा (नायका), ता. तथा डि. खेडा-387560	वुड फलश डोर शटर (सालिड कोर टाईप) पार्ट-1 प्लाईवुड फेस पैनल	2202	1		1999
16.	3736468	23-06-2011	मैसर्स परफैक्ट प्लाई प्रा. लिमिटेड, एट. पारीयेज, ता. मातर खेडा-388180	प्लाईवुड फार जनरल परपस	303			1989
17.	3736569	23-06-2011	मैसर्स परफैक्ट प्लाई प्रा. लिमिटेड, एट. पारीयेज, ता. मातर खेडा-388180	ब्लाक बोर्ड	1659			2004
18.	3736771	23-06-2011	मैसर्स अंबे बिबरेज, क्रम सख्या 483/ पी. सेडा रोड, जी आई डी सी के पास, गांव चनासमा, पाटन चनासमा-384220	पैकेजबंद पेयजल (अदर दैन पैकेजड नेचुरल मिनरल वाटर)	14543			2004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19.	3736872	23-06-2011	मैसर्स स्टार ज्वेलरी, 101, प्रमुख चेम्बर्स, एल आई सी क्वार्टर्स के सामने, टिमालियावाड, नानपुरा सूरत	स्वर्ण तथा स्वर्ण धातुओं के आभूषणों शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन	1417			1999
20.	3736973	23-06-2011	मैसर्स शुभ ज्वैलर्स, ई-108, जासुदनगर सोसाइटी, आईओसी रोड, स्नेहप्लाजा कामप के पास, चांदखेडा, अहमदाबाद-382424	स्वर्ण तथा स्वर्ण धातुओं के आभूषणों शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन	1417		-	1999
21.	3737470	24-06-2011	मैसर्स गुजरात कंटेनर्स लिमिटेड, प्लॉट नंबर 488, बड़ोदा सावली हाइवे, गांव टुंडव, ता. सावली बड़ोदा	ड्रमस. लार्ज फिक्स एंड्स पार्ट 2 ग्रेड बी ड्रम	1783	2	-	1988
21.	3737571	24-06-2011	मैसर्स निंबस बिबरेज प्रा. लि., प्लॉट नंबर 507 तथा 508, फेस 1, जीआईडीसी छतराल, ता. कलोल, गांधीनगर-382729	पैकेंजबंद पेयजल (अदर दैन पैकेंजड नेचुरल मिनरल वाटर)	14543		-	2004
22.	3737672	24-06-2011	मैसर्स नीसा इफ्रास्टकचर लिमिटेड, प्लॉट नंबर 278/279, पंचरत्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट, आरमैक कोल्ड स्टोरेज के सामने, अहमदाबाद, चांगोदर-382213	कार्बन स्टील कास्ट बिलेट इनगोट्स, बिलेट बलूम तथा स्लैब फार रि रोलिंग इंटू स्टील फार जनरल स्टक्चरल परपस	2430		-	1992
23	3737773	24-06-2011	मैसर्स नीसा इफ्रास्टकचर लिमिटेड, प्लॉट नंबर 278/279, पंचरत्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट, आरमैक कोल्ड स्टोरेज के सामने, अहमदाबाद चांगोदर-382213	स्टील फार जनरल स्टक्चरल परपस	2062		-	2006
24.	3737874	24-06-2011	मैसर्स डयूक प्लास्टो प्रा. लिमिटेड, एन एच 14, डीसा हाइवे, होटल ग्रीनवुड के सामने, बदरपुरा, पालनपुर (उत्तर गुजरात) बनसकांटा-385511	यू पी वी सी पाईपस फार सायल तथा वेस्ट डिस्चार्ज सिस्टम इनसाईड बिल्डिंग इनकलूडिंग वेंटिलेशन तथा रेनवाटर सिस्टम	13592		-	1992
25.	3738775	29-06-2011	मैसर्स निकी पम्प, क्र. संख्या 327/27. एफ पी 78, विजय एस्टेट, पार्ट 2, आदिनाथ एस्टेट के सामने, नरोडा रोड, अहमदाबाद	सबमर्सिबल पम्पसैट्स	8034		-	2002
26.	3739272	29-06-2011	मैसर्स ओम इंडस्ट्रीज, प्लॉट नंबर सी1/7, जी आई डी सी एस्टेट, गणेशपुरा, मोडासा, साबरकांटा-383315	सबमर्सिबल पम्पसैट्स	8034		-	2002
27.	3738674	30-06-2011	मैसर्स ओम्कार बिबरेज, 136/2, घेनपुर रेलवे स्टेशन, घेनपुरा, अहमदाबाद-382480	पैकेंजबंद पेयजल (अदर दैन पैकेंजड नेचुरल मिनरल वाटर)	14543		-	2004

[सं. सीएमडी/13 : 11]

टी. बी. नारायणन, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख

New Delhi, the 24th April, 2012

S.O. 1614.—In pursuance of sub-regulation (5) of the regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given in the following schedule :—

SCHEDULE

Sl. No.	Licences No.	Grant Date	Name and Address of the Party	Title of the Standard	IS No.	Part	Sec.	Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	3730254	01-06-2011	M/s. H.P. Beverages Survey no. 450, B/H. Gurudwara, Near Western Parks, G. Highway Road Bodakdev, Ahmadabad- 380054	Packaged drinking Water (Other than Packaged natural mineral water)	14543	-	-	2004
2.	3730557	01-06-2011	M/s. Reckon Pharmachem Pvt. Ltd, 301, Paradise Complex, Sayajigung, Vadodara-39005	Ascorbic acid, food grade	5342	-	-	1996
3.	3730961	03-06-2011	M/s. K.N. Jewellers 4, 8/681 Ramraj Sadan, Kumbharwad, Navsari-396445	Gold and gold alloys, jewellery/artefacts	1417	-	-	1999
4.	3732056	03-06-2011	M/s. Jain Food and Beverages, Plot No. 98, Viswakarmannagar Shamlaji Road Ganeshpur Sabarkantha Modasa-383315	Packaged drinking Water (other than Packaged natural mineral water)	14543	-	-	2004
5.	3734969	03-06-2011	M/s. Vimal Crop Care Pvt. Ltd. 98, Limbadia Village N H No. 8 Near Ranasan Power House Gandhinagar Gujarat- 382330	Imidacloprid sl -	15335	-	-	2003
6.	3732157	07-06-2011	M/s. Shree Mahakali Jewellers G/3, Priyaprem Complex, Gadkari Marg, Near Central Bank, Navsari, Gujarat -396445	Gold and gold alloys, jewellery/artefacts, fineness and marking	1417	-	-	1999
7.	3733361	07-06-2011	M/s. Blue water B/1/2, Gopal Nagar, Nanita Cross Road, at ten, Taluka Bardoli, Surat-394601	Packaged drinking water (other than packaged natural mineral water)	14543	-	-	2004
8.	3731660	07-06-2011	M/s. Khushboo Pvt. Ltd. 143-A, Dhanot Village, Chhatral Kadi Road, Tal Kalol, Distt. Gandhinagar -382729	Wooden flush door shutters (solid core type): part I plywood face panels	2202	1	-	-
9.	3731761	07-06-2011	Khushboo Plywoods Pvt. Ltd. 143-A, Dhanot Village, Chhatral Kadi Road, Tal Kalol, Distt. Gandhinagar -382729	Block boards	1659	-	-	2004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.	3731862	07-06-2011	Nand Ply & Board Pvt. Ltd., 34, Zak industrial area, Village Zak. vahelal Road, PO. Pardhol Tal Dahegam Ahmedabad- Zak-382325	Block boards	1659	-	-	2004
11.	3734868	16-06-2011	Sarathi Agro Chem 1306/5, Phase 4, G. I. D. C. Naroda, Ahmedabad- 382330	Pesticides- pendimethalin ec -	12751	-	-	1989
12.	3737066	22-06-2011	M/s. Tide Industries, Plot No. 231, Pratappura, Halol-39 1750, Panchamahar	Shoe polish, paste	1746	-	-	1992
13.	3737167	23-06-2011	Juggernaut Auto Industries, Plot No. 1618, GIDC Sarigam, Dist. Valsad-396155	Automotive vehicles- tubes for pneumatic tyres	13098	-	-	1991
14.	3736266	23-06-2011	M/s. Chemet wets & Flows, Plot No. 129/C/2, G IDC Ahmedabad Bharuch Ankleshwar-393002	Lambda-cyhalothrin wp -	14510	-	-	1997
15.	3736367	23-06-2011	Ganpati Wood Ply Industries, Plot No. 7, Survey No. 276, Village Dharmapura (Naika), TA & Dist. Kheda-387560	Wooden flush door shutters (solid core type) : Part 1 plywood face panels	2202	1	-	1999
16.	3736468	23-06-2011	Perfect Ply Pvt. Ltd., AT : Pariyej, Tal: Matar, Kheda- 388180	Plywood for general purposes	303	-	-	1989
17.	3736569	23-06-2011	Perfect Ply Pvt. Ltd., AT : Pariyej, Tal: Matar, Kheda- 388180	Block boards	1659	-	-	2004
18.	3736771	23-06-2011	Ambe Beverages, Sr. No. 483/P, Sedha Road, Near G.I.D.C. Village Chanasma, Patan Chanasma-384220	Packaged drinking water (other than packaged natural mineral water)	14543	-	-	2004
19.	3736872	23-06-2011	M/s. Star Jewellery, 101, Pramukh Chambers, Opp. L.I.C. Quarters, Timaliyawad, Nanpura, Surat.	Gold and gold alloys, jewellery/artefacts - fineness and marking-	1417	-	-	1999
20.	3736973	23-06-2011	M/s. Shubh Jewellers, E-108, Jasudnagar, Society, I. O.C. Road, Near Snehplaza Comp, Chandkheda Ahmedabad- 382424	Gold and gold alloys, jewellery/artefacts - fineness and marking-	1417	-	-	1999

21.	3737470	24-06-2011	Gujarat Containers 24-6-2011 Ltd., Plot No. 488, Baroda- Savli Highway, Village Tundav, Taluka Savli, Dist. Baroda	Drums, large, fixed ends, part 2 grade	1783	2	-	1988
22.	3737571	24-06-2011	Nimbus Beverages Pvt. Ltd., Plot No. 507 & 508, Phase 1, GIDC Chhatral tal Kalol, Dist. Gandhinagar-382729	Packaged drinking water (other than packaged natural mineral water)	14543	-	-	2004
23.	3737672	24-06-2011	M/s. Neesa Infrastructure Limited, Plot No. 278/279 Panchratna Indl Estate Opp. Armec Cold Storage Ahmedabad, Changodar-382213	Carbon Steel cast billet ingots, billets, blooms and slabs for re-rolling into steel for general structural purposes	2830	-	-	1992
24.	3737773	24-06-2011	M/s. Neesa Infrastructure Limited, Plot No. 278/279, Panchratna Indl. Estate, Opp. Armec Cold Storage, Ahmedabad, Changodar-382213	Steel for general structural purposes	2062	-	-	2006
25.	3737874	24-06-2011	Duke Plasto Technique Pvt. Ltd., N.H. 14, Deesa Highway, Opp. Hotel Green wood, Badarpura, Palanpur (N. Gujarat) banas kantha 385511	UPVC pipes for soil and waste discharge systems inside buildings including ventilation and rainwater system	13592	-	-	1992
26.	3738775	29-06-2011	M/s. Niki Pump, S. No. 327/27, F.P. 78, Vijay Estate, Part 2, Opp Adinath Estate, Naroda Road, Ahmedabad-	Submersible Pumpsets	8034	-	-	2002
27.	3739272	29-06-2011	M/s. Om Industries, Plot No. C1/7, GIDC Estate, Ganeshpura, Modasa, Sabarkantha-383315	Submersible Pumpsets	8034	-	-	2002
28.	3738674	30-06-2011	M/s. Omkar Beverages, 136/2, Chenpur Railway Station, Chenpur, Ahmedabad-382480	Packaged drinking water (other than packaged natural mineral water)	14543	-	-	2004

[No. CMD/13:11]

T. B. NARAYANAN, Scientist F & Head

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2012

का.आ.1615.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम 1988 के विनियम 5 के उप-विनियम (6) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि निम्न विवरण वाले लाइसेंसों को उनके आगे दर्शायी गई तारीख से रद्द-स्थगित कर दिया गया है :—

अनुसूची

क्र. सं.	लाइसेंस संख्या	लाइसेंसधारी का नाम व पता	लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तु/प्रक्रम सम्बद्ध भारतीय मानक का शीर्षक	रद्द करने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	7783703	मैसर्स चोकसी बालमुकंद जमनादास तथा ब्रदर्स, 2365/66 रानीना हाजिरा के पास, मानेक चौक, अहमदाबाद-380001	स्वर्ण तथा स्वर्ण धातुओं के आभूषणों शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417: 1999	09-06-2011
2.	7772088	मैसर्स जयेशकुमार बाबलदास चोकसी, जी 25-26, शेठ संकाभाई मार्केट स्टेशन रोड, डि मेहसाना-384001	स्वर्ण तथा स्वर्ण धातुओं के आभूषणों शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417: 1999	20-06-2011
3.	7792195	मैसर्स श्री धनुषधारी मा बिबरेज, डी/65/5/B, डायमंड पार्क, जो आई डी सी, नरोडा, अहमदाबाद-382330	पैकेजबंद पेयजल (अदर दैन पैकेजड नेचुरल मिनरल वाटर) आई एस 14543: 2004	23-6-2011
4.	7176779	मैसर्स शक्ति पोलिप्लास्ट इंडिया प्रा.लि., 166, पैकी रेलवे क्रासिंग के पास, कुकरवाडा, ता. विजापुर, डि. मेहसाना-382830	यू पी वी सी पाईप फार पोटैबल वाटर सप्लाइस आई एस 4985 : 2000	24-06-2011
5.	7560780	मैसर्स पी एस एल लिमिटेड, सर्वे नंबर 124, आश्रम चावडी, महुडी रोड की तरफ, गाँव खादत, ता. मानसा, डि. गांधीनगर-382855	स्टील पाइप फार वाटर तथा सिवेज आई एस 3589 : 2001	24-06-2011
6.	7386891	मैसर्स सतनामा सेल्स कार्पोरेशन, प्लॉट नंबर 1,2,3 केवलकृपा सोसाइटी, किनरी सिनेमा के सामने, उमिया टैंपल रोड, भाथेना 3 के पीछे, अंजना, सूरत-395002	पैकेजबंद पेयजल (अदर दैन पैकेजड नेचुरल मिनरल वाटर) आई एस 14543 : 2004	27-06-2011

[सं. सी एम डी/13:13]

टी. बी. नारायणन, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख

New Delhi, the 24th April, 2012

S.O.1615.—In pursuance of sub-regulation (6) of the regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that the licences particulars of which are given below have been cancelled/suspended with effect from the date indicated against each.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. CM/L	Name and Address of the Licensee	Article/Process with relevant Indian Standards covered by the licence cancelled	Date of Cancellation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	7783703	M/s.Choksi Balmukund Jamnadas & Brothers, 2365/66 Near Ranina Hajira Manekchowk, Ahmedabad-380001	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts-Fineness and Marking IS 1417 : 1999	09-06-2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	7772088	M/s. Jayeshkumar babaldas Choksi, G 25-26, Sheth Sankabhai market Station Road, Distt. Mahesana-384001	Gold and gold alloys, Jewellery/Artefacts-Fineness and Marking IS 1417 : 1999	20-06-2011
3.	7792195	M/s. Shree Dhanushdhari Maa Beverages, D/65/5/B, Diamond Park, GIDC, Naroda, Ahmedabad-382330	Packaged drinking water (other than packaged natural mineral water)- IS 14543 : 2004	23-06-2011
4.	7176779	M/s. Shakti Polyplast India Private Limited, 166, Paiki Near Railway Crossing, Kukarwada, Taluka Vijapur, Distt. Mehasana, Kukarwada-382830	Unplasticized PVC pipes for potable water supplies IS 4985 : 2000	24-06-2011
5.	7560780	M/s. PSL Limited, Survey No. 124, Ashram Chawkd Towards Mahudi Road, Vill : Khandat, Taluka-Mansa, Distt.- Gandhinagar, -382855	Steel pipes for water and sewage (168.3 to 2 540 mm outside diameter) - IS 3589 : 2001	24-06-2011
6.	7386891	M/s. Satnam Sales Corporation, Plot No. 1, 2, 3, Kevalkrupa Society Opp. Kinnery Cinema Umiya Temple Road, B/H Bhathena-3, Anjana Surat- 395002	Packaged drinking water (other than packaged natural mineral water)- IS 14543 : 2004	27-06-2011

[No. CMD/13:13]

T. B. NARAYANAN, Scientist 'F' & Head

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2012

का.आ. 1616.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे रद्द कर दिए गए हैं और वापस ले लिये गए हैं :—

अनुसूची

क्र. सं.	रद्द भारतीय मानक (कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्या और तिथि	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
I	आई एस 1979 : 1985 उच्च -परीक्षण लाइन पाइप -विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण)	-	

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : एमटीडी 19/टी-8]

पी. घोष, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (एमटीडी)

New Delhi, the 25th April, 2012

S.O. 1616.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which is mentioned in the Schedule given hereafter, have been cancelled and stand withdrawn :

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standards withdrawn	S.O. No. & date of published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 1979: 1985 Specification for High-test Line Pipe (second revision)	-	-

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 and Regional Offices: New Delhi, Kalkatta, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref.: MTD 19/T-8]

P. GHOSH, Scientist 'F' & Head (MTD)

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2012

का.अ. 1617.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिनस भारतीय मानको का विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है वह वे स्थापित हो गया :

अनुसूची

क्र. सं.	स्थापित भारतीय मानक (कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस 13925 (भाग 1) : 2012 1000 वॉट से अधिक वोल्टता रेटित धारक पॉवर ए सी सिस्टम हेतु शंट संधारित्र भाग I सामान्य (पहला पुनरीक्षण)	-	25-04-2012

इस भारतीय मानक की एक प्रति भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

[संदर्भ : ईटी 29/टी 13]

आर. के. त्रेहन, वैज्ञानिक 'ई' एवं प्रमुख (विद्युत तकनीकी)

New Delhi, the 25th April, 2012

S.O. 1617.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards to the Indian Standards, particulars of which is given in the Schedule hereto annexed has been issued :—

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standards	No. & Year of the Indian Standards, if any, superseded by the New Indian Standard	Date of Establishment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 13925 (Part 1): 2012 Shunt capacitors for ac power Systems having a rated Voltage above 1 000 V, Part 1 General (First revision)	-	25-04-2012

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah

Zafar Marg, New Delhi-110 002 and Regional Offices: New Delhi, Kalkatta, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref: ET 29/I-13]

R. K. TREHAN, Scientist - 'E' & Head (Electrotechnical)

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2012

का.आ. 1618.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के संशोधन के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :—

अनुसूची

क्र. सं.	संशोधित भारतीय मानक की संख्या, वर्ष और शीर्षक	संशोधन संख्या और वर्ष	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस 1578 : 1989 तंबाकू और तंबाकू उत्पाद-धूम्रपान मिश्रण -विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 2 वर्ष 2012	30 अप्रैल, 2012
2.	आई एस 2111 : 1973 स्नफ की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 2 वर्ष 2012	30 अप्रैल, 2012
3.	आई एस 4463 : 1973 हुक्का तंबाकू, निर्मित की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 2 वर्ष 2012	30 अप्रैल, 2012
4.	आई एस 9978 : 1991 तेन्दू पत्ता - विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1 वर्ष 2012	30 अप्रैल, 2012
5.	आई एस 14647 : 1999 तंबाकू और तंबाकू उत्पाद-किंवाम - विशिष्टि	संशोधन संख्या 2 वर्ष 2012	30 अप्रैल, 2012

इन संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर साहब जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, कानपुर, कोयंबटूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : एफएडी/जी-128]

डा. आर. के. बजाज, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (खाद्य एवं कृषि)

New Delhi, the 26th April, 2012

S.O. 1618.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rules 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :—

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standards	No. & Year of the Amendment	Date of which the Amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 1578 : 1989 Tobacco and tobacco products—Smoking mixtures—Specification (second revision)	Amendment No. 2 Year, 2012	30 April, 2012

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	IS 2111 : 1973 Specification for snuff (first revision)	Amendment No. 2 Year, 2012	30 April, 2012
3.	IS 4463 : 1973 Specification for hookah tobacco, manufactured (first revision)	Amendment No. 2 Year, 2012	30 April, 2012
4.	IS 9978 : 1991 Tendu leaf Specification (first revision)	Amendment No. 1 Year, 2012	30 April, 2012
5.	IS 14647 : 1999 Tobacco and tobacco products—Quiwwam—Specification	Amendment No. 2 Year, 2012	30 April, 2012

Copy of this Standard is available with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 and Regional Offices: New Delhi, Kalcatta, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref.: FAD/G : 128]

Dr. R. K. BAJAJ, Scientist 'F' & Head (Food and Agri.)

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2012

का.आ. 1619.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के संशोधन के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :—

अनुसूची

क्र. सं.	संशोधित भारतीय मानक(कों) की संख्या, वर्ष और शीर्षक	नए भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस 949 : 2012 आपातकाल में बचाव के लिए प्रयोग होने वाले टेंडर कार्यात्मक अपेक्षाएं (तीसरा पुनरीक्षण)	आई एस 949 : 1985	31 मार्च, 2012

इस भारतीय मानक की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुंबई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयंबटूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : सीईडी/राजपत्र]

ए. के. सैनी, वैज्ञानिक-'जी' एवं प्रमुख (सिविल इंजीनियरी)

New Delhi, the 26th April, 2012

S.O. 1619.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rules 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :—

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standards Established	No. & Year of Indian Standards, if any, Superseded by the New Indian Standard	Date of Established
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 949: 2012 Emergency (rescue) tender-Functional requirements (Third revision)	IS 949 : 1985	31 March, 2012

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubanswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref.: CED/Gazette]

A. K. SAINI, Scientist 'G' & Head (Civil Engg.)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2012

का.आ. 1620.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :-

अनुसूची

क्र. सं.	स्थापित भारतीय मानक(कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	नए भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस 15953 : 2011 पावन तंत्र अनुप्रयोगों के लिए पर्यवेक्षक नियंत्रण और आंकड़ा अर्जन (स्काडा) प्रणाली	-	अक्टूबर, 2011
2.	आई एस 7354 (भाग 3) : 2011 इलेक्ट्रॉनिकी एवं विद्युतीय मदों की विश्वसनीयता हेतु मार्गदर्शिका भाग 3 इलेक्ट्रॉनिकी अवयवों के विश्वसनीयता संबंधी आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं विशिष्टिकरण (दूसरा पुनरीक्षण)	आई एस 7354 (भाग 3) : 1984 इलेक्ट्रॉनिकी एवं विद्युतीय मदों की विश्वसनीयता हेतु मार्गदर्शिका भाग 3 इलेक्ट्रॉनिकी एवं विद्युतीय अवयवों के (या भाग) विश्वसनीयता संबंधी आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं विशिष्टिकरण	नवम्बर, 2011
3.	आई एस/आई ई सी 61196-1- : 2005 समाक्ष संचार केबल भाग 1 जेनेरिक विशिष्ट-सामान्य, परिभाषा और आवश्यकताएं	-	नवम्बर, 2011
4.	आई एस/आई ई सी 61196-1-102-2005 समाक्ष संचार केबल भाग 1-102 इलेक्ट्रिकल परीक्षण विधि उष्मारोधन प्रतिरोध परावैद्युत केबल के लिए परीक्षण	-	नवम्बर, 2011
5.	आई एस/आई एस ओ/आई ई सी 9796-2 : 2002 सूचना प्रौद्योगिकी-सुरक्षा तकनीक-संदेश देने वाली डिजिटल हस्ताक्षर योजना भाग 2 अखंड घटक आधारित यंत्रावली	-	अप्रैल, 2010
6.	आई एस 15866 (भाग 1) : 2110/आई ई सी 60938-1 : 2006 विद्युतचुम्बकीय व्यतिकरण दमन के लिए जड़ित प्रेरक भाग 1 वर्गीय विशिष्ट	-	अप्रैल, 2010
7.	आई एस 15954 : 2012 एमपेग-4 डी टी एच सेवाओं के लिए डिजिटल सैट टॉप बॉक्स-विशिष्ट	-	अप्रैल, 2012

इस भारतीय मानक की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : एलआईटीसी/बी-75]

नरेन्द्र सिंह, प्रमुख (इलेक्ट्रॉनिकी एवं आई टी)

New Delhi, the 30th April, 2012

S.O. 1620.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :—

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standards Established	No. & Year of the Indian Standards, if any, Superseded by the New Indian Standard	Date of Established
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 15953 : 2011 Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) System for Power System applications	-	October, 2011
2.	IS 7354 (Part 3) : 2011 Guide on Reliability of Electronic and Electrical Items Part 3 Presentation and Specification of Reliability Data for Electronic Components (Second Revision)	IS 7354 (Part 3) : 1984 Guide on Reliability of Electronic and Electrical Items Part 3 Presentation of Reliability Data on Electronic and Electrical Components (or parts) (First Revision)	November, 2011
3.	IS 61196-1 : 2005 Coaxial communication Cables—Part 1 : Generic Specification-General, Definitions and Requirements	-	November, 2011
4.	IS 61196-1-102 : 2005 Coaxial Communication Cables—Part 1-102: Electrical Test Methods—Test For Insulation Resistance of Cable Dielectric	-	November, 2011
5.	IS/ISO/IEC 9796-2 : 2002 Information Technology—Security techniques-Digital signature schemes giving message recovery Part 2 : Integer factorization based mechanisms.	-	April, 2010
6.	IS 15866 (Part 1) : 2010/IEC 60938-1 : 2006 Fixed inductors for electromagnetic interference suppression Part 1 : Generic specification	-	April, 2010

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	IS 15954 : 2012 Digital Set Top Box for MPEG-4 DTH Services-Specification		April, 2012

Copies of these Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref: LIND/G-75]

NARENDRA SINGH, Head (Electronics & IT)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2012

का.आ. 1621.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिए गए मानक(कों) में संशोधन किया गया/किए गए हैं :—

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	संशोधन की तिथि और संख्या	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आई एस 783 : 1985	3, अप्रैल, 2012	30-4-2012

इन संशोधन की प्रति भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : सीईडो/राजपत्र]

ए. के. सैनी, वैज्ञानिक 'जी' एवं प्रमुख (सिविल इंजीनियरी)

New Delhi, the 30th April, 2012

S.O. 1621.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the amendment to the Indian Standards particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued :—

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standards	No. and Year of the Amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 783 : 1985	3 April, 2012	30-04-2012

Copy of this amendment is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref.: CED/Gazette]

A. K. SAINI, Scientist 'G' & Head (Civil Engg.)

नई दिल्ली, 3 मई, 2012

का.आ. 1622.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 4 के उप-विनियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं :—

अनुसूची

क्रम सं.	लाइसेंस संख्या	स्वीकृति करने की तिथि/वर्ष/माह	लाइसेंसधारी का नाम एवं पता	भारतीय मानक का शीर्षक	भा मा सं./ भाग/खण्ड/ वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	3821762	04-04-2012	मै. वी इन्टरप्राइजेज, पॉपुलर मेटल रोलिंग इण्ड. कंपाउण्ड, टैंक रोड, सौभाग्य अस्पताल के सामने भाण्डुप पश्चिम, मुंबई-400 078	बिजली के घरेलू खाद्य मिक्सर (द्रवीपरक और ग्राइन्डर)	भा मा 4250 : 1980
2.	3822259	10-4-2012	मै. गोल्ड ऑयल कार्पोरेशन (सिलवासा) प्लॉट सं 5, सर्वे सं. 207/5 विलेज उमरकोल, दादरा एवं नगर हवेली सिलवासा-396230	नए विद्युत रोधन तेल	भा मा 335 : 1993
3.	3822865	10-01-2012	मै. साई इलेक्ट्रीकल्स, चॉल सं. 104/829, मोतीलाल नगर सं. 1, गोरेगांव-पश्चिम, मुम्बई-401104 महाराष्ट्र	घरेलू और समान प्रयोजनों के लिए स्विचे	भा मा 3854 : 1997

[सं. क. प्र. वि./13:11]

एस. बी. रॉय, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (एम डी एम-III)

New Delhi, the 3rd May, 2012

S.O.1622.—In pursuance of sub-regulation (5) of Regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given below in the following schedule :—

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No.	Grant Date	Name and Address (factory) of the Party	Product	IS No./ Part/ Sec./Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	3821762	04-04-2012	M/s. V. Enterprises Popular Metal Rolling Inds. Compound, Tank Road, Opp. Saubhayga Hospital Bhandup (West) Mumbai-400 078	Domestic electric food-mixers (liquidizes and grinders)	IS 4250: 1980
2.	3822259	10-04-2012	M/s. Gold Oil Corporation (Silvassa) Plot No. 5, Survey No. 207/5, Village Umarkul Dadra and Nagar Haveli Silvassa-396230	New insulating oils	IS 335: 1993
3.	3822865	16-4-2012	M/s. Sai Electricals Chawl No. 104/829, Motilal Nagar No. 1, Goregaon (West) Mumbai-401104 Maharashtra	Switches for domestic and similar purposes	IS 3854: 1997

[No. CMD/13:11]

S. B. ROY, Scientist 'F' & Head (MDM-III)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 मई, 2012

का.आ.1623.—भारत सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1384 तारीख 16 मई, 2011 द्वारा, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, मैसर्स रिलाएंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के आन्ध्र प्रदेश में पूर्वी तट पर ऑनशोर टर्मिनल से देश के विभिन्न हिस्सों में उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए, मैसर्स रिलोजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा काकोनाडा-वासुदेवपुर-हावडा ट्रंक गैस पाइपलाइन की टैप ऑफ फिशिलिट्टी, जो आन्ध्र प्रदेश में विशाखपट्टनम जिले के जंगलूरु बेल्लपालेम गाँव में स्थित हैं, से एक स्पर पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 24 अगस्त, 2011 को अथवा उससे पूर्व उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पाइपलाइन बिछाने के सम्बन्ध में, जनता की ओर से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और अनुज्ञात कर दिया गया;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और, भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः, अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विवर्तनों से मुक्त, मैसर्स रिलोजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

मंडल/तहसील/ तालुक : परवाडा	जिला : विशाखापट्टनम	राज्य : आन्ध्र प्रदेश		
गाँव का नाम	सर्वे सं/सब डिविजन सं.	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल हेक्टेयर एयर सि. एयर		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. पायकाराबोनांगी	443	00	01	14
	445/9	00	02	37
	445/7	00	05	62
	445/1	00	00	10
	445/6	00	03	89
	445/5	00	00	17
	445/2	00	03	10
	445/3	00	03	81
	445/4	00	04	87
	447	00	00	85
	446/1	00	05	12
	448/2	00	02	26
	448/4	00	01	28
	448/3	00	02	33
	448/5	00	00	24
	448/6	00	02	79
	448/7	00	02	34
	448/8	00	00	82
	448/20	00	13	47
	449/3	00	00	43
	448/19	00	01	47
	448/18	00	00	93
	448/17	00	01	05
	449/2	00	01	15
	449/6	00	01	14
	449/1	00	02	64
	450/1	00	06	54
	438/20	00	04	43
	438/21	00	06	19
	451/1	00	05	14
	451/2	00	06	54

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. पायकाराबबोनांगी (निरंतर)	437/15	00	02	32	1. पायकाराबबोनांगी (निरंतर)	499/15	00	00	96
	437/16	00	05	60		497/20	00	00	36
	454	00	00	48		499/10	00	02	67
	455	00	09	40		499/1	00	01	47
	474/1	00	00	10		499/2	00	01	20
	474/6	00	00	10		499/3	00	01	21
	473/22	00	00	75		499/4	00	04	29
	473/13	00	03	77		499/11	00	00	10
	473/14	00	03	48		497/22	00	00	25
	473/12	00	01	76		499/5	00	02	94
	473/15	00	00	18		500/9	00	01	39
	473/16	00	00	14		500/8	00	01	87
	473/17	00	00	10		500/10	00	01	07
	473/18	00	06	71		500/12	00	05	20
	473/20	00	07	73		501	00	12	17
	473/21	00	00	17		502/9	00	00	48
	482	00	07	93		502/8	00	03	20
	483/6	00	01	89		502/5	00	05	38
	483/19	00	10	32		502/6	00	00	10
	483/18	00	00	26		502/4	00	04	78
	483/10	00	00	17		502/3	00	04	58
	483/16	00	02	39		502/2	00	05	17
	483/11	00	00	89		502/1	00	03	32
	483/15	00	01	16		503/7	00	02	46
	483/12	00	06	36		503/8	00	00	12
	483/17	00	00	10		503/6	00	11	25
	486/1	00	01	62		503/4	00	02	00
	486/4	00	00	88		503/3	00	01	44
	486/5	00	00	44		503/2	00	08	73
	487/10	00	02	37		503/11	00	00	10
	487/11	00	01	03		504/2	00	03	47
	487/12	00	01	18		518	00	05	69
	487/13	00	01	46		504/4	00	01	81
	498/1	00	04	73		504/6	00	03	45
	498/2	00	03	37		504/5	00	04	18
	497/17	00	01	32		511/13	00	03	93
	498/4	00	05	69		511/7	00	00	16
	498/3	00	04	07		511/9	00	07	49
	498/5	00	00	10					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. पायकाराबोनांगी (निरंतर)	511/11	00	01	01
	511/10	00	05	63
	511/8	00	04	76
	510/22	00	00	10
	510/23	00	01	86
	510/25	00	08	48
	510/24	00	06	96
	512	00	10	17
	514/2	00	00	20
	514/1	00	01	55
	513	00	00	16

[फा. सं. एल-14014/29/2011-जी.पी.]

ए. गोस्वामी, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 1st May, 2012

S.O. 1623.—Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 1384 dated 16th May, 2011, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying a spur pipeline from the tap-off facility of Kakinada-Basudebpur-Howrah trunk gas pipeline at Janguluru Velampalem village in Visakhapatnam District of the State of Andhra Pradesh for transportation of natural gas from onshore terminal at East coast of Andhra Pradesh of M/s. Reliance Industries Limited by M/s. Relogistics Infrastructure Limited to the consumers in various parts of the country;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on or before 24th August, 2011;

And whereas, the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government of India;

And whereas, Government of India, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land, specified in the Schedule, appended to this notification, is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest on the date of publication of the declaration, in M/s. Relogistics Infrastructure Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Mandal/Tehsi/ Taluka : Paravada	District : Vishakapatnam	State : Andhra Pradesh		
Village	Survey No./ Sub-Division No.	Area to be acquired for RoU		
		Hec	Are	C-Are
1	2	3	4	5
(1) Payakarao Bonangi	443	00	01	14
	445/9	00	02	37
	445/7	00	05	62
	445/1	00	00	10
	445/6	00	03	89
	445/5	00	00	17
	445/2	00	03	10
	445/3	00	03	81
	445/4	00	04	87
	447	00	00	85
	446/1	00	05	12
	448/2	00	02	26
	448/4	00	01	28
	448/3	00	02	33
	448/5	00	00	24
	448/6	00	02	79
	448/7	00	02	34
	448/8	00	00	82
	448/20	00	13	47
	449/3	00	00	43
	448/19	00	01	47
	448/18	00	00	93
	448/17	00	01	05

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1) Payakarao Bonangi (Contd.)	449/2	00	01	15	(1) Payakarao Bonangi (Contd.)	487/11	00	01	03
	449/6	00	01	14		487/12	00	01	18
	449/1	00	02	64		487/13	00	01	46
	450/1	00	06	54		498/1	00	04	73
	438/20	00	04	43		498/2	00	03	37
	438/21	00	06	19		497/17	00	01	32
	451/1	00	05	14		498/4	00	05	69
	451/2	00	06	54		498/3	00	04	07
	437/15	00	02	32		498/5	00	00	10
	437/16	00	05	60		499/15	00	00	96
	454	00	00	48		497/20	00	00	36
	455	00	09	40		499/10	00	02	67
	474/1	00	00	10		499/1	00	01	47
	474/6	00	00	10		499/2	00	01	20
	473/22	00	00	75		499/3	00	01	21
	473/13	00	03	77		499/4	00	04	29
	473/14	00	03	48		499/11	00	00	10
	473/12	00	01	76		497/22	00	00	25
	473/15	00	00	18		499/5	00	02	94
	473/16	00	00	14		500/9	00	01	39
	473/17	00	00	10		500/8	00	01	87
	473/18	00	06	71		500/10	00	01	07
	473/20	00	07	73		500/12	00	05	20
	473/21	00	00	17		501	00	12	17
	482	00	07	93		502/9	00	00	48
	483/6	00	01	89		502/8	00	03	20
	483/19	00	10	32		502/5	00	05	38
	483/18	00	00	26		502/6	00	00	10
	483/10	00	00	17		502/4	00	04	78
	483/16	00	02	39		502/3	00	04	58
	483/11	00	00	89		502/2	00	05	17
	483/15	00	01	16		502/1	00	03	32
	483/12	00	06	36		503/7	00	02	46
	483/17	00	00	10		503/8	00	00	12
	486/1	00	01	62		503/6	00	11	25
	486/4	00	00	88		503/4	00	02	00
	486/5	00	00	44		503/3	00	01	44
	487/10	00	02	37		503/2	00	08	73

1	2	3	4	5
(1) Payakarao Bonangi	503/11	00	00	10
(Contd.)	504/2	00	03	47
	518	00	05	69
	504/4	00	01	81
	504/6	00	03	45
	504/5	00	04	18
	511/13	00	03	93
	511/7	00	00	16
	511/9	00	07	49
	511/11	00	01	01
	511/10	00	05	63
	511/8	00	04	76
	510/22	00	00	10
	510/23	00	01	86
	510/25	00	08	48
	510/24	00	06	96
	512	00	10	17
	514/2	00	00	20
	514/1	00	01	55
	513	00	00	16

[F. No. L-14014/29/2011-GP.]
A. GOSWAMI, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 मई, 2012

का.आ.1624.—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के नियम 2-(क) के अन्तर्गत, मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) के द्वारा केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का यनम क्षेत्र में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की, भारत के राजपत्र दिनांक 26 जुलाई, 2008 को प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 1993 दिनांक 24 जुलाई, 2008 द्वारा पदस्थापित, मै. के. गंगाचलम, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियमावली, 1963 के नियम 4 के उप-नियम (1) के नीचे दी गई व्याख्या (1) के अन्तर्गत अधिकारों के अनुपालन में, मैसर्स आर.आई.एल., जिसमें यथास्थित, उप क्षेत्र में भूमि में उपयोग का अधिकार निहित किया गया है और उस क्षेत्र में पाइपलाइन का स्वामित्व निहित है, के परामर्श से, संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 4 में पुडुचेरी केन्द्र शासित प्रदेश के यनम क्षेत्र में यथा उल्लेखित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाए जाने के प्रचालन की समाप्ति की तारीखों की घोषणा करता हूँ।

अनुसूची

क्षेत्र : यनम		क्षेत्र : यनम	केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी
क्र.	ग्राम का नाम	धारा 6(1) की का.आ. संख्या एवं दिनांक	प्रचालन की समाप्ति की तारीख
1	2	3	4
1	अडविपोलम	807 दिनांक 31-3-2009	25-4-2009

[पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 17 के अन्तर्गत संघित पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम 4 के अन्तर्गत भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशनार्थ।]

[फा. सं. एल-14014/28/2012-जी.पी.]

ए. गोस्वामी, अवर सचिव

New Delhi, the 8th May, 2012

S.O. 1624.—In pursuance of powers conferred by Explanation 1 in sub-rule (1) of Rule 4 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, I, K. Gangachalam, appointed by Government of India, Ministry of Petroleum & Natural Gas vide Notification S.O. 1993 dated 24th July, 2008 (published in the Gazette of India on 26th July, 2008) under Section 2(a) of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) to perform the functions of Competent Authority for laying natural gas pipelines by M/s Reliance Industries Limited (RIL) in the Yanam region of Union Territory of Puducherry, in consultation with M/s RIL, to whom the Right of User in the land in that area has been vested and in whom the ownership of the pipeline in that area vests, hereby declare the dates, mentioned in Column 4 of the Schedule annexed herewith, as the dates of termination of RoU operation in Region Yanam in the Union Territory of Puducherry.

SCHEDULE

Region Yanam		Region Yanam	Union Territory of Puducherry
Sl. No.	Village	S.O. No. and Date of Notification under sub-section (1) of Section 6	Date of Termination of Operation
1	2	3	4
1.	Adavipolam	807 Date 31-3-2009	25-4-2009

[To be published under Rule 4 of the P&MP (ARUL) Rules, 1963, framed under Section 17 of P&MP (ARUL) Act, 1962 in official Gazette of India.]

[F. No. L-14014/28/2012-G.P.]
A. GOSWAMI, Under Secy.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2012

का.आ. 1625.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-I, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 287/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-2-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12011/172/1991-आई आर (बी-II)]

शीश राम, अनुभाग अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 1st March, 2012

S.O. 1625.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 287/2011) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-I, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank of Baroda and their workman, which was received by the Central Government on 15-2-2012.

[No. L-12011/172/1991-IR (B-II)]

SHEESH RAM, Section Officer

ANNEXURE

**BEFORE DR. R. K. YADAV, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL No. 1, DELHI**

L.D. No. 287/2011

The General Secretary,
Uttar Pradesh Bank of Baroda,
Employees Union (WZ),
Bank of Baroda, 188, ABU Lane,
Meerut (U.P.)

... Claimant

Versus

The General Manager,
Bank of Baroda, Zonal Office,
Delhi Road, Meerut (U.P.)

... Management

AWARD

1. Bank of Baroda, in its various branches in Meerut Zone, has employed fifty three sweepers from last several years. The U.P. Bank of Baroda Employees' Union (in short the Union) has been claiming regularization of those part time sweepers. Demand notice dated 18-8-1996 was served on the bank, which remained unheeded. The Union approached the Conciliation Officer, vide its letter dated 26-12-1996. Since conciliation proceedings failed, the appropriate Government referred the dispute to this

Tribunal for adjudication, vide order No. L-12011/172/91/IR (B-II), New Delhi, dated 23rd February, 2000 with following terms of reference :

"Whether the action of the management of Bank of Baroda, Meerut in denial of regularization of the services of fifty three part time sweepers (list enclosed) is just, fair and legal ? If not, what relief the workmen are entitled and from which date ?"

2. Claim statement was failed by the Union, pleading that 53 part time sweepers have been working in the various branches of the bank from last several years. Details of their employments are as follows :

Sl. No.	Name	Branch where working	Date of birth	Date of employment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Shri Surendra Kumar	Nagina	1-7-1965	1-1-85
2.	Shri Suresh Chand	Khamaripal	1-8-1968	4-6-86
3.	Shri Santosh Kumar	Nahil	5-1-67	1-12-87
4.	Ms. Geeta Rani	Asalatpur	12-8-65	1-5-88
5.	Shri Rajendra Prasad	Amria Khas	28-4-62	21-1-89
6.	Shri Mukesh Kumar	Rasewan	20-5-67	1-6-89
7.	Shri Hari Chand	Malika	10-1-69	14-6-89
8.	Shri Maiku Lal	Madnapur	2-2-65	19-6-89
9.	Shri Ram Das	Paraur	1-1-69	19-3-90
10.	Shri Jeet Singh	Hardwar	25-7-71	1-1-90
11.	Shri Kailash	Kabirganj	5-10-72	1-3-91
12.	Shri Anil Kumar	Narkulaganj	1-6-73	1-6-91
13.	Shri Om Pal	Hakikatnagar	8-10-63	1-2-92
14.	Shri Mohan Lal	Suar	10-7-73	4-8-92
15.	Ms. Veena	Rishikesh		1-3-93
16.	Shri Gyan Chand	Rudrapur	1-7-73	1-4-93
17.	Shri Sachin Singh	Bisalpur	1-6-74	10-6-93
18.	Shri Lakhpat	Sidh Nagar	8-3-64	1-4-94
19.	Shri Budh Sen	Nand	4-6-47	31-10-81
20.	Shri Dayal Kishan	Okhal Khanda	25-12-55	1-7-82
21.	Shri Kranti	Sikri Khurd		13-5-88
22.	Shri Ram Swaroop	Sahora	1-4-61	16-5-88
23.	Shri Mulla Ram	Raj Nagar, GZB		7-6-89

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24.	Shri Satya Pal	Berkhera Jaipal	1-1-66	15-7-89
25.	Shri Sukh Pal	Charkhola	11-6-67	24-7-89
26.	Ms. Shiv Rani	Bantara	17-9-62	13-9-89
27.	Shri Ram Swaroop	Madhopur	1-7-49	22-2-90
28.	Ms. Saroj Devi	Budhwana	9-11-67	26-2-90
29.	Shri Shree Pal	Jahanpur	10-5-73	24-3-90
30.	Shri Rajesh	Sudanpur	5-1-76	26-3-90
31.	Shri Jagraj	Bauri		29-3-90
32.	Shri Ram, Saran	Kudaiya	15-10-64	29-3-90
33.	Ms. Santosh Devi	Jaurasi	9-12-65	31-3-90
34.	Shri Satish Kumar	Rahmatganj	5-7-75	1-9-90
35.	Shri Sia Ram	Jarawan	15-6-70	10-10-90
36.	Shri Ram Chandra	Akara Rasool	14-2-68	3-1-91
37.	Shri Hari Saran	Mohanpur	2-4-69	27-3-91
38.	Shri Sudhir Kumar	Kaich	30-5-69	1-4-91
39.	Shri Ram Pal	Majra Sisona	10-1-72	7-9-91
40.	Shri Babu Lal	MVN. Ext. Mussoorie	15-7-54	1-9-92
41.	Ms. Balawati	Balia		1-11-92
42.	Shri Silas Masih	Extn. Cou. Haldwani	12-9-69	9-11-92
43.	Ms. Seema	Akbarpur	4-3-73	1-12-92
44.	Shri Balveer	Golaraiapur	2-7-74	1-4-93
45.	Ms. Rajwati	Nakatiya		17-6-93
46.	Shri Naresh	Tanda	2-3-69	1-8-93
47.	Ms. Guddu	Extn. Coun. Haldwani	7-10-73	21-9-93
48.	Ms. Monni	Kudwal	1-1-64	10-1-94
49.	Shri Pushkar Ram	Vijaypur	3-8-56	1-2-94
50.	Shri Grish Chandra	Patlot	1-1-77	1-4-94
51.	Shri Kishori Singh	Betalghat	2-1-77	1-9-94
52.	Shri Jaman Ram	Kunwarpur		1-11-94
53.	Shri Mukesh Kumar	Ext. Con. V.B. MRT	10-5-78	12-4-94

3. It has been claimed that the aforesaid employees have rendered continuous service right from the date of their employment in respective branches. No other employee or part time sweeper is doing sweeping job in those branches in which they are engaged. No appointment letter was issued in their favour, which act of the bank is in violation of para 495 of the Shastri Award and Bi-partite settlements. Continuous employment of the claimants is proof of existence of vacancies and their engagement against permanent vacancies. The claimants have rendered more than 240 days of continuous service in every calendar year and acquired right of regularization in service.

4. They are not paid in proper scales of wages, to which they are entitled in terms of provisions of Bi-partite settlements. They are workmen, hence entitled to benefits and privileges, as are admissible to permanent part-time employees. Facilities such as scale wages, bonus, provident fund, leave facilities, increments, dress, shoes, washing allowance, gratuity, loan facilities, medical aids are not provided to them. The bank has adopted unfair labour practice, which amounts to violation of their right to equality. In view of the provisions of clause 20.8 of First Bi-partite settlement a temporary employee cannot be kept for more than 3 months periods and bank must make arrangement to fill permanent vacancies. Temporary employees can be employed for contingencies and not otherwise. Weak bargaining power of the claimant led to their exploitation. It has been claimed that the aforesaid part time sweepers are entitled to be regularized in the service of the bank and an award may be passed accordingly.

5. The bank demurs the claim pleading that Shastri Award and Desai Award make provision for employing sweepers and water suppliers on part time basis. In Bi-partite settlement dated 19-10-1966 provisions have been made for payment of wages of part time sweepers in accordance with the period for which they are made to work. Subsequently, criteria of payment of wages to part time sweepers as per floor space area was devised on 25-1-2000. Therefore, the bank asserts that it is expedient to employ water suppliers and sweepers on part time basis in comparatively small branches set-up in rural and semi-urban areas.

6. The union never espoused the claim of the aforesaid fifty three claimants, hence the dispute is not an industrial dispute. None of the claimants was ever a member of the Union, hence reference may be discarded being invalid, claims the bank.

7. The bank projects that Shri Anil Kumar, Ms. Veena, Ms. Saroj Devi, Shri Rajesh, Shri Siyaram, Shri Ram Chander, Shri Babu Lal, Ms. Balawati, Ms. Rajwati, Ms. Moni and Shri Puskar Ram are not employed in the branches, where they are alleged to have been working.

only forty one claimants are working as part time sweeper, who also work elsewhere simultaneously. Accordingly they cannot claim for regularization in service of the bank.

8. It has been agitated that permanent post is distinct from permanent nature of work. The bank may employ a person on permanent nature of work but that fact would not lead to a presumption that he is holder of a permanent post. Holding of a permanent post is dependent on various factors or consideration viz., whether the person has passed through the recruitment process and competed with others or entered through the back door, the availability of permanent post and competence of the authority to appoint persons and so on. Therefore, it does not lie in the mouth of the claimants to agitate that since they are doing permanent nature of work, they are entitled to be regularized. Bank asserts that completion of 240 days of continuous service would entitle an employee to protection and benefits under Section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947, but not with a right to claim permanent status. The claimants are being paid wages according to their entitlement. The bank had not indulged in any unfair labour practice. It has been claimed that the reference is not maintainable, hence claim put forward may be discarded.

9. In the rejoinder, the Union has reiterated its stand taken in the claimant statement.

10. Shri Mukesh Kumar, Shri Surinder Kumar and Shri A.K. Jain only were examined on behalf of the claimants. The bank opted not to produce any evidence, in support of its case.

11. Arguments were heard at the Bar. None came forward on behalf of the claimants to raise submissions on the matter. Shri Sanjeev Gupta, authorised representative, advanced arguments on behalf of the bank. I have given my careful considerations to the argument advanced at the bar and cautiously perused the record. My findings on issues involved in the controversy are as follows.

12. Before I enter into the merits, it would be expedient to recapitulate a few facts, which emerged during the course of adjudication process. Record tells that on 6-1-2009 an application was moved by Shri Y. K. Sharma, Joint Secretary of the Union, detailing therein that claimants, namely, Shri Surendra Kumar, Shri Mukesh Kumar, Shri Maiku Lal, Shri Ram Das, Shri Satya Pal, Shri Sukh Pal and Shri Ram Saran want to withdraw their claim. The application was allowed vide order of the date. Thus, it is evident that the aforesaid seven claimants had settled their dispute with the bank and they do not press for adjudication of their grievances.

13. In the similar manner, another application was moved on 15-4-2009 projecting therein that Shri Mohan

Lal, Shri Naresh Kumar, Shri Satish Kumar, Smt. Seema, Shri Anil Kumar, Shri Balbir Singh, Shri Hari Saran, Shri Gyan Chand, Shri Om Pal, Shri Kailash and Shri Sachin Singh have settled their grievances and they do not want the Tribunal to adjudicate the same on merits. This application was granted by the Tribunal on 22-5-2009. Employees, namely, Shri Mukesh Kumar and Shri Kishori Singh made a similar application on 12-8-2009, which was granted on that very date.

14. An application, moved on 29-3-2010 on behalf of Shri Silas Masih, Shri Jamman Ram, Shri Ram Pal, Shri Rajendra Prasad, Shri Surash Chand, Shri Sudhir Kumar, Shri Hari Chand, Smt. Rajwati and Shri Ram Swaroopon, was granted vide order dated 29-5-2010. Claimants, referred above, asserted through Shri Y. K. Sharma, General Secretary of the Union, that they do not want adjudication of their grievances on merits. In view of these facts, grievances of the aforesaid employees stand settled and there is no occasion for the Tribunal to enter in to merits of their grievances.

15. Mukesh Kumar swears in his affidavit Ex. WW1/ A that fifty three part-time sweepers have been working in various branches of the bank from last several years. Part-time sweepers, besides him, are paid on vouchers, on the basis of floor space area. Except these facts, other facts relate to his engagement as part-time sweeper in Shastri Nagar, Meerut, Branch of the bank. Since Mukesh Kumar opted not to press for adjudication of his grievances on merit, hence facts relating to his engagement became irrelevant.

16. Surendra Kumar presented his affidavit Ex. WW2/ A as evidence, wherein facsimile facts, as detailed by Shri Mukesh Kumar, were narrated. Except general statement as to engagement of fifty three part-time sweepers in various branches of the bank and payment being made to them on vouchers on the basis of floor space area, he detailed facts relating to his engagement in Nagina Branch of the bank. When he opted to withdraw his grievances out of adjudication process, facts relating to his engagement became irrelevant.

17. Affidavit, which is Ex. WW3/A, has been pressed in service by Shri A. K. Jain, General Secretary of the Union. He swears therein that fifty three claimants have been working as part-time sweepers in various branches of the bank. Their names, dates of initial employment and names of the branches where they are working are mentioned in Annexure A to the claim statement, which was prepared by him based on records of the bank maintained at Zonal Offices in Western U.P. They are working continuously since the dates mentioned in Annexure A. Prior to 1995, no recruitment procedure was adopted by the bank for engagement of sweepers. Sweepers were employed by the concerned Branch Manager with permission/approval

of Regional Head of the bank. No appointment letter was given to any of the claimant. Claimants are being paid wages on the basis of floor area of the respective branch. They are entitled to benefits and privileges as admissible to permanent part-time employees. The Union took up the cause of the claimants and served demand notice Ex. WW3/1 on the bank. When bank did not bother, conciliation proceedings were initiated. Part-time sweepers are part-time workmen and entitled to be regularized in service, in view of the provisions of Shastri Award, Desai Award and Bi-partite settlements. During the course of cross-examination, he asserts that he visited all 53 branches where claimants were working.

18. When facts unfolded by Shri Jain are appreciated, it came to light that the claimant union projects that conditions of service of bank employees are governed by Shastri Award, Desai Award and Bipartite Settlements, to which the bank is a party. Standing orders are applicable to the bank, which require to record particulars of employees, his date of entry in bank, name of post and the amount of salary paid to him, besides issuance of an appointment letter. As per clause 20.8 of the Bipartite Settlement dated 19-10-66, a temporary workman may be appointed to fill a permanent vacancy, provided such appointment shall not exceed a period of three months, during which period bank shall make arrangement to fill up the vacancy permanently. Bank may appoint an employee on casual or badli or temporary basis to meet sudden exigency of the work. But such appointments shall not continue for a longer period. To continue an employee as bodli or casual or temporary for an indefinite period amounts to unfair labour practice, which practice has been deprecated by the Apex Court in H. D. Singh, [1986 (1) L.L.J. 127]. The bank does not maintain record of temporary sweepers employed in its various branch(es) in Western U.P. Temporary sweeper have completed more than 240 days of service and are entitled for regular employment in the bank. Adhoc appointments in the bank are governed by statutory rules and regulations. Employment to sub-staff cadre should be made through employment exchange by notifying vacancies. The bank had not followed such procedure while engaging sweepers against permanent vacancies on temporary basis for indefinite period.

19. Enlisting names of temporary sweepers, the claimant union projects that they were engaged in various branch(es) of the bank against permanent post(s). All of them have completed 240 days of service and are entitled for regularization of their services as permanent sweeper(s). Claimant union presents that the bank had entered into a tripartite settlement on 18th of March, 2008, in the matter of absorption of casual/temporary peons and sweepers in bank. It details that in the said settlement the bank agreed to absorb temporary sweepers in the service of the bank in three phases, subject to fulfilling

eligibility criteria as on the date of their first engagement in the bank. Their engagement was to be prospective and they as well as their unions were saddled with an obligation to withdraw all pending cases before the Conciliation Officer(s) or the adjudicating Authorities.

20. As unfolded by the claimant union in the claim statement, persons whose names are mentioned in schedule to the terms of reference were kept by the bank as temporary sweepers for a very long period. Their engagement as temporary sweepers has not been a disputed fact. It was claimed by the bank that they were engaged dehors recruitment rules. Therefore, case projected by the parties is that persons, whose names are detailed in schedule to the terms of reference, were working with the bank as temporary/casual sweepers. The bank asserts that their engagement as temporary/casual sweepers nowhere creates relationship of employer and employee between the parties and since their engagement was violative of the recruitment rules, their services cannot be regularized. Contra to it the claimant union projects that keeping them as temporary sweepers continuously is violative of the scheme of the Industrial Disputes Act, 1947 Act and the bank is under an obligation to regularise their services, in accordance with the scheme provided in settlement dated 18-3-2008.

21. The relationship of employer and employee is constituted by a contract, express or implied between employer and employee. A contract of service is one in which a person undertakes to serve another and to obey his reasonable orders within the scope of the duty undertaken. A contract of employment may be inferred from the conduct which goes to show that such a contract was intended although never expressed and when there has, in fact, been employment of the kind usually performed by the employees. Any such inference, however, is open to rebuttal as by showing that the relation between the parties concerned was on a charitable footing or the parties were relations or partners or were directors of a limited company which employed no staff. While the employee, at the time, when his services were engaged, need not have known the identity of his employer, there must have been some act or contract by which the parties recognized one another as master or servant.

22. Mukesh Kumar, Surender Kumar and Shri Jain depose that the claimants were engaged by the bank as temporary sweepers at branches mentioned in Annexure A, annexed with the claim statement, Shri Jain announces that he visited all 53 branches and collected information as to engagement of the claimants. He re-affirms these facts, when he deposed that records at Zonal Offices of the bank were the basis of contents detailed in Annexure A as to the names of the claimants, dates of their initial engagement and the branches where they were working. These facts remained unassailed during the

course of his cross-examination. Thus out of facts projected by the above witnesses it emerge that the claimants were engaged by the bank as part-time sweepers. In the written statement the bank does not dispute that the claimants were engaged as part-time sweeper(s). However, it projects that none of them were eligible to be regularized in service, as sought by the claimant union. Therefore, it is evident that the bank engaged aforesaid claimants as part-time sweepers at different occasions and in different branches. Engagement of the claimants as part time sweeper established relationship of employer and employee between them on one hand and bank on the other. It does not lie in the mouth of the bank to agitate that no relationship of employer and employee ever existed between the parties. Contention so raised by Shri Gupta is brushed aside.

23. Now I would proceed to adjudicate the proposition as to whether act of keeping temporary sweepers continuously in service is just, fair and legal. Assailing the claim, the bank projects that since claimants were engaged dehors recruitment rules, they cannot agitate for regularization of their services. Shri Gupta had argued that word "regularisation" connotes and is calculated to condone any procedural irregularity in the process of making appointment and meant to cure only such irregularities which are attributable to methodology followed in making appointments. According to him regularization cannot and does not relate to permanence on a post. When appointment of claimants were in infraction of statutory rules that illegality cannot be rectified or regularized, argued Shri Gupta. Non compliance with the rules, in the matter of appointment goes to the root of the matter. Therefore, claim projected by the claimant union cannot be answered in their favour, concludes Shri Gupta.

24. To answer the proposition raised by Shri Gupta, it is expedient to know the procedure, following which a part time employee may be employed. Shastri Award gives classification of employees. Para 508 of the Award commands that employees shall be classified as : (a) permanent employees, (b) probationers, (c) temporary employees, (d) part-time employees. Part-time employee has been defined to mean "an employee who does not or is not required to work for the full period for which an employee is ordinarily required to work and who is paid on the basis that he is or may be engaged in doing work elsewhere".

25. Paragraph 493 of Shastri award projects that bank(s) in their own interest and, in case of a reasonable number of posts, advertise them and then make appointments after passing the candidates through such tests as they may consider necessary. The bank(s) should also maintain registers of candidates in which their names, ages, qualifications, previous experience, if any, special

merits and recommendations should be entered and such registers should be revised periodically and kept upto date. Such registers should also have the names of retrenched and temporary employees whose work has been found to be satisfactory. The award nowhere provides as to how a part-time employee would be recruited.

26. Desai award directs that a minimum of 1/3rd of the appropriate rate of pay and allowances should be given to part-time employees, if such part-time employee work for not less than 7 hours per week. Minima of wages have been prescribed for them, as detailed above. Desai Award is also silent as to under what manner a part-time employee would be recruited by the bank(s).

27. First Bipartite Settlement lays down in detail as to how a part time employee would be paid. In clause 4.5 it has been provided that in supersession of paragraph 5.191 of the Desai Award, part-time workman shall be entitled to graduated incremental pay scales relating to their working hours, as follows :

- (a) Part-time workman other than those belonging to subordinate staff shall be paid 1/3rd of the basic pay, special allowance, house rent allowance and other allowance, if any and D. A. and shall also be entitled to 1/3rd of the annual increments, payable under this settlement to full time workman provided that the total working hours of such part-time workmen shall not exceed 12 per week.
- (b) Part time workmen who are members of subordinate staff shall (subjects to clause 20.5) be paid—if their normal working hours per week are :

(1) Upto 3 hours	at bank's discretion
(2) More than three hours but less than six hours	at bank's discretion but minimum Rs. 15 P.M.
(3) 6 hours to 13 hours	1/3rd of the scale wages with proportionate annual increment
(4) More than 13 hours to 19 hours	1/2 of the scale wages with proportionate annual increment
(5) More than 19 hours to 29 hours	3/4th of the scale wages with proportionate annual increment
(6) Beyond 29 hours	Full scale wages.

28. Second Bipartite Settlement also speaks about the wages of part-time workman. Clause 9 of the said settlement projects that in supersession of Clauses 4.5 and 20.5 of the Bipartite Settlement dated 19th October, 1966, part-time workman shall be entitled to graduated incremental pay scales related to their work hours, as follows :

(a) Part-time workman other than those belonging to the subordinate staff shall be paid 1/3rd of the scale wages and shall be entitled to 1/3rd of the annual increments, payable under the settlement to full time workman provided that the total working hours of such part-time work shall not exceed 12 per week.

(b) Part time workmen who are members of subordinates staff shall be paid, if their normal total working hours per week are :

- | | |
|---|--|
| (1) Upto three hours | at bank's discretion |
| (2) More than three hours but less than six hours | at banks discretion but with a minimum Rs. 25 P.M. |
| (3) 6 hours to 13 hours | 1/3rd of the scale wages with proportionate annual increment |
| (4) More than 13 hours to 19 hours | 1/2 of the scale wages with proportionate annual increment |
| (5) More than 19 hours to 29 hours | 3/4th of the scale wages with proportionate annual increment |
| (6) Beyond 29 hours | Full scale wages. |

29. In Third Bipartite Settlement agreement was reached to the effect that permanent part time employees who are required to work for more than six hours a week will be eligible for provident fund and gratuity. Part-time employee, who is required to work over 3 hours but below six hours a week, shall be paid Rs. 60 P.M. w.e.f. 1st of September, 1998. It was further agreed that subject to banks recruitment rules, if any, part-time employees in the subordinate cadre will be given a preference for filling full time vacancies in the same cadre, other things being equal.

30. Clause 18.1 of the Fifth Bipartite Settlement projects that codified service conditions of part-time

employee with such modifications, as are considered necessary, as follows :

Subordinate Staff :

If their normal total working hours per week are :

- | | |
|--------------------------------|--|
| Upto 3 hours | : at bank's discretion with a minimum of Rs. 60 P.M. |
| More than 3 hours | : at bank's discretion but with a minimum of Rs. 175 p.m. |
| 6 hours to 13 hours | : One third of the scale wages with proportionate annual increment. |
| More than 13 hours to 19 hours | : One half of the scale wages with proportionate annual increment. |
| More than 19 hours to 29 hours | : Three fourth of the scale wages with proportionate annual increment. |
| Beyond 29 hours | : Full scale wages. |

'Scale wages' are defined to mean basic pay, city compensatory allowance (as per Clause 6), if any, special/house rent/other allowance, if any, and dearness allowance payable under this Settlement to full time workmen.

Part-time employees not drawing scale wages shall be eligible for only fixed monthly payment made to them by the bank. Other part-time employees drawing scale wages shall get only such benefits as are specifically provided hereunder :

- Permanent part-time employees drawing scale wages are eligible for leave, medical aid and uniforms.
- Permanent part-time employees drawing scale wages are eligible for Provident Fund with effect from 1-9-1978.
- Permanent part-time employees drawing scale wages in banks other than in State Bank of India will be eligible for Gratuity. Those in State Bank of India, will, however, be eligible for Gratuity or Pension as per rules.
- Permanent part-time employees drawing scale wages shall be eligible for leave fare concession and leave encashment on pro-rata basis with effect from 1-4-89.

31. In Supplementary Settlement dated 28th Nov.. 1997, it was agreed that part-time employees who are members of the subordinate staff and whose normal total

working hours per week are as given below shall be paid consolidated wages :

1. Part-time Employees :

In partial modification of Clause 18(1) of Memorandum of Settlement dated 10th April, 1989, part-time employees who are members of the subordinate staff, whose normal total working hours per week are as given below shall be paid consolidated wages :

- (a) From 1-11-1992 to 31-10-1994
- | | | |
|---|---|--------------|
| Upto 3 hours | = | Rs. 130 p.m. |
| More than 3 hours but less than 6 hours | = | Rs. 375 p.m. |
- (b) From 1-11-1994
- | | | |
|---|---|--------------|
| Upto 3 hours | = | Rs. 150 p.m. |
| More than 3 hours but less than 6 hours | = | Rs. 440 p.m. |

32. In Seventh Bipartite Settlement it has been projected that part-time employees shall be paid consolidated wages, in accordance with their working hours. Those agreed aspects are as follows :

"20. Part-time Employees

- (i) In partial modification of Clause 1 of the Bipartite Settlement dated 28th November, 1997, with effect from 1st November, 1997, part-time employees whose normal working hours per week are as given below shall be paid consolidated wages as under :
- | | |
|---|---|
| (a) Upto 3 hours | : at bank's discretion with a minimum of Rs. 450 p.m. |
| (b) More than 3 hours but less than 6 hours | : at bank's discretion with a minimum of Rs. 740 p.m. |
- (ii) In partial modification of Clause 18.2 of the Bipartite Settlement dated 10th April, 1989, with effect from 1st November, 1999, part-time employees drawing scale wages shall also be eligible for reimbursement of hospitalisation expenses on pro-rata basis.

33. Except the amount of wages payable to a part-time employee, in none of the awards and settlements, referred above, mode or method of recruitment of part-time employee(s) was ever provided. Shri Gupta has not been able to place recruitment rules for recruitment of part-time sweepers, which are being followed by the bank. There is a candid admission by the bank that no recruitment rules are there for recruitment of part-time sweeper(s). Left in lurch, the Tribunal had to make efforts to ascertain as to

whether the bank(s) are bound to follow some guidelines for recruitment of part-time employee(s). In that bid, the Tribunal could lay its hands on guidelines formulated by Department of Economic Affairs (Banking Division), Ministry of Finance, Govt. of India, New Delhi. Relevant extract of those guidelines provide as follow :

Subordinate Staff :

- (i) Recruitment to subordinate staff should be on a local basis.
- (ii) The maximum age for sub-staff is to be fixed at 25 with suitable relaxation for SC/ST candidates.
- (iii) Candidates having middle school as the minimum educational qualification should be considered for appointment as sub-staff.
- (iv) Applications sponsored by the Employment Exchanges and such other applications that the bank may receive directly could form the basis for selection as sub-staff.
- (v) While no written test is normally necessary for selection of sub-staff, the bank may devise a procedure to ascertain the candidate's ability to read and write. Interview should be the main process for selection.
- (vi) As the procedure for selection of sub-staff through Employment Exchange is relatively simple, long waiting lists should not be prepared.

34. Except the guidelines detailed above, no recruitment procedure in respect of part-time employee(s) could reach my hands. Question for consideration comes as to whether recruitment of a part-time employee would be subjected to the Employment Exchange (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959. (in short the Employment Exchange Act). Clause (i) of Section 2 of the Employment Exchange Act defines unskilled office work. It provides that unskilled office work means work done in establishment by any of the following categories of employees, namely, (i) daftry, (ii) jamadar, probationers and peon; (iii) dusting man and farash; (iv) bundle or record lifter; (v) process server; (vi) watchman; (vii) sweeper; (viii) any other employees doing any routine or unskilled work/the Central Government may by notification in the official gazette declare to be unskilled this work.

35. Section 3 of the Employment Exchange Act makes it clear that the said Act, does not apply in relation to vacancies— (a) in any employment in agriculture including horticulture in any establishment in private sector other than employment as agricultural or farm machinery operatives. (b) under any employment in domestic service.

(c) under any employment the total duration of which is less than three months, (d) in any employment to do unskilled office work, (e) in another employment connected with the staff of parliament. Therefore, it is evident that for recruitment of a sweeper, not to talk of a part-time sweeper, provisions of the Employment Exchange Act are not applicable. The bank may recruit a part-time sweeper locally, without advertising vacancy in a newspapers or otherwise. Guidelines referred above, leaves a room for the bank to receive an application directly from a candidate for recruitment as sub-staff. No obligation is cast on the bank to insist for names of the candidates being sponsored by the Employment Exchange. For a work, duration of which is less than 3 hours a week, a candidate would not get his name registered with an employment exchange. It is not expected of the bank to make advertisement of such vacancies for public at large, since such work would be performed by persons, who can pull on with meager income. Therefore, it is evident that for recruitment of part-time sweeper discretion vests with bank to engage such persons from near vicinity, where the branch is located where work exists. Therefore, it is emerging over the record that part-time sweeper(s) can be engaged by the bank in its respective branches, as per exigencies. When bank makes engagement of part-time sweeper(s), as per exigency, without getting names of the candidates sponsored by an employment-exchange, which mode of recruitment is recognized by the guidelines referred above, it does not lie in its mouth to assert that the claimants were engaged dehors the rules. In such a situation contention of Shri Gupta, to the effect that the claimants were engaged in violation of rules and are not entitled for regularization of their services, is unfounded.

36. Settlement dated 18-3-2008 makes provision for absorption for casual/temporary peon(s) and sweeper(s) in service of the bank in three phases, subject to conditions contained in Clause 3 of the said settlement. Sweeper(s) are required to fulfil eligibility criteria with respect to age and qualification as on first date of their engagement by the bank, ought to be medically fit for recruitment and their absorption is to take place with prospective effect. They were to be absorbed in first stage of full time/part time wages, viz. 1/3rd, one half, 3/4th and full time respectively. Therefore, it is evident that settlement dated 18-3-2008 speaks of absorption of temporary sweeper(s) in the service of the bank.

37. Whether claimant's service(s) can be regularized by the bank by way of absorption in accordance with the settlement referred above? Admittedly the Apex Court in R. N. Nanjundappa [1972 (1) LLJ 565], S. C. Pandey [2006 (2) SCC 716] and A. Uma Rani [2004 (7) SCC 112] had ruled that regularization connotes and is calculated to condone any procedural irregularity in making appointment and mean to correct only such irregularity which are attributable to methodology followed in making appointments. But

these precedents do not come in the way of the claimants. Here in the case, the claimants were engaged as part-time sweepers as per exigency, locally. Their engagement is not found to be violative of guidelines, issued by the Govt. of India. It is not a disputed fact that the claimants were engaged by the bank from the vicinity, where the branch was located in which work existed. Therefore, no irregularity, in making their engagement as part-time sweeper(s), has been highlighted or emerged. Consequently, it is evident that act of keeping claimants as part-time sweepers continuously is in violation of the settlement referred above. This Tribunal cannot conclude that such an act of the bank is just, fair and legal. Consequently the first proposition, as detailed in preceding sections, is answered in favour of the claimant union and against the bank.

38. Next proposition, which would be addressed to, is as to whether continuance of the claimants without regularization of their services is just, fair and legal? It is not a disputed fact that claimants are in service of the bank since long. The Tribunal cannot be oblivious to the proposition as to whether engagement of claimants was in consonance with the recruitment rules or it was violative of the policy of recruitment in Government job. It has also to be take into account as to whether the casual workman was satisfying the legitimate criteria for recruitment to the post, when he was initially engaged for it. In case claimants do not come upto the expectation provided in the recruitment rules and entered in the job through backdoor in that situation this Tribunal may refuse to accord status and privilege of permanent employee(s) to them, being violative of public policy of recruitment.

39. As held above, claimants entered the job in consonance of guidelines laid by the Govt. of India. Continuance of claimants as temporary for long time would amount to unfair labour practice, which cannot be permitted to be adapted by this Tribunal as held by Apex Court in H.D. Singh (supra). Therefore, it is evident that continuance of the claimants as part-time sweeper for a long period cannot be permitted. Even otherwise settlement dated 18-3-08 is binding on the bank, who cannot flout it. Consequently a duty is cast on the bank to consider case(s) of the claimants for absorption in bank service, in pursuance of the settlement referred above. It emerges that continuance of the claimants for a longer period without their absorption in bank's service is neither just nor fair nor legal. The second proposition, is, thus, answered in favour of the claimant union and against the bank.

40. Absorption/regularization of the service of the claimants, other than those who have withdrawn their grievances from adjudication process, has to be done in pursuance of the settlement dated 18-3-2008. Claimants are required to fulfil eligibility criteria with respect of age,

qualification on the first date of their engagement by the bank, besides being medically fit for recruitment. Consequently the bank is commanded to ascertain eligibility of the claimants in respect of their age and qualification, as on the first date of their engagement by the bank, besides their being medically fit for recruitment, in pursuance of the settlement referred above. In case the claimants, other than those who have withdrawn their grievances from adjudication process, are found eligible the bank shall absorb them in service with prospective effect, in first stage of full time/part-time wages viz. 1/3, one half, 3/4th and full time respectively. An award is, accordingly, passed. It be sent to the appropriate Government for publication.

Dr. R. K. YADAV, Presiding Officer

Dated : 16-1-2012.

ANNEXURE-II

**BEFORE DR. R. K. YADAV, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL NO. I, DELHI**

L.D. No. 287/2011

The General Secretary,
Uttar Pradesh Bank of Baroda,
Employees Union (WZ),
Bank of Baroda, 188, Abu Lane,
Meerut (U.P.)

... Claimant

Versus

The General Manager,
Bank of Baroda, Zonal Office;
Delhi Road, Meerut (U.P.)

... Management

ORDER

1. Bank of Baroda, in its various branches in Meerut Zone, has employed fifty three sweepers from last several years. The U.P. Bank of Baroda Employees' Union (in short the Union) has been claiming regularization of those part time sweepers. Demand notice dated 18-8-1996 was served on the bank, which remained unheeded. The Union approached the Conciliation Officer, vide its letter dated 26-12-1996. Since conciliation proceedings failed, the appropriate Government referred the dispute to this Tribunal for adjudication, vide order No. L-12011/172/91/IR-(B-II), New Delhi, dated 23rd February, 2000, with following terms of reference.

"Whether the action of the management of Bank of Baroda, Meerut in denial of regularization of the services of fifty three part time sweepers (list enclosed) is just, fair and legal? If not, what relief the workmen are entitled and from which date?"

2. An award was passed in the matter on 13-1-2012. Due to accidental slip, wrong date was typed in the award.

3. Rule 28 of the Industrial Disputes (Central) Rules 1957 provides for correction of errors. For sake of ready reference aforesaid rule is extracted thus :

"The Labour Court, Tribunal, National Tribunal or Arbitrator may correct any clerical mistake or error arising from an accidental slip or omission in any award it/he issues".

4. Clerical error can be defined as an error in a document which can only be explained by considering it to be a slip or mistake of the party preparing or copying it. Literally an error is said to be "clerical" where it is made by a clerk or some subordinate agent, but actually, it means an error committed in the performance of clerical work, whether by the Court, the draftsman of the Act or by the clerk. It is an error which cannot reasonably be attributed to the exercise of judicial consideration or discretion. Clerical error is in the nature of an inadvertent omission or mistake. The term "clerical error" which is amendable *nunc pro tunc* is distinguishable from a "judicial error" which can be corrected only on review or an appeal. Reference can be made to precedents in *Rosamma Punnose* (AIR 1958 Ker. 154) and *Mansha Ram L. Jagdish Rai* (AIR 1962 Punj. 110).

5. Accidental slip occurs when something is wrongly put in by an accident and an accidental omission occurs when something is left out by accident. The expression "accidental slip" as occurring in Section 152 (new) of the Code of Civil Procedure was construed by the Federal Court in *Sachindara Nath Kolya* (5 DLR 68), wherein it was observed as follows :

"It needs to be stressed that the keyword in the relevant phrase is "accidental" and it qualifies "omission" also, with the result that the procedure provided by section cannot be used to correct omission, however erroneous, which are intentional, not indeed in the sense of conscious choice, for no court, is supposed to commit an error knowing it to be such, but in the sense that the Court meant not to omit what was omitted".

6. Apex Court in *Tulsipur Sugar Company Ltd.* [1969 (2) SCC 100] had occasion to consider correctional jurisdiction of the Labour Court constituted under the UP Industrial Disputes Act, 1947. In that precedent the Apex Court made reference to the provisions of Section 152 of the Code of Civil Procedure and rule 28 of the Rules and announced that power of correction of error is a limited one, which can be exercised only to cases where mistake, clerical or arithmetical or an error arising from an accidental slip or omission had occurred. It was ruled therein that this power is limited only to cases where clerical or arithmetical mistake or errors arising from an accidental slip or omission have occurred.

7. After ascertaining the scope of powers of correction of errors available to this Tribunal, now it is pondered whether date typed on award as 16-1-2012 was on account of conscious choice of the Tribunal. Answer lies in negative. It was recorded on account of accidental mistake. This Tribunal has power to correct the accidental mistake. Accordingly, it is ordered that the award, purported to be passed on the above dispute, may be read as passed on 13-1-2012, where ever it occurs. Ordered accordingly. The appropriate Government may be communicated of correction, so made in the award, for publication.

Dated: 14-2-2012 Dr. R. K. YADAV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2012

का.आ. 1626.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91-क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट कारखानों/स्थापनाओं के नियमित कर्मचारियों को इस अधिनियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है। यह छूट, इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी।

2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है; अर्थात् :

- (1) पूर्वोक्त स्थापना जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगी, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदनाम दिखाये जायेंगे;
- (2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अंशदानों के आधार पर हकदार हो जाते हैं;
- (3) छूट प्राप्त अवधि के लिए, यदि कोई अभिदाय पहले ही किए जा चुके हों, तो वे वापस नहीं किए जाएंगे;
- (4) उक्त कारखाने/स्थापना का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने/स्थापना पर उक्त अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है) प्रवर्तमान था, ऐसी विवरणियां, ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी अपेक्षित होती थी;
- (5) निगम द्वारा उक्त कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निगम का इस विधित, प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी :
 - (i) धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरण की

विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; अथवा

- (ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गये थे या नहीं; या
- (iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिये गए उन फायदों को, जिसके फलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या
- (iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं, निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :
 - (क) प्रधान या आसन्न नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; अथवा
 - (ख) ऐसे प्रधान या आसन्न नियोजक के अधिशोभाधीन, किसी कारखाने, स्थापना, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें या ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या
 - (ग) प्रधान या आसन्न नियोजक की, उसके अधिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो ऐसे कारखाने, स्थापना, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या
 - (घ) ऐसे कारखाने, स्थापना, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखा, बही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उद्धरण लेना;

(ड) यथानिर्धारित अन्य शक्तियों का प्रयोग करना ।

7. विनिवेश/निगमीकरण के मामले में, प्रदत्त छूट स्वतः रद्द हो जाएगी और तब नए प्रतिष्ठान को छूट हेतु समुचित सरकार की अनुमति लेनी होगी ।

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापना/कारखाने का नाम
1.	मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, असम
2.	मैसर्स एच. एल. एल. लाईफ केयर लिमिटेड तिरुवनन्तापुरम (पेरुडकडा फैक्टरी, त्रिवेन्द्रम, अक्कुलम फैक्टरी, श्रीकेरियम, डाकखाना त्रिवेन्द्रम एवं कांगला फैक्टरी
3.	सेल, दुर्गापुर का मैसर्स अलॉम स्टील प्लांट
4.	हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन (नागांव पेपर मिल) कागजनगर, असम
5.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (सभी प्रतिष्ठान/इकाइयां)
6.	सेल, भिलाई का भिलाई स्टील प्लांट
7.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे
8.	सेल, रिफ्रेक्टरी यूनिट, रांची रोड (डाकखाना मराढ़, जिला रामगढ़) झारखंड, सेल रिफ्रेक्टरी यूनिट भिलाई (डाकखाना सिविक सेंटर, जिला दुर्ग) छत्तीसगढ़ और सेल रिफ्रेक्टरी यूनिट, इफिको ।
9.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइज़र्स लिमिटेड, मुम्बई

[सं. एस-38014/13/2011-एसएस-1]

नरेश जायसवाल, अवर सचिव

New Delhi, the 30th March, 2012

S.O. 1626.—In exercise of the powers conferred by Section 88 read with Section 91-A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby exempts the regular employees of factories/establishments specified in the schedule from the operation of the said Act. The exemption shall be effective from the date of issue of this Notification for a period of one year.

2. The above exemption is subject to the following conditions namely :

- (1) The aforesaid establishments wherein the employees are employed shall maintain a register showing the name and designations of the exempted employees;
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such

benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refundable;

(4) The employer of the said factory/establishment shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred as the said period), such returns in such forms and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(5) Any Social Security Officer appointed by the Corporation under sub-section (1) of Section 45 of the said ESI Act or other official of the Corporation authorized in this behalf by it, shall for the purpose of :

(i) Verifying the particulars contained in any returned submitted under sub-section (1) of Section 44 for the said period; or

(ii) Ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) Ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) Ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory to be empowered to :

(a) require the principal or immediate employer to him such information as he may consider necessary for the purpose of this Act; or

(b) at any reasonable time enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge

thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine accounts, books and other documents relating to the employment of personal and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises,
- (e) exercise such other powers as may be prescribed.

6. In case of disinvestment/corporatization, the exemption granted shall become automatically cancelled and then the new entity will have to approach the appropriate Government for exemption.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Establishment/Factory
1.	M/s. Numaligarh Refinery Ltd., Assam
2.	M/s. H.L.L. Life Care Ltd., Thiruvananthapuram (Peroorkada Factory, Trivandrum, Akkulam Factory, Sreekariyam, P.O. Trivandrum and Kangala Factory.
3.	M/s. Alloy Steel Plant of SAIL, Durgapur
4.	Hindustan Paper Corporation (Nagaon Paper Mill), Kagajnagar, Assam
5.	Hindustan Petroleum Corporation (All establishments/units)
6.	Bhillai Steel Plant of SAIL, Bhilai
7.	Hindustan Antibiotics Limited, Pune
8.	SAIL Refractory Unit, Ranchi Road (P.O. Marar, District Ramgarh), Jharkhand, SAIL Refractory Unit, Bhilai (P.O. Civic Centre, District Durg), Chhattisgarh and SAIL Refractory Unit, IFICO.
9.	Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd., Mumbai

[No. S-38014/13/2011-SS-I]

NARESH JAISWAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2012

का.आ. 1627.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार चीफ जनरल मैनेजर, बी. एस. एन. एल. देहरादून एण्ड अदर्स के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 43/2010) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11-4-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40011/10/2010-आई आर (डी यू)]

रमेश सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th April, 2012

S.O. 1627.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 43/2010) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, New Delhi, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Chief General Manager, BSNL, Dehradun And others and their workman, which was received by the Central Government on 11-4-2012.

[No. L-40011/10/2010-IR (DU)]

RAMESH SINGH, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE DR. R. K. YADAV, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL NO. 1, DELHI

L D. No. 43/2010

Shri Harpal Singh,
S/o Sh. Janki Prasad,
Vill. Kartarpur Road,
Post Gadarpur,
Udhamsinghnagar

... Workman

Vs.

1. The Chief General Manager,
Bharat Sanchar Nigam Limited,
Uttarakhand Circle,
Dehradun.

2. The Telecom District Manager,
Bharat Sanchar Nigam Limited,
Haldwani.

... Management

AWARD

A ban was imposed on recruitment of casual labour in Department of Tele-Communications, Government of India, New Delhi, vide letter No. 269-4/93-STN/II dated 22-6-1988. Consequently Department of Tele-Communications sought services of a contractor to obtain manpower in casual jobs. A few employees, so employed through a

contractor, filed writ petition No. 1625/SS/2004 before High Court of Uttranchal wherein an interim order was passed in favour of the petitioners therein. Precedent handed down by the Apex Court in Uma Devi [2006 (4) SCC 1] persuaded the High Court to dispose of that writ petition with permission to the petitioner to withdraw it with liberty to make representation before the appropriate authority. Accordingly, the writ petition was disposed off on 23-4-2006 and in pursuance of that order a representation was made by Shri Harpal Singh to the authorities of Bharat Sanchar Nigam Ltd., successor in interest of Department of Tele-Communications, department which representation came to be dismissed. Feeling aggrieved Harpal Singh raised an industrial dispute before the Conciliation Officer. Since the conciliation proceedings failed, the appropriate Government referred the dispute to this Tribunal for adjudication, vide order No. L-40011/10/2010-IR(DU), New Delhi, dated 3rd September, 2010, with the following terms:

“Whether the demand of the workman Shri Harpal Singh son of Shri Janki Prasad casual labour for re-instatement and regularization of his service with effect from 28-2-2006 in Bharat Sanchar Nigam Ltd., who worked with them since last 20 years is valid and justified? If not, what relief the workman is entitled to?”

2. Claim statement was filed by Shri Harpal Singh pleading therein that he was engaged as a casual labour in the year 1986 by Sub-Divisional Officer, Kashipur, Department of Tele-Communication, Rudrapur, Nainital. He was a muster roll employee. S. D. O. Kashipur issued a certificate detailing that he worked for 350 days from 1-11-1986 to 31-10-1987. He continuously worked with Department of Tele-Communication and other certificate was issued in his favour by Sub-Divisional Engineer, Rudrapur, wherein it has been mentioned that he worked for 366 days from 1-1-1986 to 1-12-1996. According to him he was entitled for grant of temporary status under the scheme framed in that regard. He was not given such benefit. Another scheme was made to regularize an employee who had continuously worked with the Department of Tele-Communication for ten years. No benefit was accorded to him under that scheme too.

3. In the year 2000 assets and liabilities of Department of Tele-Communication were transferred to Bharat Sanchar Nigam Ltd., (hereinafter referred to as the Nigam). When the Nigam had not accorded him benefits of the aforesaid two schemes, he filed a writ petition before the High Court of Uttranchal wherein an interim order was passed in his favour. However, the said writ petition came to be disposed of vide order dated 23-11-2006, in the light of the pronouncement of the Apex Court in Uma Devi (supra). He was permitted to make a representation to the Nigam. He made a representation dated 22-12-2006 which

was rejected on 25-3-2008. He projects that during this period he was placed by the management under a contractor w.e.f. 28-2-2006. Since his dues were not accorded, he approached the Conciliation Officer. On failure of the Conciliation proceeding, reference was made. He claims that he may be re-instated in the service of the Nigam and be regularized as a ‘mazdoor’.

4. The Nigam demurred the claim pleading that the claimant was never engaged as casual/regular employee or on muster roll by Sub-Divisional Officer. The certificates annexed by the claimant are forged and fabricated. Since the claimant was never engaged by the Nigam, the schemes referred by him in his claim statement are not applicable to him. The factum of filing the writ petition before the High Court of Uttranchal and interim order made therein, are not disputed. However, the Nigam claims that since the writ petition was dismissed as withdrawn, the interim orders ceased to have its operation. The claimant never worked with the Nigam. He was an employee of the contractor. No case is there to pass an award in favour of the claimant. pleads the Nigam.

5. On the pleadings of the parties, the following issues were settled :

1. Whether there was no relationship of employer and employee between the parties ?
2. As in terms of reference ?
3. Relief.

6. To discharge onus resting on him, the claimant has examined himself. The Nigam has examined Shri D. K. Lohani and Shri Ganesh Singh in support of its defense. No other witness was examined by either of the parties.

7. Arguments were heard at the bar. Ms. Rani Chhabra, authorised representative, advanced arguments on behalf of the claimant. Mohd. Abrar, authorized representative, made his submissions on behalf of the Nigam. He had filed written submissions too. I have given my careful consideration to the arguments advanced at the bar and cautiously perused the record. My findings on the issues involved in the controversy are as under :

Issue No. 1 :

8. In his affidavit Ex. WW1/A, tendered as evidence, the claimant swears that he was engaged as casual labour on 1-11-1986 under Sub-Divisional Officer, Kashipur, Department of Tele-Communication, Rudrapur, Nainital. He was a muster roll employee and worked continuously in the aforesaid department. Certificates of experience were issued in his favour by the authorities. He continuously worked with the Department of the Tele-Communication, but benefits of the schemes for grant of temporary status and regularizations were not granted to him. Photo copies of the documents which are Ex. WW1/13 to Ex. WW1/31,

besides photographs Ex. WW1/1 to Ex. WW1/12 are relied by him. During the course of his cross-examination, he asserts that he had not worked under any contractor. In subsequent breath he concedes that he is working under a contractor since 2006. He never made a complaint when temporary status was not granted to him.

9. Shri D. K. Lohani swears in his affidavit Ex. MW1/A, tendered as evidence, that the claimant was never engaged as casual/regular employee or on muster roll by the Sub-Divisional Officer of the Nigam. Certificates annexed by him are forged and fabricated. During the course of cross-examination, he concedes that Department of Tele-Communication used to engage casual employees. Documents which are Ex. MW1/1 to Ex. MW1/7 are relied by him.

10. Shri Ganesh Singh reiterates those very facts in his affidavit Ex. MW2/A, which were sworn by Shri Lohani in his affidavit. He disputes that the claimant ever worked under him, when he was working as S.D.O., Rudrapur. No casual labour was employed by the Nigam from 1997 till May, 2001, when he was posted as S.D.O., Rudrapur.

11. Whether relationship of employer and employee existed between the parties? For an answer to this proposition, it is to be appreciated as to how a contract of service is entered into. The relationship of employer and employee is constituted by a contract, express or implied between employer and employee. A contract of service is one in which a person undertakes to serve another and to obey his reasonable orders within the scope of the duty undertaken. A contract of employment may be inferred from the conduct which goes to show that such a contract was intended although never expressed and when there has, in fact, been in employment of the kind usually performed by the employees. Any such inference, however, is open to rebuttal as by showing that the relation between the parties concerned was on a charitable footing or the parties were relations or partners or were directors of a limited company, which employed no staff. While the employee, at the time, when his services were engaged, need not have known the identity of his employer, there must have been some act or contract by which the parties recognized one another as master or servant.

12. To discharge the onus, resting on him, the claimant had deposed that he was engaged as a casual labour on 1-11-1986 under Sub-Divisional Officer, Kashipur, Department of Tele-Communication, Rudrapur, Nainital. He makes a bold claim that he was engaged by the S.D.O. but no appointment letter was issued in his favour. In a bid to substantiate his assertion relating to his employment, he placed reliance on documents Ex. WW1/13 to Ex. WW1/31. As projected by the claimant, these certificates are photocopies, originals of which are in his possession. He declares that he is unable to identify signatures of issuing authorities of these documents.

Original of Ex. WW1/13 to Ex. WW1/31 were not produced by the claimant before this Tribunal. Nigam disputes authenticity of documents referred above. Where a party wishes to prove contents of a document, the "best" or "primary" evidence is production of document itself. In words of Justice Mahajan, "the adjudication of a dispute has to be in accordance with the evidence legally adduced". See *Bharat Bank Ltd.*, [1950 (1) LLJ 921]. A party to an industrial dispute has to prove by satisfactory evidence the particular claim he wishes to make. Reference may be made to the precedent in *Trichonopoly Mills*, [1960 (II) LLJ 46]. But in *Sindhu Re-settlement Nigam Ltd.*, [1968 (1) LLJ 834] on the facts of the case, speaking for the Supreme Court, Justice Bhargava observed that if no objection is taken to the admissibility or about the genuineness of a document which has been filed but has not been proved by oral evidence, such document in certain circumstances may be relied upon by the Tribunal, because in proceedings before Industrial Tribunal strict proof of document in accordance with the provisions of Evidence Act is not required.

13. However, above proposition seems to be confined to the facts of that case alone and cannot be said to be of uniform or universal application in industrial adjudication. In *Bareilly Electricity Supply Co. Ltd.*, [1971 (II) LLJ 407] the Apex Court emphasized the need of proof of a document by legal evidence. Justice Jaganmohan Reddy observed thus :

".....Even if technicalities of the Evidence Act are not strictly applicable insofar as Section 11 of the Industrial Disputes Act, 1947 and the Rules prescribed thereunder permit it, it is inconceivable that the Tribunal can act on what is not evidence such as hearsay, nor can it justify the Tribunal in passing its award on copies of documents when the originals which are in existence are not produced and proved by one of the method either by affidavit or by witnesses who had executed them if they are alive and can be produced. Again if a party wants an inspection, it is incumbent on the Tribunal to give inspection, in so far as that is relevant to the enquiry. The applicability of these principles is well recognized and admits of no doubt".

14. Law referred casts a duty on the claimant to produce originals of Ex. WW1/13 to Ex. WW1/31. The claimant opted not to produce originals of the aforesaid documents. These documents, as per claim made by him, were issued in his favour by S.D.O. (Telegraphs) and Sub-Divisional Engineer (Telegraphs). When originals were in his possession, the claimant cannot obviate his duty of production of those originals. The Nigam has projected a claim that the aforesaid documents are fake and fabricated. When closely scrutinized Ex. WW1/14 purports to project that the claimant worked from 1-1-1996 till 1-12-1996

continuously. It has not been detailed in the document that he worked up to 31-12-1996. Period of 366 days would not reckon from 1-1-96 to 1-12-96. Document details that the claimant worked for 366 days continuously without any weekly rests. It is emerging over the record that this document announces that the claimant worked even on national holidays, not to talk of local and other festivals. Though the document purports to have been typed, but the designation and address of the issuing authority are projected by the office seal affixed over it. Issuing authority has not mentioned his name over it. Signatures are not legible. Date of issue and diary number are also not there on it. For what purpose this certificate was issued, has not been denoted on it. All these facts make me to comment that this document nowhere satisfies standards of genuineness.

15. When scrutinized Ex. WW1/13 also does not stand on the standards of authenticity. This document is photo copy of attendance sheet record. It is recorded in English. In serial number column numbers from 31 to 42 are mentioned. Second column relates to muster roll number and date, wherein these informations are not mentioned. In third column name of Sub-Inspector or Lineman was to be given. Instead of giving the information, "J. T. O RDR" is recorded therein. Fourth and Fifth columns relate to the period and days on which work was performed. In those columns it is mentioned that work was taken on all days of November and December 1986, January, February, March, April, May, June, July, August, September and October 1987. In last column illegible signatures of the authority who allegedly made payment do appear. Serial number 31 to 36 relate to May, 1987 to October 1987, while serial numbers 37 to 42 are given to the period from November 1986 to April 1987. This fact itself discards authenticity of the document. The record shows that work was taken on all days including Gazetted holidays, National holidays and local festivals. Name of Harpal Singh is written by someone in Hindi on the top of the document. This writing is handiwork of its beneficiary. It is so done with a view to create evidence. All these aspects push this document within the area of doubt.

16. Documents Ex. WW1/15 to Ex. WW1/26 do not pertain to the claimant. These documents have no nexus with his claim, hence do not espouse his cause. Ex. WW1/27 to Ex. WW1/29 relate to his writ petition Ex. WW1/30 is the representation made by him to the Chief General Manager (West) and Ex. WW1/31 is the order passed on his representation. These documents do not come to his rescue.

17. At the cost of repetition, it is said that the claimant had withheld originals of the aforesaid documents. It is well settled that where a party fails to produce a document, required to be produced, it is open to the Tribunal to draw an adverse inference against the party failing to produce the document. Adverse inference can

only be drawn where the document is in possession of a party is not produced before the Tribunal. Secondly, evidence in the form of a copy or ocular evidence as to the contents of a document is only admissible where there is some good reason for failure to produce the original. If the secondary evidence is of a copy, it would not be admissible in the court of law. The Tribunal must reject it.

18. Strict rules of evidence are not applicable before this Tribunal. Applying the analogy of the provisions of Section 63 of the Evidence Act, it can be said that secondary evidence means and includes : (i) certified copies, (ii) copies made from the original by mechanical process and copies compared with such copies, (iii) copies made from and compared with the original, (iv) counter parts of document as against the parties who did not execute them, and (v) oral accounts of the contents of a document by a person who has seen it.

19. When perused Ex. WW1/13 and Ex. WW1/14 are photo copies of the copies. Photo copy of a copy can only be termed as secondary evidence if it is made from the original by mechanical process and compared with such copies. Though attestation appears to have been made by Block Development Officer, Gadapur, Udham Singh Nagar, but those attested copies have not been placed before the Tribunal. Thus it is evident that Ex. WW1/13 and Ex. WW1/14 nowhere satisfy the standard of being termed as secondary evidence. Hence these documents cannot be admitted in evidence.

20. As held above, the claimant opted not to produce originals of the aforesaid documents, despite the fact that he claims that such documents were issued in his favour by SDO (Telegraphs) and Sub Divisional Engineer (Telegraphs). No case has been projected as to why originals are withheld. Under these circumstances I am constrained to draw an adverse inference to the effect that in case originals of Ex. WW1/13 and Ex. WW1/14 would have been produced, it would emerge that these documents were not issued by the authorities, purporting to have issued the aforesaid documents. Under these circumstances these documents are hereby brushed aside from the consideration of the case of the claimant.

21. Photographs Ex. WW1/1 to Ex. WW1/12 are pressed in service by the claimant to establish that he was engaged by the Nigam. These photographs simply project that the claimant had been working on lines, maintained by the Nigam. The case of the Nigam is that the claimant was an employee of a contractor and an employee of a contractor can intermeddle with its lines. In the light of these facts it is concluded that these photographs at the best would show that the claimant dealt with the lines of the Nigam. What was his authority to deal with those lines, these photographs nowhere project. It is not disputed that an employee of the contractor can intermeddle with the lines. It is the case of the claimant, in his claim

statement, that since 28-2-2006 he was placed under a contractor. No evidence is there on the record whether these photographs relate to the period prior to 28-2-2006. Therefore, it has nowhere come over the record that these photographs would lead this Tribunal to conclude that the claimant was an employee of the Nigam.

22. Now ocular testimony of the claimant is left for consideration. He unfolds that he was engaged as a casual labourer on 1-11-1986 under the Sub-Divisional Officer, Kashipur, Department of Tele-Communication, Rudrapur, Nainital. His above testimony is pregnant since two meanings emerge out of it. His engagement under Sub-Divisional Officer, Kashipur nowhere indicate that he was engaged by the Nigam. Engagement by a contractor to perform assigned job in the said sub-division is not ruled out by the aforesaid testimony. It is not disputed that a ban was imposed on recruitment of casual labour since 22-6-1988. Claimant has not been able to show that he was working with the Nigam since November 1986. Under these circumstances one cannot infer veracity out of facts unfolded by the claimant. He would have sought inspection of documents or production of record, relating to the muster roll for the period for which he claims to be an employee of the Nigam. No such evidence was sought to be brought over the record. The officers, who allegedly issued certificates in his favour, would have been brought in the witness box to substantiate the facts that he was an employee of the Nigam. Under these circumstances self serving words deposed by the claimant in his affidavit Ex. WW1/A cannot espouse his cause. On the other hand Shri Lohani and Shri Ganesh Singh dispel facts to the effect that the claimant was ever engaged by the Nigam. The claimant had not produced any evidence to show that at any point of time wages were paid to him by the Nigam. Under these circumstances I am constrained to conclude that the claimant has miserably failed to establish relationship of employee and employer between the parties. The issue is, therefore, answered in favour of the Nigam and against the claimant.

Issue No. 2 :

23. Since the claimant could not establish relationship of employer and employee between the parties, it cannot be said that he worked with the Nigam for last 20 years. One time step for regularization of the employees, who were irregularly appointed and worked for more than 10 years, as commanded by the Apex Court in Uma Devi (supra) is not applicable to the case of the claimant. Under these circumstances, the Nigam cannot be burdened with any liability relating to reinstatement or regularization of services of the claimant. His demand for reinstatement and regularization of service w.e.f. 28-2-2006 in the service of the Nigam is neither valid nor justified. The issue is, therefore, answered in favour of the Nigam and against the claimant.

Relief :

24. Since the claimant was not an employee of the Nigam no case either of reinstatement of his services or regularization is made out. Demand of the claimant for such relief is neither valid nor justified. No relief accrues to the claimant. An award is, accordingly, passed. It be sent to the appropriate Government for publication.

Dated : 28-2-2012 Dr. R. K. YADAV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2012

का.आ. 1628.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जर्नल मैनेजर टेलीकाम एण्ड अदर्स के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या सी.जी.आई.टी.ए. 314/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11-4-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/171/2000-आई आर (डीयू)]
रमेश सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th April, 2012

S.O. 1628.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. CGITA 314/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Ahmedabad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the General Manager Telecom & Others and their workman, which was received by the Central Government on 11-4-2012.

[No. L-40012/171/2000-IR (DU)]
RAMESH SINGH, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, AHMEDABAD

PRESENT :

Binay Kumar Sinha, Presiding Officer
CGIT-cum-Labour Court

Ahmedabad, dated the 21st March, 2012

Reference : CGITA 314 of 2004 New

Reference : ITC 75/2000 (Old)

1. The General Manager,
Telecommunication Department,
Microwave Building, Navarangpura,
Ahmedabad (Gujarat)

2. Assistant Engineer,
Microwave Building,
Ahmedabadi Darwaja,
Nadiad (Gujarat)
 3. Union of India, Through Secretary
Ministry of Telecommunication Department,
Sanchar Bhavan,
New Delhi
- ... First Party

And their workman

Shri Bhalabhai K. Patel,
Varahinagar, Itadara,
Tal-Mansa, Gandhinagar,
C/o Kamdar Hit Rakshak Union,
10, Jiviba Complex, Nr. Kedila Railway Crossing,
Khodasari, Ahmedabad-50.

... Second Party

APPEARANCE:

For the first party Shri N.K. Trivedi, Advocate

For the second party Shri Satyavan N. Adishwar,
working President of Kamdar Hit Rakshak Union

AWARD

An industrial dispute was raised by the second party workman against the management of first parties against his termination w.e.f. 16-5-1997 before the conciliation officer, and failure report of conciliation sent to the Appropriate Government, and then the Appropriate Government/Ministry of Labour & Employment, Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg, New Delhi-110001 by its order No. L-40012/171/2000/IR (DU) dated 7-8-2000 considering an industrial dispute exists between the employer in relation to Telecom Department (Microwave) and their workman, referred the dispute for adjudication under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of sub-section (10) of the ID Act, 1947 by formulating the terms of reference as per schedule which is as follows :

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Deptt. of Telecom in terminating the services of Shri Bahalabhai Keshavlal Patel, Chowkidar w.e.f. 16-5-1997 without following the procedure laid down under I.D. Act is legal and justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled?"

2. Notices to the parties were issued and the parties appeared and filed pleadings-statement of claim and written statement in support of respective cases.

3. The case of the workman as per statement of claim at Ext. 6 is that he was working in the department of Telecom as Chowkidar from the year April-1988 and continued his work as loyal worker up to 15-05-1997 but all of sudden he was terminated w.e.f. 16-5-1997 without any retrenchment

letter or without providing him retrenchment compensation. He was discharging his duty of Chowkidar on getting monthly payment of wages of Rs. 1796.60. Further case is that on 27-9-1996 the first party No. 2 Assistant Engineer of Telecommunication Department, Khara, Nadiad hang a notice on notice board regarding circular of Telecom Department to the effect that the casual labour who are working from 1-4-1985 to 22-6-1988 are required to be made regular and the circular was to the effect that with the casual labourers where continuing their work till 10-4-1996 whose names are mentioned in the muster roll, their service are to be regularized. Further case is that the workman was fulfilling the requirement as per circular but his name is not included in the list for regularisation whereas the casual workers who are juniors to him, their names were included. He made several request with the officer Shri M.M. Sharma, Assistant Engineer for getting his name also included for regularisation of his service, but in spite of repeated request no heed was paid rather the officers of the first party frustrated the attempt of the workman in his empanelment in the list for regularisation whereas names of junior casual workers to him were included. Further case is that since the workman agitated the matter for inclusion of his name for regularisation and that cause annoyance to officer of the first party and so they terminated his service from 16-5-1997 illegally without following principle of natural justice and following provisions of the ID Act and thus the first party has violated the provision of Section 25(F),(G),(H). Further case is that against termination the second party approached the Hon'ble CAT under OA No. 219/1998, subsequently on such advice that it is not within the jurisdiction of the Hon'ble CAT to provide any relief in the industrial dispute then by withdrawal application dated 20-9-1999 and said O.A. case had been withdrawn. Thereafter the workman raised dispute before the conciliation officer and on sending failure report the dispute was referred for adjudication in this tribunal. On these grounds the workman has sought for the reliefs that the verbal order of termination dated 16-5-1997 of the first party is illegal, unjust and improper and that the workman is entitled for his reinstatement with full back wages and other consequential benefits and also for cost of Rs. 5,000/- from the first party and also for any other relief which he is found entitled.

4. The case of the first party management as per its written statement at Ext. 7 inter-alia is that the reference is not maintainable, the workman has got no valid cause of action and the reference is fit to be dismissed. It is the case of the 1st party that the workman was engaged on daily wages from 9-5-1989 to 30-4-1997 at office of Sub-Divisional Engineer, Microwave (Maintenance), Nadiad Microwave Station, Thasara, during the period of leave of the regular employee from time to time on requirement basis. Further case is that there was no longer requirement

for engaging him as daily wager so he was not engaged on daily wages since 30-4-1997. It has been denied that the first party had terminated the services of the second party. More so, the second party engaged as daily wager have had no any legal right of a regular employee as decided by the Hon'ble High Court in a case (State of Himachal V/s Suresh Kumar) ST 1996 (2) Supreme Court page 455. Further case is that the wife of the workman was working as a teacher in Primary School about 100 k.m. away from the place of engagement of the workman and the workman might have been facing difficulties in coming for daily wages work and so he himself left to come for work since 30-4-1997. Further case is that the workman never completed 240 days of work in any calendar year and so there was no requirement for giving notice or retrenchment compensation to the workman under provision of ID Act. It has been denied that the management of first party has violated either the provision of Sections 25(F), 25(G) and 25(H) ID Act. It has also been denied that the workman during his engagement as daily wage was getting monthly wage of Rs. 1760. It has also been denied that there was any circular of the Telecom Department for regularisation of the casual labour/daily wager. It has also been denied that any daily rated/casual worker junior to the concern workman has been regularized and it has also been denied that there had been circular issued from the Telecom Department as claimed by the workman in his statement of claim at para 3. Further It has been only admitted that the concern workman had approached to the CAT under OA No. 219/1998 and that the workman could not get any relief from CAT. On these grounds prayer has been made for rejecting the reference with cost.

5. In view of the pleading of the parties, following issues are framed for consideration and determination.

ISSUES

- (I) Whether the reference is maintainable?
- (II) Has the workman got valid cause of action?
- (III) Whether the workman (Second party) completed 240 days of work in any calendar year preceding his termination w.e.f. 16-5-1997?
- (IV) Whether the action of the management of Department of Telecom (First Party) in terminating the service of the workman Shri Bhalabhai K. Patel w.e.f. 16-5-1997 is legal and justified?
- (V) Whether the second party (Workman) is entitled to the relief of reinstatement with back wages and other consequential benefits?
- (VI) What orders are required in this case?

FINDINGS

6. Point No. III

The workman examined himself in support of his claim as per oral evidence at Ext. 9. He was thoroughly cross-examined by the lawyer of the first party of Telecom. During his examination-in-chief, he claimed that he continuously worked as Chowkidar on monthly wages of Rs. 1760 from 22-4-1988 and a circular regarding regularisation of temporary daily rated worker in regular category and in this regard a notice was hung on the notice board but instead of he being regularised he was terminated from 16-5-1997. During cross-examination by the first party he fairly admitted that there is no any document to prove that he was engaged on work as Chowkidar from April 1988 to 15-5-1997 and he is not possessing any wage slip to prove that he was getting monthly wages of Rs. 1760. He also deposed during cross-examination that he has no any document to prove that he had applied for work in GIDC or in any other department. He has also no document to show that Shri M.M. Sharma was instrumental in getting his services terminated since after 15-5-1998. On the other hand the first party management also examining management witness namely Sirajbhai at Ext. 12 the management witness in his oral evidence, during examination-in-chief has denied the claim of the workman that the workman was in continue work and had completed 240 days of work in every calendar year. He has stated that the workman was engaged for work on requirement basis when the regular workman went on leave. During cross-examination of the management witness the second party workman side could not gain anything to prove the case that the workman completed 240 days of work in every calendar year and also 240 days work preceding to his so called termination w.e.f. 16-5-1997 on behalf the first party documents directed to be filed by the court were filed as per list Ext. 14. Under the list four documents have been filed on behalf of the first party serial no. 1 is statement showing working days of the concern workman. It has been given Pakka Ext. 15. From perusal of Ext. 15 it appears that the concern workman Bhalabhai Keshavlal Patel has worked for 79 days from May-1989 to March-1990 showing Nil days in April 1989, during the calendar year 1990-1991, 9 days in April 24 in May, June Nil days, July- 10, August Nil days, September 11 days, October and November-Nil, December-8 days, January-Nil days, February-13 days and March-5 days total 80 days, in the calendar year 1991-1992 the total working days of the workman was 162 with break up-22 days in April, Nil days in May, 22 days in June, 13 days in July, 22 days in August, Nil days in September, 25 days in October, 20 days November, Nil days in December, 21 days in January. 17 days in February, Nil days in March, in the calendar year 1992-93 workman had worked for 184 days-April Nil days, in May 18 days, in June 18 days, in July-20 days, in August-18 days, in September 18 days, in October 19 days.

in November 18 days, in December 18 days, in January Nil days, in February 18 days, in March-19 days, in the calendar year 1993-1994 total working days was 227 with breakup in April 19 days, in May 19 days, in June 18 days, in July 8 days, in August 20 days, in September 19 days, in October 19 days, in November 19 days, in December 19 days, in January 19 days, in February 18 days, in March 20 days and in the year 1994-1995 his total working days was 231 with breakup in April 19 days, in May 20 days, in June 20 days, July-August-September-October-November-19 days each, in December 20 days, in January-1994, February-1994 and March-1994, 19 days each in the year 1995-1996 he had worked for total 181 days having with breakup April and May 19 days each, June-July 18 days each, August-17 days, September and October 18 days each, November 15 days, December 16 days, January-15 days, February Nil days and March 18 days, in the year 1996-1997 calendar year the workman had worked for 171 days having with breakup April and May-17 days each, June-July-August-September 15 days each, October 16 days, and in November 15 days, in December 16 days, in January-1997, 15 days, February-1997 Nil days and in March-1997, 15 days and in the calendar year 1997-1998 the workman had worked only for 15 days in the month of April-1997. Serial No. 2 in the list marked as Pakka Ext. 16 is the circular showing period for granting of TSM casual labourers of regularisation scheme 1989 engaged in circles after 30-3-1985 up to 22-06-1998. From very perusal of this circular it appears that this circular was not applicable to the workman since he had not been engaged from 30-3-1985 rather as per statement of his work in every calendar year as per Ext. 15 the workman was engaged as daily rated casual worker from May-1989 that go to prove that the workman had been engaged on daily wages after cut of period on 30-3-1985 to 22-06-1988. So in that view of the matter the workman has had no claim for his regularisation in view of the circular Ext. 16 serial No. 3 in the list Ext. 14 is the letter of the BSNL dated 19-4-2001 on the subject regularisation of casual labourers left out cases showing that there had been ban on engagement of casual labourers w.e.f. 22-06-1988 and informing further that action must be taken against the officer responsible for engaging casual labourers in defiance of ban orders. As per Ext. 15 the second party workman was engaged after ban period 22-06-1988 serial No. 4 in the list (Ext. 14) is the letter showing revision of wage rate time to time declared by DOT New Delhi and Mumbai Office. It has been given pakka Ext. 18 on behalf of the first party. The case of the workman is disproved that he had been engaged as daily wager from April 1988 i.e. before the last cut of period of 22-06-1988. On the other hand on behalf of the 2nd party under the list Ext. 19 a self statement of working of the workman Bhalabhai Keshavlal Patel has been filed which has got no evidentiary value because it has not been authenticated by the department of first party, even there is no any signature of the workman on such

statement annexed with the list at Ext. 19. So in comparison to the unsigned statement filed on behalf of the second party workman under a list Ext. 19 with that of the authenticated statement at Ext. 15 having with signature and stamp of the officers SDE Microwave. Ext. 15 has to be relied upon which is also supported by other documents. Ext. 16, 17 and 18 and also corroborated by the oral evidence of the management witness whereas there is no any basis in preparation of unsigned statement and filing the same with list Ext. 19 on behalf of the second party workman. More so, the workman in his evidence during cross-examination has admitted that there is no any document to show that he had been engaged on regular basis and doing chowkidari work regularly and was getting monthly wages of Rs. 1760.

7. On behalf of the first party another management witness namely Manubhai have been examine denying the claim of the workman and supported the case of the first party management he was also thoroughly cross-examined by the representative of the second party and nothing could have been gained to discredit his oral testimony. Further the first party has also produced several documents as per list Ext. 21 showing works of the workman from May-1989 and onward as casual labour at the rate of Rs. 30.75 showing also the names of the other daily wagers as per muster roll of each month that also go to support statement of the per month working days of the concern workman as per Ext. 15.

8. As per case law of the Range Forest Officer and S.T. Hadimani 2002(93) FLR 179 Supreme Court the onus to prove that the workman has worked for more than 240 days is not on management rather the workman has to lead evidence to show that he has worked for 240 days. The onus is upon the second party workman to prove that he worked for 240 days in each calendar year or in the preceding calendar year of his termination is certainly upon the second party workman. But the second party could not have been able to discharge such onus. On the other hand the first party has filed relevant documents supported with oral evidence to disprove the claim of the workman that he ever completed 240 days of work in any calendar year. First party has also relied upon another case law of the Apex Court in case of State of Himachal Pradesh V/s Suresh Kumar Verma reported in AIR 1996 Supreme Court 1965 that appointment on daily wage basis is not appointment to post according to Rules, termination of daily wage employees due to coming to end of project employing the, direction to re-engage them in any other work or appoint them against existing vacancies cannot be given by the court for his engagement. The first party has also relied upon a case law Karnataka Road Transport Corporation and another V/s S.G. Koturappa and another reported in 2005(2) GRL page 59 Supreme Court on the point of Badli workman and his termination that the Badli worker does not acquire any legal right to continue in

service. he is not entitled to protection under I.D. Act nor mandatory requirements of Section 25(F) are required to be complied with. On the other hand on behalf of the second party case law of Novaratis India Ltd. and State of West Bengal and Others reported in 2009(II) LLJ-9(SC) has been filed on the point that so long as workman was not gainfully employed, back wages subject to exception should not be denied has been filed which is not applicable to the case of the workman because as per evidence discussed in the foregoing paragraphs the workman has not completed 240 days of work in any calendar year and so the relief of reinstatement with back wages cannot be granted to the second party workman.

9. As per discussions and consideration made above this issue is decided against the second party workman that he never completed 240 days of work in any calendar year.

10. ISSUE No. V

Since second party workman has not completed 240 days of work preceding to his so called oral termination w.e.f. 16-5-1997, so the workman is not entitled either for his reinstatement as casual labour or for getting any back wages or any consequential benefits. More so, alternative relief for getting any compensation in stead of reinstatement the workman is also not entitled to get any compensation since had not completed 240 days in any calendar year as daily wagers/casual worker so this issue is decided against the workman.

11. ISSUE Nos. I & II

In view of the findings given to issue Nos. III and VI further find and hold that the reference is not maintainable and the workman second party has got no valid cause of action.

12. ISSUE No. IV

In view of the findings to Issue Nos. I, II, III and V this issue is answered in favour of the first party that the action of the management of department of Telecom in terminating the service of the workman w.e.f. 16-5-1997 is legal and just because there was no requirement for engagement of the second party workman as daily wagers since after when the second party has himself left the work.

13. ISSUE No. VI

This reference is dismissed on contest. No Order as to cost.

This is my award.

BINAY KUMAR SINHA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2012

का.आ. 1629.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एच.डी.एफ.सी बैंक लि. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 123/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-4-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/02/2010-आई आर (बी-1)]
रमेश सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 18th April, 2012

S.O. 1629.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 123/2011) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, New Delhi, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of HDFC Bank Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on 18-4-2012.

[No. L-12012/02/2010-IR (B-1)]
RAMESH SINGH, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE DR. R.K. YADAV, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 1,
DELHI

I.D. NO. 123/2011

Shri Dhiraj Kumar Singh,
S/o Sh. D.P. Singh,
R/o GH-6/224, Meera Bagh,
Paschim Vihar,
New Delhi

Claimant

Vs.

1. The Manager,
HDFC Bank Ltd.,
A-337, Meera Bagh,
Paschim Vihar,
New Delhi-110063
2. The Regional Sales Manager,
HDFC Bank Ltd.,
M-39, Connaught Place,
New Delhi

Management

AWARD

1. A contractual employee joined services with HDFC Bank Ltd. (in short bank) on 19-7-2008. He was appointed for a period of two years, with a right in favour of the bank to terminate his employment in between without any

previous notice or payment in lieu of notice. His services were terminated on 21-11-2008, in terms of the contract of employment. Aggrieved by the order of termination, he raised an industrial dispute before the Conciliation Officer. Since conciliation proceedings failed, the appropriate government referred the dispute to this Tribunal for adjudication, vide order No. L-12012/02/2010-IR(B-1), New Delhi dated 8-3-2011, with following terms :—

“Whether the action of the Management of HDFC Bank Ltd., in terminating the services of Shri Dhiraj Kumar son of Shri D.P. Singh, Ex-Sales Executive with effect from 21-11-2008 before completion of period of contract and without fulfilling the term of the contract is legal and justified? To what relief is the workman entitled?”

2. Claim statement was filed by Shri Dhiraj Kumar pleading therein that he was engaged by the bank on 19-7-2008 for a period of two years on contract basis. He was given employee card No. CD-10576. His designation was Sales Executive though he was working as a field worker. As per the direction of the bank, he used to meet people and educate them as to how they can open an account, besides persuading them for opening an account with the bank and to settle their grievances. He was working honestly and diligently. His senior, namely, Shri Raman Kumar used to project work performed by him in his own work target and grab his incentive. When he objected to the said designs, his services were abruptly dispensed with by the bank on 21-11-2008. According to him, termination of his services is illegal. He claims reinstatement in service of the bank with full back wages and consequential benefits.

3. Claim was demurred by the bank pleading that the claimant was engaged for a fixed term of two years on contract. He was not a workman, pleads the bank. He was a Sales Executive and responsible for promotion of banking business. As per terms of his contract his services could be dispensed with in between without assigning any reason. The claimant forged signatures of a customer and opened an account with the bank. The customer made a complaint in that regard. Taking into account all these facts the bank opted to dispense with his services in terms of the contract agreement. The bank was within its right and the claimant is not entitled to relief of reinstatement, as claimed by him.

4. On pleadings of the parties the following issues were settled :—

1. Whether termination of services of the claimant does not amount to retrenchment within the meaning of definition of the word “retrenchment” as defined in section 2(oo) of the Industrial Disputes Act ? if yes, its effect ?
2. As in terms of reference ?
3. Relief.

5. Claimant has examined himself in support of his claim and closed his evidence. The bank opted not to examine any witness in support of its defense.

6. Arguments were heard at the bar. Shri Vijender Kumar, authorized representative, advanced arguments on behalf of the claimant. Shri Parminder Kumar Sharma, authorized representative, presented facts on behalf of the bank. I have given my careful consideration to the arguments advanced at the bar and cautiously perused the record. My findings on issues involved in the controversy are as follows :—

ISSUE No. 1

7. Shri Dhiraj Kumar unfolds that in July, 2008 he joined bank as ‘Team Leader’. As a Team Leader he used to tell potential customers as to what were benefits of opening an account with the bank. He used to persuade them to open an account and thereafter present his report to his officer. The bank had given him status of an Officer. There were 8-10 members of his team whom he used to dispute on job in field. He was employed on contract for a period of two years. Copy of the Contract is Ex. WW1/1.

8. He asserts that on 21-11-2008 the bank told him not to come on job. His target business was added by Shri Raman Kumar in his own account. He raised an objection. Shri Raman Kumar felt annoyed. He stopped him from reporting to his duties. On 22-11-2008 he sent a letter to the bank, copy of which is Ex. WW1/2. Legal notice was sent, copy of which is Ex. WW1/4. No. action was initiated by the bank on his demand letter as well as legal notice. During the course of his cross-examination he concedes that he used to take work from his team members. He used to advise potential customers to open account with the bank. He concedes that Shri R.K. Gupta, lodged a complaint with the bank. He further concedes that he used to take job from his subordinates, who used to follow his instructions.

9. The claimant deposes that he was Team Leader. There were 8-10 members of his team, whom he used to depute for job. He admits that he used to take work from the members of his team. His subordinates used to follow his instructions. Besides above duties, he used to advise the customers to open accounts and used to get accounts opened with the bank. There was a target of 30-35 accounts which he used to get opened with the bank in a month. Out of the above facts, it emerges that the claimant used to perform some supervisory duties, besides doing some manual and clerical jobs. Mere performing some supervisory duties will not take him out of the definition of workman. Law to this effect was laid by the Apex Court in Arkal Govind Raj Rao [1985(2) LLJ. 401].

10. As emerged out of the facts unfolded by Shri Dhiraj Kumar, he was appointed with the bank in July, 2008 for period of two years on contract basis. Contract

agreement proved by him is Ex. WW1/1. Ex. WW1/1 projects that it is a fixed term contract of service. It is detailed therein that on expiry of 2 years from the date of commencement of contract services of the claimant would automatically come to an end without any further act of the bank. It is also provided that notwithstanding the provisions relating to the term of his contract of 2 years, in the event of any willful or continued neglect by the claimant towards his duties, or there is commission of serious misconduct or any breach of contract on his part, the bank had reserved a right to terminate his employment forthwith and without previous notice or payment in lieu of notice to the claimant, who would be bound by such a decision and shall not question the same. The terms of contract contained in Ex. WW1/1 highlight that the bank had reserved a right to terminate the services of the claimant on commission of a misconduct or any breach of the contract without any previous notice to him.

11. The claimant admits in his testimony that Shri R.K. Gupta made complaint against him in the bank. He project that he has suggested to Shri Gupta to open an account in the name of his minor daughter. According to him, he told him that for opening of that account he has to sign as guardian of the account holder. He concedes that an account of daughter of Shri Gupta was opened in the bank. He has not ascertained that Shri Gupta had signed the account opening form. He admits that it was his duty to ascertain that Shri Gupta had signed the account opening form. According to him Shri Gupta had lodged a complaint in that regard against him with the bank. As projected by the bank, signatures of Shri Gupta were forged by the claimant, that is why the former made a complaint against the latter. Admission by the claimant that Shri Gupta made a complaint against him bring it over the record that the claimant committed illegality in opening an account in the name of minor daughter of Shri R.K. Gupta. It was a misconduct committed by the claimant and the bank invoked the terms of agreement Ex. WW1/1 and dispensed with the services of the claimant. In complaint Ex. WW1/1 Shri Gupta has highlighted as to how an account in the name of Ritika Gupta was opened with the bank by forging his signatures. Thus it is evident that the claimant committed a misconduct which persuaded the bank to use stipulation contained in the contract of employment and dispense with his services.

12. Whether termination of services of the claimant amounts to retrenchment? For an answer, definition of the term is to be construed. Clause (oo) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (in short the Act) defines retrenchment. For sake of convenience, the said definition is as extracted thus :

“(oo)” “retrenchment” means the termination by the employer of the services of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as a

punishment inflicted by way of disciplinary action, but does not include—

- (a) voluntary retirement of the workman; or
- (b) retirement of the workman on reaching the age of superannuation if the contract of employment between the employer and the workman concerned contains a stipulation in that behalf; or
- (bb) termination of the services of the workman as a result of the non-renewal of the contract of employment between the employer and the workman concerned on its expiry or of such contract being terminated under a stipulation in that behalf contained therein; or
- (c) termination of the services of a workman on the ground of continued ill-health.”

13. Definition of retrenchment is very wide and in two parts. The first part is exhaustive, which lays down that retrenchment means the termination of the service of a workman by the employer “for any reason whatsoever” otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action. Thus main part of the definition itself excludes the termination of service, as a measure of punishment inflicted by way of disciplinary action from the ambit of retrenchment. The second part further excludes (i) voluntary retirement of the workman, or (ii) retirement of workman on reaching the age of superannuation, or (iii) termination of the service of a workman as a result of non-renewal of contract of employment, or (iv) termination of contract of employment in terms of a stipulation contained in the contract of employment in that behalf, or (v) termination of service on the ground of continued ill health of the workman. Reference can be made to the precedents in *Avon Services (Production Agencies) Pvt. Ltd.* [1979 (I) LLJ 1] and *Mahabir* [1979 (II) LLJ 363].

14. Sub-clause (bb) purports to exclude from the ambit of the definition of retrenchment (i) termination of the service of a workman as a result of non-renewal of the contract of employment between the employer and the workman concerned, on its expiry, or (ii) termination of the contract of employment in terms of a stipulation contained in the contract of employment in that behalf. The first part relates to termination of service of a workman as a result of non-renewal of the contract of employment between the employer and the workman concerned on its expiry. Thus “non-renewal of contract of employment” presupposes an existing contract of employment, which is not renewed. When services of an employee is terminated on account of non-renewal of contract of employment, between the employer and the workman, it does not amount to retrenchment. The second part refers to “such contract”

being terminated under a stipulation in that behalf contained therein. The cases contemplated, under this part too, would not amount to retrenchment. However, this sub-clause, being in the nature of an exception to clause (oo) of Section 2 of the Act, is ruled to be construed strictly when contractual agreement is used as *modus operandi* to frustrate claim of the employee to become regular or permanent against a job. The adjudicator has to address himself to the question whether the period of employment was stipulated in the contract of employment as a device to escape the applicability of the definition of retrenchment. See Shailendra Nath Shukla (1987 Lab. I.C. 1607), Dilip Hanumantrao Shrike [1990 Lab I.C. 100] and Balbir Singh [1990 (1) LLJ. 443]. On review of law laid by the Apex Court and various High Courts, a single Judge of Madhya Pradesh High Court, in Madhya Pradesh Bank Karamchari Sangh (1996 Lab. I.C. 1161) has laid following principles of interpretation and application of sub-clause (bb) of clause (oo) of Section 2 of the Act :

- “(i) that the provisions of section 2(oo)(bb) are to be construed benevolently in favour of the workman;
- (ii) that if the workman is allowed to continue in service by making periodic appointments from time to time, then it can be said that the case would not fall under Section 2(oo)(bb);
- (iii) that the provisions of Section 2(oo)(bb) are not to be interpreted in the manner which may stifle the main provision;
- (iv) that if the workman continues in service, the non-renewal of the contract can be deemed as *mala fide* and it may amount to be a fraud on statute;
- (v) that there would be wrong presumption of non-applicability of Section 2(oo)(bb) where the work is of continuous nature and there is nothing on record that the work for which a workman has been appointed had come to an end.”

15. Whether provisions of retrenchment, enacted in the Act, provide for any security of tenure? Answer lies in negative. Provisions of retrenchment provide for certain benefits to a workman in case of termination of his service, falling within the ambit of definition of retrenchment. On compliance of the requirements of Section 25F or 25N and 25G of the Act, it is open to the employer to retrench a workman.

16. Termination of service of an employee during the period of probation was held to be covered by the exception contained in sub-clause (bb) of Section 2(oo) of

the Act, in C.M. Venugopal [1994(1) LLJ 597]. As per fact of the case, Regulation 14 of the Life Insurance Corporation of India (Staff) Regulation, 1962 empowered the Corporation to terminate the service of employee within the period of probation. The employee was put on probation for a period of one year, which was extended by another year. Since he could not achieve the target to earn confirmation, his service was terminated in terms of Regulation 14 as well as order of appointment. The Apex Court ruled that the case was covered by the exception contained in sub-clause (bb), hence it was not retrenchment.

17. In Morinda Co-operative Sugar Mills Ltd. (1996 Lab. I.C. 221) a sugar factory used to employ certain number of workmen during crushing season and at the end to the crushing season their employment used to cease. The Supreme Court held that despite the fact that the workmen worked for more than 240 days in a year, cessation of their employment at the end of crushing season would not amount to retrenchment in view of the provisions of sub-clause (bb) of Section 2(oo) of the Act. It was observed as follows :

“4. It would thus be clear that the respondents were not working throughout the season. They worked during crushing seasons only. The respondents were taken into work for the season and consequent to closure of the season, they ceased to work.

5. The question is whether such a cessation would amount to retrenchment. Since it is only a seasonal work, the respondents cannot be said to have been retrenched in view of what is stated in sub-clause (bb) of Section 2(oo) of the Act. Under these circumstances, we are of the opinion that the view taken by the Labour Court and the High Court is illegal. However, the appellant is directed to maintain a register for all workmen engaged during the seasons enumerated herein before and when the new season starts the appellant should make a publication in neighbouring places in which the respondents normally live and if they would report for duty, the appellant would engage them in accordance with seniority and exigency of work”.

18. Above legal position was reiterated by the Apex Court in Anil Bapurao Kanase [1997(10) S.C.C. 599] wherein it was noted as follows :

“3. The learned counsel for the appellant contends that the judgment of the High Court of Bombay relied on in the impugned order dated 28-3-1995 in Writ Petition No. 488 of 1994 is perhaps not applicable. Since the appellant has worked for more than 180 days, he is to be treated as retrenched employee and if the procedure contemplated under Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 is

applied, his retrenchment is illegal. We find no force in this contention. In *Morinda Coop. Sugar Mills Ltd. v. Ram Kishan* in para 3, this Court has dealt with engagement of the seasonal workman in sugarcane crushing, in para 4, it is stated that it was not a case of retrenchment of the workman, but of closure of the factory after the crushing season was over. Accordingly, in para 5, it was held that it is not 'retrenchment' within the meaning of Section 2(oo) of the Act. As a consequence the appellant is not entitled to retrenchment as per sub-clause (bb) of Section 2(oo) of the Act. Since the present work is seasonal business, the principles of the Act have no application. However, this Court has directed that the respondent management should maintain a register and engage the workmen when the season starts in the succeeding years in the order of seniority. Until all the employees whose names appear in the list are engaged in addition to the employees who are already working, the management should not go in for fresh engagement of new workmen. It would be incumbent upon the respondent management to adopt such procedure as is enumerated above."

19. In *Harmohinder Singh* [2001(5) S.C.C. 540] an employee was appointed as a salesman by Kharga canteen on 1-6-74 and subsequently as a cashier on 9-8-75. The letter of appointment and Standing Orders, inter alia, provided that his service could be terminated one month's notice by either party. He was served with a notice to the effect that his service would be relinquished with effect from 30-6-1989. Relying precedent in *Uptron India Ltd.* [1998(6) S.C.C. 538] the Apex Court ruled that contract of service of a fixed term are excluded from the ambit of retrenchment. Decision in *Balbir Singh* (supra) was held to be erroneous. It was also ruled that principles of natural justice are not applicable where termination takes place on expiry of contract of service.

20. In *Batala Coop. Sugar Mills Ltd.* [2005(8) S.C.C. 481] an employee was engaged on casual basis on daily wages for specific work and for a specific period. He was engaged on 1-4-1986 and worked upto 12-2-94. The Labour Court concluded that termination of his services was violative of provisions of Section 25-F of the Act, hence ordered for his reinstatement with 50% back wages. Relying precedents in *Morinda Coop. Sugar Mills* (supra) and *Anil Bapurao Kanase* (supra) the Apex Court ruled that since his engagement was for a specific period and specific work, relief granted to him by the Labour Court cannot be maintained.

21. The Apex Court dealt with such a situation again in *Darbara Singh* (2006 LLR 68) wherein an employee was appointed by the Punjab State Electricity Board as peon on daily wage basis from 8-1-88 to 29-2-88. His services

were extend from time to time and finally dispensed with in June, 1989. The Supreme Court ruled that engagement of *Darbara Singh* was for a specific period and conditional. His termination did not amount to retrenchment. His case was found to be covered under exception contained in sub-clause (bb) of Section 2(oo) of the Act. In *Kishore Chand Samal* (2006 LLR 65), same view was maintained by the Apex Court. It was ruled therein that the precedent in *S.M. Nilajkar* [2003 (II) LLJ 359] has no application to the controversy since it was ruled therein that mere mention about the engagement being temporary without indication of any period attracts section 25F of the Act if it is proved that the concerned workman had worked continuously for more than 240 days. Case of *Darbara Singh* and *Kishan Chand Samal* were found to be relating to fixed term of appointment.

In *BSES Yamuna Power Ltd.* (2006 LLR 1144) *Rakesh Kumar* was appointed as Copyist on 29-9-89, initially for a period of three months as a daily wage. His term of appointment was extended upto 20-9-90. No further extension was given and his services were dispensed with on 20-9-90. On consideration of facts and law High Court of Delhi has observed thus :

"...In the present case, the respondent was appointed as a Copyist for totaling the accounts of ledger for the year 1986-87 and then for 1987-88. His initial appointment was for the period of three months. It was extended from time to time and no extension was given after 20th September, 1990. He was appointed without any regular process of appointment, purely casual and on temporary basis for specific work of totaling of ledger. When this work was over, no extension was given. I consider that appointment as that of the respondent is squarely covered under Section 2(oo)(bb) of the Act. Giving of non-extension did not amount to termination of service, it was not a case of retrenchment."

23. Precedents, handed down by Allahabad High Court in *Shailendra Nath Shukla* (supra), Bombay High Court in *Dilip Hanumantrao Shirke* (supra), Punjab & Haryana High Court in *Balbir Singh* (supra) and Madhya Pradesh High Court in *Madhya Pradesh Bank Karamchhari Sangh* (supra) castrate sub-clause (bb) of Section 2(oo) of the Act. Ratio decided in these precedents abrogates statutory provisions of sub-clause (bb) of Section 2(oo) of the Act without even discussing the legality or constitutional validity of the clause. On the other hand the Apex Court in *C.M. Venugopal* (supra), *Morinda Co-operative Sugar Mills Ltd.* (supra), *Anil Bapurao Kanase* (supra), *Harmohinder Singh* (supra), *Batala Coop. Sugar Mills Ltd.* (supra), *Darbara Singh* (supra) and *Kishore Chand Samal* (supra) and High Court of Delhi in *BSES Yamuna Power Ltd.* (supra) spoke that case of an employee,

appointed for a specific period which was extended from time to time, would be covered by the exception contained in sub-clause (bb) of Section 2(oo) of the Act, in case his services are dispensed with as a result of non-renewal of the contract of employment between him and his employer, on its expiry or termination of the contract of employment in terms of a stipulation contained in the contract of employment in that behalf. The law, so laid, holds the water and would be applied to the case of the claimant.

24. Complaint Ex. WW1/1 made by Shri R.K. Gupta against the claimant highlights that the latter had forged the signatures of the former and got an account opened with the bank in the name of Ritika Gupta, minor daughter of the complainant. In that complaint Shri Gupta further highlights that the complainant confessed before him to the effect that he made his own signatures on the account opening form for Shri Gupta. The contents of Ex. WW1/1 were not disputed by claimant. Therefore, it emerges over the record that the claimant had forged signatures of Shri R.K. Gupta and got an account opened in the name of the minor daughter of the latter. Forgery of signatures of account holder is a serious misconduct. Terms of stipulation contained in Ex. WW1/1 gives a right in favour of the bank to dispense with the services of the claimant. The bank projects that by using the stipulation, so contained in Ex. WW1/1, services of the claimant were dispensed with. When the bank could dispense with the services of the complainant in between the contract period, it does not lie in the mouth of the claimant to assert that the bank ought to have allowed him to render the services for whole of the contract period. Termination of services of the claimant in pursuance of stipulation contained in the contract of agreement pushes act of the bank out of sub-clause (bb) of clause (oo) of the Act. Action of the bank does not amount to retrenchment within the meaning of clause (oo) of Section 2 of the Act.

25. When act of terminating the service of the complainant does not amount to retrenchment, the claimant is not entitled for protection of Section 25F of the Act. The bank was not under an obligation to serve a notice or make payment in lieu of notice period. In view of these facts it is clear that the claimant has not been able to establish that the termination of his service amounts to retrenchment, which entitles him for protection of Section 25F of the Act. The issue is, therefore, answered in favour of the bank and against the claimant.

Issue Nos. 2 & 3

26. Since the bank terminated the services of the claimant before completion of period of contract, in pursuance of stipulation contained in contract agreement Ex. WW1/1, its action is legal and justified. The claimant does not have any right to serve the bank till expiry of the contract period. His claim, that the bank ought to have allowed him to serve till the expiry of period of 2 years, is

unfounded. He is not entitled to any relief. The aforesaid issues are answered in favour of the bank and against the claimant. In view of these reasons, discarding the claim put forward by the claimant, an award is passed. It be sent to the appropriate Government for publication.

Dr. R. K. YADAV, Presiding Officer

Dated : 19-3-2012

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2012

क्र.आ. 1630.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दिल्ली के प्रबंधन के संबंध नियोक्तों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय नं. 1, दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 286/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-3-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-11011/2/2009-आई आर (एम)]

जोहन तोपनो, अवर सचिव

New Delhi, the 18th April, 2012

S.O. 1630.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 286/2011) of the Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Delhi now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Airports Authority of India (Delhi) and their workman which was received by the Central Government on 20-3-2012.

[No. L-11011/2/2009-IR (M)]

JOHAN TOPNO, Under Secy.

ANNEXURE

**BEFORE DR. R. K. YADAV, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL
NO. 1, DELHI**

I.D. No. 286/2011

The All India President,
Airports Authority of India Mazdoor Sangh,
Flat No. 166, DDA SFS Flats,
Pocket-II, Sector-1, Dwarka,
New Delhi-110075.

... Applicants

Versus

1. The Chairman,
Airports Authority of India,
Rajiv Gandhi Bhawan,
Safdarjung Airport,
New Delhi-110003.

2. The Regional Executive Director,
Airports Authority of India,
Northern Region, Operational Offices,
Gurgaon Road,
New Delhi-110037.

... Management

AWARD

1. Airport Authority of India Mazdoor Sangh (hereinafter referred to as Union) raised dispute before Regional Labour Commissioner (Central), New Delhi, relating to relaxation in qualification and trade test in filling up vacancies on seniority basis as incorporated in Recruitment and Promotion Rules and Memorandum of Understanding in workmen cadre of Airport Authority of India (hereinafter referred to as the Authority). Since conciliation proceedings failed, the appropriate Government referred the dispute to Central Government Industrial Tribunal No. II, New Delhi, vide order No. L-11011/8/2008-IR(M) dated 15-4-2009 on the following terms of reference :

“Whether the demand of the Union regarding relaxation in qualification, trade test while filling up the vacancies on seniority basis as incorporated in Recruitment and Promotion Rules and Memorandum of Understanding is just and legal ? What relief is Union entitled to and from which date ?

2. The Union raised another dispute before Regional Labour Commissioner (Central), New Delhi, in respect of restoration of pay scale of Rs. 3450-6100 in favour of Shri Harinder Tiwari with effect from 1-5-1997. Conciliation proceedings also failed relating to that dispute. On consideration of the failure report the appropriate Government referred that dispute to Central Government, Industrial Tribunal-II, New Delhi, vide order No. L-110011/II/2009-IR(M) dated 1-10-2009 with following terms”—

“Whether demand of the Airport Authority of India Mazdoor Sangh to restore pay scale of Rs. 3450-6100(PR) (Rs. 8000-16340 revised) granted to Shri H. Tiwari from 1-5-1997 and grant him and all others Equipment Mechanic, Northern Region, pay scale of E-II from 1-5-2003 in accordance with the instructions contained in CHQ order No. 6011/27/2004-IR dated 14-10-2004 is justified? What relief the concerned employees are entitled to ?”

3. During pendency of the adjudication of the aforesaid disputes before Central Government Industrial Tribunal No. II, New Delhi, the appropriate Government in exercise of its powers contained in Section 33-B of the Industrial Disputes Act, 1947 (in short the Act) transferred the aforesaid disputes to this Tribunal vide order No. Z-22019/6/2007-IR(C-II) New Delhi, dated 30-03-2011 for adjudication.

4. The Union is represented by its General Secretary, namely, Shri Harinder Tiwari in the aforesaid disputes

before this Tribunal. Shri Harinder Tiwari was deployed by the Authority in shift duties. From 2-8-2011 he was ordered to report in general duty, since necessary corrections were made in duty roster by Shri V.S. Sharma, Assistant Manager of the Authority. In general duty Shri Tiwari cannot claim night allowance, for he is not supposed to perform night duties. The Union made a representation, calling upon the Authority not to make any change in conditions of service of Shri Tiwari, during the pendency of the aforesaid disputes before this Tribunal. Change in service conditions of Shri Tiwari is in violation of the provisions of Section 33 of the Act, claims the Union. A complaint under Section 33-A of the Act was moved by the Union before this Tribunal, which has been registered as an industrial dispute. A claim has been made requesting the Tribunal to pass an order for grant of special leave to Shri Tiwari for attending the adjudication proceedings or any other appropriate order in the matter.

5. The Authority made demurrals claiming that grievance of Shri Harinder Tiwari has been raised in the present dispute and the Union is not a necessary party to it. It has been asserted that Union is neither registered nor recognized the Authority. Shri Tiwari is not the authorized representative of the Union, claims the Authority. Shri Tiwari was working in the Shift duty. With effect from 2-8-2011 Shri Tiwari was switched to general duty and Shri P.S. Arora was placed in shift duty with effect from 1-8-2011, on requirement basis. It has been so done due to operational requirement of the Authority. It has been denied that the act of the Authority is in violation of item 4 and 6 of the Fourth Schedule appended to the Act. Vehement denial has been made to the proposition that service conditions applicable to Shri Tiwari has been changed. Under these circumstances there was no obligation on the Authority to seek permission from the Tribunal. Representation made by Shri Tiwari was devoid of merits. It has been claimed that the dispute raised is liable to be dismissed, being devoid of merits.

6. On pleadings of the parties following issues were settled :

1. Whether the conditions of service of Shri Harinder Tiwari changed by the management are connected with the dispute which pends adjudication before this Tribunal? If, yes, its effect ?

2. Relief.

7. Shri Harinder Tiwari was examined on behalf of the Union. Smt. Anil Singh, Assistant Manager (Human Resource), was examined on behalf of the Authority. No other witness was examined by either of the parties.

8. Arguments were heard at the bar. Shri Harinder Tiwari, authorized representative, raised arguments on behalf of the Union. Shri L.B. Rai, authorized representative,

presented facts on behalf of the Authority. Written submissions were also filed by Shri Tiwari on behalf of the Union. I have given my careful considerations to the arguments advanced at the bar and cautiously perused the record. My findings on the issues involved in the controversy are as follows :

ISSUE No. 1

9. To discharge onus resting on the Union, Shri Harinder Tiwari tendered his affidavit Ex. WW1/A. In his affidavit, facts relating to pendency of two Industrial disputes (referred to in preceding sections) are detailed. Shri Tiwari asserts that he represents the Union in the aforesaid two disputes. He was deployed by the Authority in shift duty and was discharging his responsibility to the best of his knowledge and capacity. No complaint was ever entertained by the Authority in respect of his work. Without adhering to the provisions of the Act, he was transferred to general duties in A.M.S.S. Unit. He has relied upon copies of roasters to show that he was performing night shift duties when he was transferred to general shift duties. A change was made in duty roaster in that regard which was an unfair labour practice. His conditions of service were altered, as prescribed in Fourth Schedule appended to the Act, without complying mandatory provisions of Section 9-A of the Act. Being General Secretary of the Union he is a protected workman within the meaning of sub-section (4) of Section 33 of the Act, whose service conditions can be altered only in accordance with sub-Section(3) of the aforesaid section. While performing night duties he was entitled to Rs. 180.00 per night as allowance, which he lost on being transferred to general duties. Approval was to be obtained by the Authority from the Tribunal. During the course of cross-examination, he concedes that in the present controversy grievances involved relate to him only. He concedes that despite change from shift to general duties he has to perform duties in the same premises. According to him, the Authority has a right to obtain his services at any of its Office.

10. Smt. Anil Singh swears in her affidavit Ex. MW-1/A that Shri Harinder Tiwari was put to general duty on account of requirement basis. This decision was taken by the Unit In-charge where Shri Tiwari was posted. No employee can claim any particular duty as a matter of right.

11. When facts testified by rival parties are appreciated, it emerge over the record that Shri Harinder Tiwari was performing night shift duties, without any change in his office premises, he was put to general duties. When he was not required to attend to his office during night hours, he was not entitled to any night allowance. While performing night shift duties, Shri Tiwari used to get night allowance at the rate of Rs. 180.00 per night. On account of change of roaster, Shri Tiwari is performing general duties and not paid night allowance. Shri Tiwari no

where disputes that an employer has a right to obtain services of its employee at any place/office. Question for consideration is as to whether change in roaster amounts to alteration or discontinuance of shift working within the meaning of item 6 of Fourth Schedule, appended to the Act? Expression "conditions of service" is an expression of wide import. Conditions of service means all those conditions which regulate the holding of a post by a person right from the time of his appointment till his retirement and even beyond it in the matters like pension etc. The judicial pronouncements include "termination of service" within the conditions of service of an employee. There was no provision in repealed Trade Disputes Act, 1929 or in the Act providing for notice of change in conditions of service applicable to workman. As a result of persistent demand Section 9-A and 9-B of the Act, besides Fourth Schedule were introduced in the Statute book. Introduction of Section 9-A prevents unilateral action on the part of the employer in changing conditions of service as to the prejudice of the workmen. The real purpose of the aforesaid provision is "to afford an opportunity to the workmen to consider the effect of the proposed change, if necessary, to present their point of view on the proposal" and such consideration would further serve to stimulate a feeling of consent of joint interest of the management and workmen in the industrial progress and increase productivity.

12. Section 33 of the Act ensures fair and satisfactory enquiry pending adjudication proceedings by way of providing a safeguard against victimization of the workman concerned or to prevent unfair labour practice on the part of the employer at that stage. A ban, subject to certain conditions, has been imposed on ordinary rights of the employer to alter terms of his employee's services to their prejudice or to terminate their services under the general law governing contract of employment. Section 33-A of the Act provides for relief against contravention of section 33 by way of adjudication of the complaint made by aggrieved workman, considering such complaint as disputes referred or pending in accordance with the provisions of the Act. Ban, so imposed, is not to restrict interference of general rights and liabilities of the party under the ordinary law within the limits truly necessary in accomplishing the above object. The employer is accordingly, left free to deal with the employees when the action concerned is not punitive or mala fide or does not amount to victimization or unfair labor practice.

13. The Fourth Schedule appended to the Act enumerates conditions of service for change of which notice is to be given. Item 4 of the said Schedule speaks in respect of change of hours of work and rest intervals, while item 6 deals with starting, alterations or discontinuance of shift working otherwise than in accordance of shift working, if it is otherwise than in accordance the Standing Orders. Starting, alterations discontinuance of shift working are matters in respect of which notice is mandatory. Therefore,

when an employer wants to alter or discontinue shift working of its employees, he is required to follow the provisions of Section 9-A of the Act. Word "start" means "to begin" or "cause to begin something, come or cause to come into being or operation" word "alteration" would denote change or modification of the existing situation, while "discontinuance" would mean to come or bring to an end. Therefore, when shift working is put in operation, altered or discontinued a notice as required by Section 9-A of the Act, is to be served. For application of provisions of section 9-A of the Act, there should be change in the conditions of service, as enumerated in the Fourth Schedule appended to the Act.

14. As projected by Shri Harinder Tiwari, a roaster of duty was in operation. According to the roaster, the Authority puts its employees in shift duties or general duties. By putting Shri Tiwari in general duty, the Authority had neither started shift working nor altered the shifts nor discontinued such working. Roaster will put its employees to shift duty as well as general duties. Therefore, by way of change of roaster, whereby Shri Tiwari has been put to general duties, the Authority had not done any change in respect of conditions of service as enumerated under item 6 of Fourth Schedule, appended to the Act. No notice, as contemplated by Section 9-A of the Act, was required to be served.

15. As stated above, Section 33 of the Act bars alterations in conditions of service, prejudicial to the workman concerned in the dispute and disciplinary punishment of discharge or dismissal when either is connected with pendente lite industrial dispute "save with permission of the authorities before which the proceedings are pending" or whether discharge or dismissal is for any misconduct not connected with the pendente lite industrial dispute without the "approval" of such authority. Sub-section (1) requires the employer to take "express permission in writing" of the authority before which the proceeding is pending before altering the conditions of service of the workman to his prejudice in regard to any matter connected with the dispute or for discharging or punishing him by dismissal or otherwise for any misconduct connected with the dispute. But under Sub-section (2), the employer may alter conditions of service of the workman concerned in the pending dispute in regard to "any matter not connected with the dispute". However, for discharging or punishing such workman for any misconduct not connected with the pending dispute, the employer has to comply with the provisions of Sub-section (2) and then obtain "approval of the authority". Thus the ban of Sub-sections (1) and (2) is only in regard to the action proposed to be taken or already taken for an act of misconduct whether connected or un-connected with the dispute. The employer is, therefore, free to take action against his workman if it is not based on any misconduct

on their part. Reference can be made to the precedent in V.A. Rebellow [1972(I) LLJ 501].

16. As referred above, in either of the dispute pending adjudication before this Tribunal questions relating to start, alteration or discontinuance of shift working of the workmen are not to be adjudicated. It is obvious that change of roaster in respect of Shri Harinder Tiwari to general duties is neither connected with the disputes pending adjudication before this Tribunal nor it alters his service conditions to his prejudice. As conceded by Shri Tiwari, an employer has a right to obtain services of his employee at any of his offices. The Authority had put Shri Tiwari to general duty without change of his service conditions. Shri Tiwari has no right to work only in night shift duty. Further more, night duty allowance does not form part of the wages as defined by clause (rr) of Section 2 of the Act. Wages has been defined by the aforesaid clause as follows :—

"(rr) "wages" means all remuneration capable of being expressed in terms of money, which would, if the terms of employment, expressed or implied, were fulfilled, be payable to a workman in respect of his employment or of work done in such employment, and includes—

- (i) such allowances (including dearness allowance) as the workman is for the time being entitled to;
- (ii) the value of any house accommodation, or of supply of light, water, medical attendance or other amenity or of any service or of any concessional supply of foodgrains or other articles;
- (iii) any travelling concession;
- (iv) any commission payable on the promotion of sales or business or both; but does not include—
 - (a) any bonus;
 - (b) any contribution paid or payable by the employer to any pension fund or provident fund or for the benefit of the workman under any law for the time being in force;
 - (c) any gratuity payable on the termination of his service;

17. Whether night duty allowance forms part of wages? As referred above, the Legislature has defined the term "wages" in a very broad sense. Various allowances forms part of the wages. In order to decide whether night duty allowance can be termed as wages, it is necessary to refer to the nature of the allowance so paid. The scheme of the Act makes it apparent that this allowance is based upon performance of a night duty of Shri Tiwari. The

employees who do not perform night duty are not entitled to such an allowance. An employee does not have a right to claim to perform duty in a night shift. Therefore, it is apparent that performance of night duty is not a right and depends upon requirements of operations by the Authority. The Authority may require an employee to perform night duty and ask other to perform general duty. Night shift allowance is a compensation for performance of night duty and is not a part of his wages. Consequently it emerges that Shri Harinder Tiwari does not enjoy a right to perform night shift duty and to earn night shift allowance.

18. By change of roster, Shri Tiwari was asked to perform general duties in the same premises where he was performing night shift duty. His conditions of service were not at all altered. It cannot be said that performance of night shift duties by Shri Tiwari was connected with the disputes pending adjudication before this Tribunal. The Authority was free to make changes in the roster in respect of its employees. Such change would neither attract provisions of items 4 or 6 of the Fourth Schedule, requiring applicability of Section 9-A and Section 33 of the Act. In view of these reasons it is concluded that provisions of Section 33 of the Act are not at all attracted. The Authority has not changed conditions of service of Shri Harinder Tiwari connected with the disputes which pend adjudication before this Tribunal. The issue is, therefore, answered in favour of the Authority and against the Union.

Issue No. 2

19. Since provisions of Section 33 of the Act are not attracted, no right accrues in favour of the Union to invoke jurisdiction of this Tribunal, as contemplated by Section 33-A of the Act. Dispute referred by the Union is incompetent and liable to be discarded. Consequently, the dispute is brushed aside. An award is, accordingly, passed. It be sent to the appropriate Government for publication.

Dr. R.K. YADAV, Presiding Officer

Dated : 29-02-2012

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2012

का.आ. 1631.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ए.एस.आई. के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 12/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-4-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/186/2001-आई आर (सीएम-II)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th April, 2012

S.O. 1631.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 12/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Archaeological Survey of India, and their workman which was received by the Central Government on 19-4-2012.

[No. L-42012/186/2001-IR (CM-II)]

D. S. S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRIRAM PARKASH, HJS, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 12 of 2004

Between :

Sri Mushtaq Ali,
Son of Kanjo Khan,
Through Sri Ashok Kumar Singh,
Lorries Complex,
Namneir Agra

And

Deputy Superintending Horticulturist,
Archaeological Survey of India,
Horticulture Division No. 1,
Tajmahal, Agra

AWARD

1. Central Government, Mol, New Delhi, vide Notification No. L-42012/186/2001/(IR(CM-II) dated 23-2-04 has referred the following dispute for adjudication to this tribunal.

2. Whether the action of the management of Archaeological Survey of India, Agra in terminating the services of Sri Mushtaq Ali is legal and justified? If not to what relief the workman is entitled?

3. In the instant case after receipt of the reference order registered notice were issued to the contesting parties from the Tribunal. The contesting disputants after receipt of the notices have filed their claim and counter claim.

4. After exchange of pleading between the parties neither party has appeared in the case before the tribunal to adduce evidence in support of their respective claims. Therefore in view of the position as explained above, it would be absolutely futile exercise on the part of the tribunal to detail the factual aspect of the matter as in such event the tribunal would be totally handicapped to adjudge the matter on merit in the absence of the evidence of the parties.

5. Moreover by a bare perusal of the reference order it is quite oblivious that there is no mention of the date

from which the services of the claimant has been terminated by the opposite party. Even if it is taken to be correct that the management has illegally terminated the service of the claimant then normal question that has to be considered by this tribunal as to from which date the workman should be ordered to be reinstated in the services which cannot be done in the instant case.

6. Therefore in my considered view the reference order is vague and is bound to be decided against the claimant and in favour of the management.

7. Accordingly, it is held that the claimant is not entitled to any relief pursuant to the reference order as virtually it is case of no evidence.

8. Reference is therefore, decided against the claimant and in favour of the management.

RAM PARKASH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2012

का.आ. 1632.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस.सी.सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, गोदावरीखानी के पंचाट (संदर्भ संख्या आईटी/आईडी/69/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-4-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22013/1/2012-आई आर (सी-II)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th April, 2012

S.O. 1632.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. IT/ID/69/2006) of the Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Godavarikhani, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of SCCL and their workman which was received by the Central Government on 19-4-2012.

[No. L-22013/1/2012-IR (C-II)]

D. S. S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CHAIRMAN, INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
GODAVARIKHANI, DISTT. KARIMNAGAR (A.P.)

PRESENT:

Sri M. Syamala Rao, B.A. B.L., Chairman-cum-Presiding Officer

Wednesday, the 4th Day of April, 2012

Industrial Dispute No. 69 of 2006.

Between :

Maddela Bhaskar, S/o Nambaiah,
Aged about 40 yrs., Occ : Ex-employee,
R/o Jawaharnagar, Godavarikhani,
Distt. Karimnagar (A.P.)

... Petitioner

And

The Chief General Manager,
RG-II, S.C.Co. Ltd.,
Godavarikhani, Distt. Karimnagar
(A.P.)

... Respondent

This Industrial Dispute Petition U/Sec. 2-A(2) of I.D., Act, coming on before me for final hearing on 19-3-2012, upon perusing all the documents on record and upon hearing the arguments of Sri S. Bhagavantha Rao, Advocate, for the petitioner and Sri D. Krishna Murthy, Advocate, for the respondent, having stood over for consideration till this date, the court passed the following :

AWARD

1. This is an Industrial Dispute petition filed by the petitioner U/Sec. 2-A(2) of I.D. Act, 1947 requesting to set aside the order of removal passed by the respondent vide its Proc. Dt. 16-10-1998 and to reinstate him into service, with continuity of service, all other attendant benefits including full back wages.

2. The brief facts of the petition are that the petitioner is appointed as an employee in the year 1989 and the petitioner discharged his duties to the fullest satisfaction of superiors till upto dismissal from service i.e., 16-10-1998 by Chief General Manager, RG-II, Ramagundam, Distt. Karimnagar. That the petitioner was put in near about 10 years of qualified length of services. The petitioner got a job by way of getting his father's disability i.e., the father was declared medical unfit by colliery authorities. As the father of petitioner got six years of service for superannuation but thinking that his son's life will settle but the company adopted unfair labour practice and victimisation on petitioner by making both of them are unemployed the ultimate aim is dismiss the petitioner from service.

3. And that petitioner used to remain absent in the year 1997 because of ill health. The petitioner was put in 60 musters in 1997 even though the health of petitioner has deteriorated in the less and enquiry conducted in 1998 and terminated from service on 16-10-98. The charge of petitioner is as follows :

"Habitual absenteeism to duties without sufficient cause under standing orders 25.25 of company Rules".

The petitioner is serving the company for the last nine years, without any red remark.

4. And that the dismissal order dt. 16-10-98 is highly excessive, arbitrary, illegal and against to the principles of natural justice. The dismissal is illegal and arbitrary as per their own standing orders but not ID Act and the petitioner is a regular worker and he can take shelter in I.D. Act for the purpose of survival of family and children. The dismissal from service is the last remedy under standing orders of company. And that the petitioner prays this court to decide the validity of domestic enquiry as a preliminary issue and no subsistence allowance is paid when charge of misconduct is foisted and the copies were not served to petitioner.

5. And that the respondent again invited the petitioner for considering the cases of absenteeism for reconsidering to give them posting orders of erstwhile jobs. The petitioner received call letter from high power committee Kothagudem. The petitioner and children and family felt happy on receipt of order of interview call letter as per directions of call letter of respondent, the petitioner approached the office of MD, Kothagudem on 8-11-2000 by 9.30 AM but there is no high power appointing committee and there is high recommendation committee and the petitioner case was not considered thereby. The petitioner lost confidence in company and the petitioner is approaching this court for judicious adjudication. That after dismissal from service on 16-10-98 and the petitioner fallen on roads along with children and debts. Therefore prays for an award as above.

6. The respondent filed his counter denying all the averments made in the petition.

The brief facts of the counter are that it is a government company incorporated under the provision of Company's Act, 1956 for carrying out the business of winning and selling the coal and that since the coal mining industry is a Central Subject. The appropriate Government for this respondent/management is Central Government. The respondent submits that as per Sec. 7(A)(I) of I.D. Act, the appropriate Government may by notification in the official gazette constitute one or more Industrial Tribunals for the adjudication of Industrial Disputes relating to any matter whether specified in the 2nd or 3rd schedule and for performing such other functions as may be assigned to them under this Act. The Central Government established an Industrial Tribunal-cum-Labour Court at Hyderabad from 29-12-2000 for adjudication of industrial disputes and the petitioner ought to have approached the said Tribunal for the redressal of grievance if any. But the petitioner conveniently avoided to file his petition before the Tribunal established by the Central Government for the reasons best known to him and the petition is not maintainable under law and the same may be dismissed on this ground alone.

7. And that the maintainability of the dispute raised by the petitioner before this court may be decided as preliminary issue before proceeding with the trial.

8. The petitioner failed to exhaust a conciliation procedure as laid down in the I.D. Act and filed the present petition before this Tribunal U/Sec. 2(A)(2) of I.D. Act, 1947 as amended by A.P. Amendment Act, 1987 (Act No. 32 of 1987). It is submitted that as the appropriate Government for coal mining industry is the Central Government, the State Government Act is not applicable to the respondents company and the petition filed by the petitioner is not maintainable and is liable to be dismissed in limine.

9. And that the petitioner was appointed in the respondent company on 27-1-1989 and later regularised as General Mazdoor. The petitioner is a habitual absentee without sanctioned leave or permission. The attendance particulars of the petitioner are furnished below :

Year	Days
1993	120
1994	69
1995	24
1996	216
1997	44

The petitioner was continuously absent for his duties without sufficient cause and prior permission during the year 1995 and he was issued charge sheet dt. 29-11-1995 for misconduct under clause 25.31 for absents from duty from 1-2-1995 to 29-11-1995, without sanctioned leave.

10. The petitioner after receipt of the charge sheet participated in the enquiry conducted on 18-12-1995 and the charges are proved in the said enquiry. However in view of mercy appeal with a view to give one more opportunity he was awarded a punishment of 10 days suspension vide letter dt. 25-10-1996 instead of dismissal with a warning that any repetition of such offence will be viewed seriously.

11. And that the petitioner attended 44 days during the year 1997 and remained absent for the other days of the said year without sanctioned leave or permission, as such he was issued charge sheet dt. 29-4-1998 for misconduct under clause No. 25.25 of the approved standing orders of the respondent company advising him to submit his explanation within 4 days. The petitioner submitted his explanation dt. 8-5-1998 stating that due to ill health he did not attend the duty and requested the company to condone his absence. He assured that he will never commit the same mistake in future. As the explanation submitted by the petitioner is not satisfactory, enquiry was ordered advising the petitioner to attend the enquiry on 28-7-1998 along with his witnesses. The petitioner attended the enquiry

on 28-7-1998 and fully participated in the enquiry and admitted his guilt. The petitioner did not choose to cross-examine the management witness during the enquiry. In his statement, the petitioner during the enquiry admitted that due to ill health he was absent for his duties a number of days during the year 1997. He stated that he took treatment at Govt. Hospital, Karimnagar and requested the management to take a lenient view and continue his services. He did not submit any document regarding his treatment at Govt. Hospital, Karimnagar. The charges levelled against the petitioner are proved and with a view to give opportunity to the petitioner, he was advised to submit representation against the findings of enquiry report within 7 days duly enclosing copy of the enquiry proceedings and enquiry report, vide letter dt. 10-9-1998. The petitioner submitted the representation dt. 20-9-1998 stating that due to ill health he did not attend the duties in the year 1997 and requested the company to excuse him in view of his poor condition.

12. And that regarding medical facilities, the respondent company is carrying out mining operations which is engaged in exploration, excavation, extraction and winning of coal in the 4 Districts of Andhra Pradesh i.e., Khammam, Karimnagar, Adilabad and Warangal and has a well established chain of hospitals in all its areas and also in the nearby to cater to the health requirements of its employees and their family members. It is also mandatory under the mines act/regulations to maintain the hospitals that are manned by the qualified medical practitioners. Also the respondent company has rules and regulations to refer the cases of complicated diseases to out side hospitals like Osmania General Hospital, Gandhi Medical Hospital and Nizam's Institution of Medical Sciences and the charges are also borne by the respondent company. The petitioner is fully aware of the same and did not avail the facilities. He never reported at company's hospital for treatment and sick leave.

13. And that the respondents company employs more than 83,000 persons which includes workmen, Executives and Supervisors. The production results will be depending upon the overall attendance and performance of each and every individual. They are inter linked and insufferable. In this regard if any one remains absent without prior leave or without any justified cause, the work to be performed gets affected. Such unauthorised absence creates suddenly void, which is very difficult to fill up and there will be no proper planning and already planned schedule gets suddenly disturbed without prior notice i.e. reason why the respondents company is compelled to take sever action against the unauthorised absentees.

14. And that the representation submitted by the petitioner is not satisfactory and as there are no extenuating circumstances to take a lenient view, the respondent company vide order dt. 15-10-1998 dismissed the services

of the petitioner w.e.f. 16-10-1998 taking his past record into consideration. The petitioner fully participated in the domestic enquiry and if this court considers the validity of the domestic enquiry as preliminary issue, the respondent company may be allowed to lead evidence. The allegations which are not specifically admitted are hereby denied. Therefore prays to dismiss the petition with costs.

15. The petitioner's counsel filed a memo U/Sec. 11-A of I.D., Act, on 16-8-2010 after giving notice to other side, which was recorded by this court. In view of the said memo U/Sec. 11-A of I.D., Act, no preliminary issues are framed and settled.

16. During the course of enquiry, no witnesses are examined on either side, but Ex-W1 to W-7 are marked on behalf of the petitioner and Ex. M-1 to Ex. M-10 are marked on behalf of the respondent by consent.

17. Heard both sides. Perused the material papers on record.

18. Now the points that arise for consideration are :—

- (1) Whether the present petition is maintainable before this Tribunal?
- (2) Whether the charges framed against the petitioner are proved ?
- (3) Whether the punishment of dismissal from service imposed by the respondent is highly excessive, arbitrary, illegal and against the principles of natural justice; and if so, whether it is liable to be set aside?
- (4) To what relief the petitioner is entitled ?

19. Point No. 1 :

It is the case of the respondents that the respondents company incorporated under the provisions of Company's act 1956 for carrying out the business and selling the coal and since the coal mining industry is a Central subject, the appropriate Government for this respondents/management is Central Government and that as per Sec. 7A(1) of I.D., Act, the appropriate Government by may its notification the official gazette constitute one or more industrial tribunals for adjudication of industrial disputes relating to any matter whether specified in the 2nd or 3rd schedule and for performing such other functions as may be assigned to them under this Act. The respondents further submitted in their counter the Central Government established an industrial Tribunal-cum-Labour Court at Hyderabad on 29-12-2000 for adjudication of Industrial disputes and the petitioner ought to have approached the said tribunal for redressal of grievances if any. But the petitioner conveniently avoided to file his petition before the Tribunal established by the Central Government for the reasons best known to him and the petition is not maintainable under law and the same may be dismissed on the ground

and this issue may be decided as preliminary issue before proceeding with the trial.

“Appropriate Government is described U/Sec. 2-A of the I.D. Act, 1947”. According to Sec. 2-A(1) of the above Act, the Appropriate Government, by notification in the official gazette constitutes one or more Industrial Tribunals for adjudication of Industrial Disputes relating to any matter whether specified in 2nd or 3rd schedule. So, according to the above 2 provisions of law, this Tribunal is established. Admittedly the Petition filed by the petitioner is covered by an Industrial Disputes.

20. In a case reported in 1998(5) ALD-16 (D.B.) in a writ petition between U. Chinnappa Vrs., Cotton Corporation of India and others; the Division Bench of our High Court held—“we will assume that in so far as the dismissed or retrenched workman is able to approach the Labour Court straight-away, the power of the Central Government to make a reference of the dispute may be whittled down *protanto* and in that sense there is a conflict or repugnancy with sub-section (2) of Section 2(A) and Section 10(1) r/w Sub-section (1) of section 2-A and Section 3 of the Act. Even then, the Presidential assent given under Article 254(2) makes the State law prevail over the provisions of the Central law to the extent of repugnancy”. It also further observed Industrial Disputes Act, 1947, Section 2-A(2)—Not confined to workmen employed in Industrial undertakings of State Government—It applies also to workmen engaged in Central Government undertakings.

21. If the plea of the respondent is considered in the light of the above case law, it falls to the ground, because, Section 2-A(2) of I.D. Act, 1947 applies both to the workmen employed in Industrial undertakings of State Government and also to the workmen engaged in Central Government undertakings.

22. In other words, it can be said it is for the workman to approach U/Sec. 2-A(2) of I.D. Act, either to the Industrial Tribunals having Central jurisdiction and also the Tribunals having State jurisdiction.

23. In view of the above, I hold that this Tribunal is having jurisdiction to decide the industrial dispute on hand and the petition filed by the petitioner is maintainable. The point is answered accordingly.

24. POINT No. 2:

Ex. M-3 is the office copy of charge sheet, which shows that the petitioner is irregular and in the habit of absents from duty without sanctioned leave, sick or permission and his unauthorised absence for the year 1997 i.e., January, 1997 to December, 1997 month wise and alleging that the petitioner has put in only 44 days of attendance during the year 1997. It further shows that the record of the petitioner of 1995 was also poor with 24 attendances. Ex. M-4 is the postal acknowledgement card of the petitioner.

25. For the above charge sheet, the petitioner submitted his reply marked under Ex. M-5; under this he stated that because of illness, he was admitted in the Government hospital, Karimnagar for treatment from 2-3-1997 to 28-10-1997 and his absence from duty from 2-3-1997 was caused on account of his illness.

26. The enquiry proceedings/statements of the witnesses examined on behalf of the respondents and of the petitioner by the enquiry officer are marked as Ex. M-6. The pay sheet clerk by name Sri D. Saraiah and Sri Y. Hanmantha Rao, Office Superintendent were examined before the enquiry officer, who deposed in support of the charge. The petitioner was given the opportunity of cross-examine the above witnesses, but he did not avail it. The statement of the petitioner was also recorded during the enquiry. He stated that he absented for duty during the charge period due to ill health and he took treatment in the Government Hospital at Karimnagar as he was not well. As such he could not attend to his duties regularly and requested the management to excuse him and to take a lenient view. He assured that he will be regular for his duties hereafter. Surprisingly, the petitioner was not cross examined on behalf of the the respondent and what the petitioner has stated in his enquiry statement remained un rebutted and unchallenged. Though the petitioner admitted the charge of absenteeism, but he explained the circumstances under which he was compelled to take treatment on account of ill health.

27. Ex. M-7 is the findings of the enquiry officer. It shows that the report of the enquiry officer is based on the material placed before him and I do not find any infirmities or regularities in his findings holding that the charges levelled against the petitioner are proved and he is guilty under the company's standing order No. 25(25) for his habitual absenteeism as mentioned in the charge sheet.

Though the petitioner pleaded guilty and stated in his statement before the enquiry officer that he was fell sick and taken treatment, he has not filed any documentary evidence/medical certificates to substantiate the defense put forth by him before the enquiry officer or before the respondent. Under those circumstances, I hold that the charges framed against the petitioner are proved. The point is answered accordingly.

28. POINT No. 3:

Ex W-1 is the xerox copy of the appointment order of the petitioner appointing him as Badli Filler w.e.f. 27-1-1989. The appointment of the petitioner is not in dispute. Ex. W-2, W-3 & W-4 are the xerox copies of show cause notice, dismissal order and identity card of the petitioner respectively. Ex. W-5 is the call letter issued to the petitioner to attend before the high power committee at Kothagudem, which a xerox copy. Since Ex. W-1 to Ex. W-5 are xerox copies, no evidentiary value can be attached to

them unless the originals are filed. Ex. W-6 is the office copy of the demand notice sent by the petitioner to the respondent requesting to reconsider the decision of his dismissal and for his employment. Ex. W-8 is the served copy of reply letter of the respondent sent to the petitioner stating that his request under Ex. W-7 for employment in the company does not merit any consideration. Ex. M-1 & M-2 are also xerox copies. Since their originals are not filed, no evidentiary value can be attached to them.

29. Ex. M-8 is the letter of the respondent furnishing copy of enquiry report along with enquiry proceedings to the petitioner, requiring him to make representation against the enquiry report. It is not a show cause notice containing the punishment proposed to be imposed on the petitioner. Though letter is styled as show cause notice, it is not a show cause notice, because there is no punishment proposed by the respondent to be inflicted on the petitioner.

30. The petitioner gave his reply under Ex. M-9. Thereafter the respondent directly passed order dt. 15-10-1998 dismissing the petitioner from service with immediate effect. So, the respondent, without issuing show cause notice with the proposed punishment of dismissal, directly passed the order marked under Ex. M-10 dismissing the petitioner from service, which is irregular, illegal and also against to the principles of natural justice.

31. Admittedly after calling the representation of the petitioner on the enquiry findings report, the respondent directly removed the petitioner from service without issuing show cause notice with proposed punishment. In my considered opinion, it is illegal and against to the principles of natural justice; because, issuing show cause notice also is a part of procedure to be adopted before inflicting the capital punishment of dismissal from service on the petitioner. Apart from the above, the disciplinary authority/respondent failed to consider the reasons explained by the petitioner for the charge period before the enquiry officer and no reasons were assigned for discarding the above reasons/defense put forth by the petitioner.

32. Admittedly the petitioner was previously charge sheeted, enquiry was conducted and as a punishment he was suspended for 10 days. This is the 2nd time of absenteeism on the part of the petitioner.

Admittedly the respondent directly dismissed the petitioner from service without issuing show cause notice with proposed punishment.

33. While arguing the case, the learned counsel for the respondents contended that the termination of the petitioner was made after giving notice and it is not liable to be challenged. In support of his contention, the learned counsel relied on the decision reported in 2002(1) ALD-314 D.B., of A.P., High Court in W.P. No. 30036/1995 between

Thimmaiah Vrs. Additional Industrial Tribunal-cum-Additional Labour Court, Hyderabad and another. In this case their Lordships have observed that the termination from service on the ground of continued absence from duty under the standing orders does not amount to retrenchment. When such order of termination was made after giving notice to the employee, it is not liable to be challenged. But in the present case it is not retrenchment nor termination from service. It is dismissal of the petitioner from service on the ground of absenteeism. So the above case law is not applicable to the facts of the present case.

34. Therefore, I am under the considered opinion that the punishment of dismissal from service imposed by the respondent against to the petitioner is highly excessive, arbitrary, illegal and against the principles of natural justice; consequently, it is liable to be set aside. The point is answered accordingly.

35. POINT No. 4:

Admittedly the charges levelled against the petitioner are proved. In view of my findings on Points 2 & 3, I am under the considered opinion that denial of entire back wages, continuity of service and consequential attendant benefits would be the sufficient punishment for the petitioner to mend himself and to be more careful in future. But the past service rendered by the petitioner from the date of his appointment till his dismissal from service shall be counted only for the purpose of his retirement benefits.

36. In the result, the petition is partly allowed setting aside the dismissal order dt. 16-10-1998 passed by the respondent marked under Ex. M-10. The respondent's company is hereby directed to reinstate the petitioner into service without any back wages, without any continuity of service and without any consequential attendant benefits, within one month from the date of Gazette publication of this award. It is made clear that the past service rendered by the petitioner from the date of his appointment till his dismissal from service shall be counted only for the purpose of his retirement benefits. The I.D. is disposed of accordingly, but in the circumstances without any costs.

Typed to my dictation directly by Typist, corrected and pronounced by me in the open court on this, the 4th day of April, 2012.

M. SYAMALA RAO, Chairman-cum-Presiding Officer

Appendix of Evidence
Witnesses Examined

For workman :

-Nil-

For Management :

-Nil-

EXHIBITS

For workman :

	Date	
Ex. W-1	25-01-1989	Appointment order as Badli Filler, X-copy.
Ex. W-2	10-09-1998	Show cause notice, X-copy
Ex. W-3	16-10-1998	Dismissal order, X-copy
Ex. W-4	—	Identity card, X-copy
Ex. W-5	01-11-2000	Call letter issued to the petitioner to attend before the high power committee at Kothagudem, X-copy
Ex. W-6	02-07-2006	Demand notice with postal receipt.
Ex. W-7	09-07-2006	Letter issued to the petitioner by the Chief G.M., RG-II that petitioner's representation not considered

For Management :

Ex. M-1	18-08-1996	Notice issued to the petitioner by respdt., calling comments on E.O., report, X-copy
Ex. M-2	24/25-10-1996	Suspension order, X-copy
Ex. M-3	25/29-04-1998	Charge sheet
Ex. M-4	30-04-1998	Postal Ack., card
Ex. M-5	08-5-1998	Explanation to the charge sheet
Ex. M-6	28-07-1998	Enquiry proceedings
Ex. M-7	31-08-1998	Enquiry report
Ex. M-8	10-09-1998	Show cause notice
Ex. M-9	20-09-1998	Reply to show cause notice
Ex. M-10	15-10-1998	Dismissal order.

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2012

का.आ. 1633.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस. सी. सी. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, हैदराबाद के पंचाट (एल सी आई डी संख्या 61/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-4-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22013/1/2012-आई आर (सी-II)]
डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th April. 2012

S.O. 1633.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (LCID No. 61/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of SCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 19-4-2012.

[No. L-22013/1/2012-IR (C-II)]
D. S. S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT
AT HYDERABAD**

PRESENT :

SHRI VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Dated the 29th day of February, 2012

Industrial Dispute L.C. No. 61/2007

BETWEEN :

Sri Goleti Rajaiah,
S/o Paradesi,
C/o Smt. A. Sarojana, Advocate,
Flat No. G7, Ground Floor,
Rajeshwari Gayatri Sadan
Opp : Badruka Jr. College For Girls,
Kachiguda, Hyderabad ... Petitioner

AND

1. The General Manager,
M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,
Mandamarri Area, Mandamarri,
Adilabad district.
2. The Colliery Manager/Superintendent of Mines,
M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,
KK-2 Incline, Mandamari,
Adilabad district ... Respondents

APPEARANCES :

For the Petitioner : M/s. A. Sarojana and K. Vasudeva Reddy, Advocates

For the Respondent : M/s. P.A.V.V.S. Sarma and Vijaya Laxmi Panguluri, Advocates

AWARD

This petition under Sec. 2A (2) of the I.D. Act. 1947 has been filed by Sri Goleti Rajaiah, Ex-badli filler to set aside the dismissal order dated 24-10-1999 and to reinstate the Petitioner workman with full back wages.

2. It is alleged by the Petitioner that he was appointed as badli filler in the year 1987 and subsequently he was regularized as coal filler in 1995 and further promoted as Trammer. While so, an enquiry was conducted on charge sheet dated 6-2-1999 on the ground of habitual

absenteeism of Petitioner without sufficient cause during the year 1998 which amounts to misconduct under company Standing Orders No. 25.25. Also a proceeding dated 24-10-1999 was issued dismissing the Petitioner from service. The proceeding also states that the charge sheet was sent to the Petitioner's house which was returned undelivered, as such, a paper advertisement was issued advising the Petitioner to attend for enquiry, as that Petitioner did not attend enquiry on the scheduled date, ex parte enquiry was conducted and he was dismissed from service.

3. Petitioner submits that Respondent said to have sent the charge sheet to the Petitioner's address on 8-4-1999 by way of registered post vide postal receipt No. 5328, but till June '99 postal authorities did not return the acknowledgement card or undelivered cover which is suspicious and shows the predetermination of the Respondent in removing the Petitioner from rolls of the company. Petitioner submitted that he was undergoing treatment in his native village, he was not aware of issuance of charge sheet or publication made by Respondent in the newspaper. If he was made aware of all these things, then he would have participated in the enquiry. He has not received any communication from the management.

4. It is submitted that Petitioner's illness was intimated to the authorities by his colleagues. Enquiry report clearly shows that findings of the Enquiry Officer are outside the scope of the charge sheet and the impugned order of dismissal basing on the report of the Enquiry Officer is liable to be set aside. The charge of absenteeism due to sickness ought not to have been treated as serious misconduct and imposition of punishment of dismissal from service is disproportionate as such, dismissal of Petitioner is illegal, arbitrary and violating principles of natural justice. After issuance of the order of dismissal, management has conducted interviews for workmen who were dismissed from service on account of absenteeism wherein Petitioner has also applied for the same, attended interview and assured to be regular to his duties, but he was not given reappointment, though others were considered for appointment. As such the order of dismissal dated 24-10-1999 deserves to be set aside and Petitioner be reinstated with full back wages and other consequential benefits.

5. Respondent has filed counter statement. Management has submitted his reply alleging therein that Petitioner remained absent for the year 1997 which hampered the working of the company, the absence of the Petitioner was without any sufficient cause which is grave misconduct within the Standing Orders 25.25 of the company and dismissal is not bad in the light of the case law reported in 1996 (1) SCC 302 State of U.P. and others Vs. Ashok Kumar Singh. Petitioner was appointed in the Respondent company on 4-2-1988 and was promoted as

Trammer on 1-3-1995. Petitioner was issued charge sheet No. K2/50/99/446 dated 6-2-1999 for misconduct under company Standing Orders No. 25.25 for habitual absence without sufficient cause during the year 1998, as he has worked only for 48 days. As the Petitioner remained absent, Respondent issued paper publication in Telugu daily Andhra Jyothi dated 21-7-1999 advising the Petitioner to attend for an enquiry on 28-7-1999, but Petitioner did not attend the enquiry on the stipulated date and time and hence, the Enquiry Officer conducted ex-parte enquiry. Charges of absenteeism have been proved, Respondent was constrained to dismiss the Petitioner from services of the company w.e.f. 28-10-1999.

6. As the Petitioner was not attending to duties, charge sheet dated 6-2-1999 was sent to the last known address of the Petitioner under Registered Post on 8-4-1999. Respondent did not receive acknowledgement or undelivered cover, after waiting for 3 months, a charge sheet cum enquiry notice was published in Telugu daily Andhra Jyothi dated 21-7-1999 advising the Petitioner to attend for an enquiry on 28-7-1999. If the Petitioner was really suffering mental disorderliness, he should have reported sick in colliery hospitals, or otherwise inform the authorities about his taking treatment at his native place. He did not submit any documentary evidence in support of his statement vide his representation dated 7-10-1999 of taking treatment for Acid Peptic disorder Polynecereter at MGM, Warangal.

7. Petitioner was not regular to his duties. He did not put up required 190 actual musters in any year from his appointment till his termination. He had put in 136 musters in 1996, 150 musters in 1997, 48 musters in 1998 and nil musters in 1999. In view of his past record and actual attendances put in by him in 1998 he was issued with a charge sheet which was sent by Registered Post but Petitioner did not receive charge sheet. Since Petitioner did not attend the enquiry on 28-7-1999, Enquiry Officer conducted ex-parte enquiry and submitted his report. The report of the Enquiry Officer is within the scope of the charge sheet and the Enquiry Officer did not go out of the scope of the charge levelled against the Petitioner. Petitioner's contention that he was not afforded proper opportunity is incorrect. Charge sheet was sent to the Petitioner which was returned undelivered, as such, paper publication was issued intimating that enquiry into the case would be held on 28-7-1999. Petitioner did not attend the enquiry on the scheduled date. Hence, ex parte enquiry was held wherein Petitioner was found guilty of the charges. Enquiry proceeding and enquiry report were sent to the Petitioner for his submission of explanation if any against enquiry report. Petitioner submitted his representation in response to the enquiry report. After consideration of material on record Disciplinary Authority has terminated the services of Sri Goleti Rajaiah w.e.f. 28-10-1999. Respondent has not committed any mistake in

dismissing the services of the Petitioner because the performance of the Petitioner was not satisfactory. It was effecting the production of the company. Petitioner has kept quite for 7 years after dismissal from service, he did not raise industrial dispute during this period. Hence, the Petition suffers from delay and laches. Petition deserves to be dismissed.

8. Parties filed their respective evidence. Petitioner has filed office order dated 24-10-1999. Respondent filed charge sheet, news paper publication, enquiry proceeding, enquiry report, letter forwarding enquiry proceeding and enquiry report to the Petitioner, Petitioner's representation and dismissal order.

9. It is pertinent to mention here that though the proceeding taken before the Enquiry Officer, enquiry was challenged by the workman through his claim petition, but on 25-9-2008 Petitioner's counsel filed memo before this tribunal conceding the legality and validity of the domestic enquiry, thus, the domestic enquiry has been held to be legal and valid.

10. Heard both parties and both parties have submitted their written arguments also under Sec. 11A.

11. It has been argued by the Learned Counsel for the Petitioner that though Petitioner has conceded to the legality and validity of the domestic enquiry, he has every right to challenge the findings of the Enquiry Officer, during the course of arguments under Sec. 11A of the Industrial Disputes Act, 1947. In the present case though the Petitioner's absence is not challenged, Petitioner submitted that due to ill-health he remained absent. Learned Counsel for the Petitioner argued that Petitioner was not aware of the issuance of the notice of enquiry or publication of date of enquiry, he could not participate in the enquiry as he was suffering from mental illness in his native village, he was not informed about issuance of charge sheet and other proceedings. Against this argument, Learned Counsel for the Respondent has argued that Enquiry Officer has considered all the material placed before him and it is established that the Petitioner has not taken treatment at company's hospital nor he has submitted any supporting document showing what treatment he has taken for which health problem as such, his ill-health or mental disorderness appears to be concocted one. Enquiry Officer's report is based on evidence produced before him.

12. I have considered the above arguments. This Tribunal has to consider the following points :

- (1) Whether the absence of Petitioner during the year 1998 was for any sufficient and reasonable cause or not and the report of Enquiry Officer is based on evidence or not ?
- (2) Whether the punishment imposed upon the Petitioner is disproportionate to the misconduct committed by the Petitioner ?

13. Point No. 1 : It is undisputed fact that Petitioner remained absent under clause 25.25. Habitual absence from duty without sufficient cause is a misconduct. In the present case the Petitioner did not appear before the Enquiry Officer though charge sheet cum enquiry notice has been published in Andhra Jyothi daily newspaper as charge sheet was returned undelivered to the Petitioner. The Petitioner has submitted that he remained ill during the year 1998 due to which he remained absent and put in 48 musters during the year 1998, but he has not been able to provide any single document before Enquiry Officer nor before this Tribunal to substantiate his allegations. The management has produced Sri D. Anandkumar, POA. and Sri N. Sainath, Pay Sheet Clerk to prove that Petitioner remained absent without any leave or without any intimation during the year 1998. Though he stated that he was absent due to ill-health but he is not able to provide any evidence or proof in support of his illness. Even if it is presumed that Petitioner remained absent due to the ill-health why he did not inform his superiors regarding his illness has not been explained by the Petitioner atleast before this Tribunal by producing any document like medical prescriptions, fitness certificates etc. Thus, the finding of the Enquiry Officer that Petitioner's absence during the year 1998 was without reasonable and sufficient cause, is based on evidence and reasoning given by Enquiry Officer suffers no fault, finding arrived at by the Enquiry Officer is legal and valid. Learned Counsel for the Petitioner has quoted several case laws which are not applicable in the present case as Petitioner could not submit documentary or material evidence in support of his claim.

14. This tribunal is also of the opinion that the Petitioner remained absent without any intimation to his employer during the year 1998, his absence was without any reasonable or sufficient cause and thereby the Petitioner has committed misconduct mentioned in para 25.25 of the Standing Orders of the company. The report of Enquiry Officer is based on legal grounds and material placed before him. Point No. 1 is decided accordingly.

15. Point No. 2 : So far as the question of punishment is concerned the Petitioner has not been able to justify his absence during the year 1998, he remained absent during enquiry proceeding, his counsel filed memo conceding enquiry proceeding legal and valid before this Tribunal which implies enquiry has been validly and legally conducted by following principles of natural justice by the Respondent management and it further implies that the worker remained absent during 1998 and he attended for only 48 musters. This Tribunal has to see only point whether the punishment imposed is harsh or disproportionate to the misconduct committed by the Petitioner. Though the Respondent management has stated in the counter statement that Petitioner remained absent during the year 1995, 1996 and 1997 also which was not mentioned in the charge sheet. However, this fact was not

brought before the Enquiry Officer also. As such, the previous absence cannot be taken into consideration but the absence in the year 1998 is surely a grave misconduct and management has not committed any mistake in passing the punishment of dismissal against the Petitioner. The Learned Counsel for the Petitioner has argued that the Petitioner's family is starving due to dismissal of the Petitioner against which Learned Counsel for the Respondent has argued that Petitioner himself is responsible for the starvation of the family members, the Petitioner was an unwilling worker who has not cared to perform his duties with sincerity as such, the punishment was proper and interference is not required in this case.

16. I agree with the argument of the Learned Counsel for the Respondent and I am also of the considered opinion that the punishment imposed on the Petitioner is neither excessive nor disproportionate and Petitioner is not a deserving person for any lenient view to be taken in his favour. The Petitioner himself is responsible for the starvation of his family members, no interference is required in the matter of the punishment. Point No. 2 is decided accordingly.

17. From the above discussion, this tribunal is of the considered opinion that the claim petition is unfounded, no interference is required in this case. Petitioner Sri Goleti Rajaiah is not entitled for any relief, petition deserves to be dismissed and hence, this award.

Award passed accordingly. Transmit.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her corrected by me on this the 29th day of February, 2012.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for : Witnesses examined for
the Petitioner the Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2012

क्र.आ. 1634.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस.सी.सी. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (एल सी आई डी संख्या 44/2010) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-4-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22013/1/2012-आई आर (सी-II)]
डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th April, 2012

S.O. 1634.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 44/2010) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of SCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 19-4-2012.

[No. L-22013/1/2012-IR (C-II)]

D. S. S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE LOK ADALAT

(For settlement of cases relating to CGIT-cum-Labour Court at Hyderabad under Section 20 of the Legal Services Authorities Act, 1987)

The 17th day of March, 2012

PRESENT:

1. Sri Ved Prakash Gaur, Presiding Officer
2. Sri C. Niranjana Rao, Member
3. Sri , Member

(Constituted U/s 19 of the LSA Act, 1987 by the APSLSA Order ROC No. 186/LSA/2006 dt. 22-8-2006)

In the matter of case No. LCID No. 44 of 2010/PLAC No. 8/2012

(On the file of CGIT-cum-Labour Court at Hyderabad)

BETWEEN:

Bandirala Venkateswarlu, S/o Danaiah,
aged about 48 years,
E.C. No. 0278807, Ex-Coal Filler,
KTK No. 5 Inclined,
R/o Bhupalpalli,
Warangal District (A.P.).

... Petitioner

AND

1. The Supdt. of Mines,
Singareni Collieries Company Limited,
KTK No. 5 Inclined,
Bhupalpalli Area, P.O. Bhupalpalli,
Warangal District, A.P.
2. The General Manager,
Singareni Collieries Company Limited,
Bhupalpalli, Warangal District, A.P.
3. The Chairman and Managing Director,
Singareni Collieries Company Limited,
P.O. : Kothagudem,
Khammam District.

... Respondents

This case is coming up before the Lok Adalat on 17-3-2012 for settlement in the presence of the applicant appearing in person/represented by his counsel Sri F.

Vasudeva Reddy and the Respondent too, being present in person/represented by his counsel, Sri P.A. V.V.S. Sarinar on a perusal of the case record, after considering and hearing the case of both sides and with the consent of both side, the Lok Adalat has arrived at the following settlement and delivered the following :

Award under Section 21 of the L.S.A. Act, 1987

The petitioner had agreed to the following proposals of the Management, as the petitioner had put in 100 musters in the two years of the preceding 5 years of dismissal and raised the dispute within three years from the date of dismissal from service. The contents are read over and explained to the petitioner in his language and agreed by him by signing the same.

- (a) The petitioner workman agreed to treat his appointment as fresh appointment as Badli Filler without back wages and continuity of service subject to medical fitness by Company Medical Board.
- (b) Irrespective of past designations, petitioner workman agrees to the appointment as Badli Filler afresh on Coal filling, wherever coal filling is available and need not be the same place where the workmen was last employed.
- (c) The petitioner workman agrees for observation of one year with minimum mandatory 20 musters every month and review every three months on coal filling only is absolutely essential. In the event of any short fall of attendance during the 3 months period, his services will be terminated without any further notice and enquiry.
- (d) Respondent Management agreed that any forced absenteeism on account of mine accidents/natural disease, treatment taken at Company's Hospitals will be deemed as attendance during the trial period.
- (e) All other usual terms and conditions of appointment will be applicable i.e., transfer, hours of work, day/of rest, holidays etc., for appointment afresh.

This LCID is disposed of accordingly. The respondent management is directed to take him back to duty as Badli Filler afresh wherever coal filling is available.

In agreement of the above, the parties/counsel have affixed their signatures/thumb impressions in the presence of the members of this Lok Adalat Bench.

Sd/-	Sd/-
Signature of Applicant(s)	Signature of Respondent(s)
Sd/-	Sd/-
Signature of Counsel for Applicant(s)	Signature of Counsel for Respondent(s)

Signature of Presiding Officer and Members of the Bench

1. VED PRAKASH GAUR, Chairman
2. C. NIRANJAN RAO, Member

Note : This award is final and binding on all the parties and no appeal shall lie to any court as per Section 21(2) of LSA, Act 1987.

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2012

का.आ. 1635.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस. सी. सी. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, एवं श्रम न्यायालय, हैदराबाद के पंचाट (एल सी आई डी संख्या 5/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-4-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22013/1/2012-आई आर (सी-11)]
डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th April, 2012

S.O. 1635.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Complaint No. 5/2011) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of SCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 19-4-2012.

[No. L-22013/1/2012-IR (C-II)]
D. S. S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE LOK ADALAT

(For settlement of cases relating to CGIT cum Labour Court at Hyderabad Under Section 20 of the Legal Services Authorities Act, 1987)

the 17th day of March, 2012

PRESENT :

1. Sri Ved Prakash Gaur, Presiding Officer
2. Sri C. Niranjan Rao, Member
3. Sri _____, Member

(Constituted U/s 19 of the LSA Act, 1987 by the APSLSA Order ROC NO. 186/LSA/2006 dtd. 22-8-2006)

In the matter of case No. LCID No. 5 of 2011/PLAC
No. 6/2012

(On the file of CGIT-cum-Labour Court at Hyderabad)

BETWEEN:

Dasari Ramesh, S/o. Rayamallu,
aged about 30 years,
E.C.No. 2914140, Ex-Badli Filler,
IK-1 Incline,
SCCL, /Srirampur,
Adilabad District

... Petitioner

AND

1. The General Manager,
Singareni Collieries Company Ltd.,
Srirampur Area, Srirampur,
Adilabad District

2. The Superintendent of Mines,
IK-1A Incline,
Singareni Collieries Company Ltd.,
Srirampur, Adilabad District. ... Respondents

This case is coming up before the Lok Adalat on 17-3-2012 for settlement in the presence of the applicant appearing in person/represented by his counsel Sri K. Vasudeva Reddy and the Respondent too, being present in person/represented by his counsel, Sri S. M. Subhani on a perusal of the case record, after considering and hearing the case of both sides and with the consent of both side, the Lok Adalat has arrived at the following settlement and delivered the following :

AWARD UNDER SECTION 21 OF THE L.S.A. ACT, 1987

The petitioner had agreed to the following proposals of the Management, as the petitioner had put in 100 musters in the two years of the preceding 5 years of dismissal and raised the dispute within three years from the date of dismissal from service. The contents are read over and explained to the petitioner in his language and agreed by him by signing the same.

- (a) The petitioner workman agreed to treat his appointment as fresh appointment as Badli Filler without back wages and continuity of service subject to medical fitness by Company Medical Board.
- (b) Irrespective of past designations, petitioner workman agrees to the appointment as Badli Filler afresh on Coal filling, wherever coal filling is available and need not be the same place where the workmen was last employed.
- (c) The petitioner workman agrees for observation of one year with minimum mandatory 20 musters every month and review every three months on coal filling only is absolutely essential. In the event of any short fall of attendance during the 3 months period, his services will be terminated without any further notice and enquiry.

(d) Respondent Management agreed that any forced absenteeism on account of mine accidents/natural disease, treatment taken at Company's Hospitals will be deemed as attendance during the trial period.

(e) All other usual terms and conditions of appointment will be applicable i.e., transfer, hours of work, day of rest, holidays etc., for appointment afresh.

This LCID is disposed of accordingly. The respondent management is directed to take him back to duty as Badli Filler afresh wherever coal filling is available.

In agreement of the above, the parties/counsel have affixed their signatures/thumb impressions in the presence of the members of this Lok Adalat Bench.

Sd/- Signature of Applicant(s) Sd/- Signature of Respondent(s)

Sd/- Signature of Counsel for Applicant(s) Sd/- Signature of Counsel for Respondent(s)

Signature of Presiding Officer and Members of the Bench

1. VED PRAKASH GAUR, Chairman

2. C. NIRANJAN RAO, Member

Note : This award is final and binding on all the parties and no appeal shall lie to any court as per Section 21(2) of LSA. Act 1987.

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2012

क्र.आ. 1636.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस. सी. सी. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 54/2005) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-4-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/278/2004-आई आर (सी एम-II)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th April, 2012

S.O. 1636.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 54/2005) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on 19-4-2012.

[No. L-22012/278/2004-IR (CM-II)]

D. S. S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT
AT HYDERABAD

PRESENT:

Shri Ved Prakash Gaur, Presiding Officer

Dated the 29th day of February, 2012

Industrial Dispute No. 54/2005

BETWEEN:

The General Secretary,
 (Sri Bandari Satyanarayana),
 Singareni Collieries Employees Council (INTUC),
 BCH 30, Vital Nagar,
 Godavarihani-505209 ... Petitioner

AND

The Project Officer,
 M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,
 Bhupalapalli Division,
 Bhupalapalli-506168 ... Respondent

APPEARANCES:

For the Petitioner : M/s. A. Sarojana and K. Vasudeva
 Reddy, Advocates

For the Respondent : M/s. P.A. V.V.S. Sarma and Vijaya
 Laxmi Panguluri, Advocates

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-22012/278/2004-IR(CM-II) dated 12-7-2005 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of M/s. Singareni Collieries Company Ltd., and their workman. The reference is,

SCHEDULE

“Whether the demand of Singareni Collieries Employees Council for reinstatement of Shri Maddela Saraiah, Badli Filler, KTK-1 and 1A is legal and justified? If so, to what relief the workman is entitled?”

2. Petitioner union submitted claim statement stating therein that workman Sri M. Suraiah was appointed on compassionate grounds as badli filler on 10-1-1996. Workman suffered from ill-health during the year 1998 and added to that, mother and brother of the workman were expired during the year 1998 due to which he could not be regular to his duties during the year 1998. A charge sheet dated 1-9-1999 was issued to him alleging therein that Petitioner workman was habitually absent during 1998 without sufficient cause, which amount to misconduct under company's Standing Orders No. 25.25 and 25.31. Consequently an enquiry was conducted wherein proper opportunity was not given to the workman. Enquiry was

conducted lopsidedly and Enquiry Officer submitted his report holding charges as proved. Petitioner workman submitted his representation dated 13-9-2000 explaining circumstances of his absenteeism. But basing on the enquiry report Petitioner workman was dismissed from service by order dated 7-11-2000 w.e.f. 16-12-2000. Petitioner workman approached the authorities on number of occasions. He was represented by Petitioner Union before the authorities, as such a conciliation was moved which ended in failure.

3. It has further been alleged that enquiry was conducted in English language which is not known to the workman and also was not explained the procedure of enquiry. Workman was not given opportunity to cross-examine witnesses of management nor he was given opportunity to produce defence evidence. Workman remained absent due to sickness and he could not attend to his duty. He could not inform his absence to his superiors. The order of dismissal is without application of the mind. No reasonable opportunity was given to the Petitioner during enquiry proceeding. Witnesses were not examined in the presence of the Petitioner. Enquiry was not conducted in fair and proper manner. He challenged the enquiry proceeding as well as order of dismissal alleging that it is arbitrary, unjust, disproportionate and illegal and hence, this reference.

4. Management has filed counter statement alleging therein that Petitioner remained absent throughout year 1998 but for 97 days which hampered the working of the company, the absence of the Petitioner was without any sufficient cause which is grave misconduct within the Standing Orders 25.25 and 25.31 of Company's Standing Orders and dismissal is not bad in the light of the case law reported in 1996 (1) SCC 302 State of U.P. and others Vs. Ashok Kumar Singh. It is stated that workman's services prior to 1998 were also not satisfactory, he used to remain absent during the years 1996 and 1997 also. The Petitioner workman had put in 105 musters during the year 1996, 132 musters during the year 1997, 70 musters during 1999 and 6 musters upto February, 2000 whereas he is required to put in 190 musters in a year. He was issued with a charge sheet for his unauthorized absence, enquiry was conducted in the matter of charge sheet issued. Petitioner participated in enquiry, he was given fair and full, proper opportunity and on the basis of the evidence of the management, charges were found to be proved by the Enquiry Officer. Enquiry Officer has submitted his report, show cause notice was given to the Petitioner for his objections if any of the enquiry report, through registered post but no explanation was submitted by the Petitioner, as such he was dismissed from service. No illegality or irregularity has been committed in conducting the enquiry. Management has no other option but to dismiss the Petitioner from service. The order is fully justified, it cannot be said to be disproportionate to the misconduct committed

by the Petitioner neither it is shocking to the conscience of a prudent man.

5. It is further alleged by Respondent that workman approached Petitioner union who submitted representation to the Assistant Labour Commissioner(C), Mancherial. Upon which a conciliation was proceeded which ended in failure. During enquiry workman had fully participated, he was given full and fair opportunity to have defence assistant and cross examine the witnesses which Petitioner did not avail. Enquiry Officer has explained the contents of the charge sheet in Telugu to the workman as such, reference be answered in negative.

6. Parties were directed to file their evidence.

7. Petitioner has filed no documents. Management has produced documents relating to enquiry proceeding charge sheet, acknowledgement of the Petitioner for receipt of the charge sheet, explanation to charge sheet, enquiry proceeding, enquiry report, covering letter of forwarding enquiry proceeding and enquiry report to workman, Petitioner explanation for show cause notice, removal order and dismissal order.

8. I have gone through the evidence produced by Respondent management. During course of this proceeding on 2-3-2009 Learned Counsel for the Petitioner moved memo conceding the validity and legality of the domestic enquiry on the basis of memo, enquiry was held to be legal and valid. Thereafter both the parties were heard under Section 11(A) of the Industrial Disputes Act, 1947.

9. It has been argued by the Learned Counsel for the Petitioner union that the workman's absence was not willful or wanton because he was suffering from ill-health, unfortunate death of his mother and brother, that was the reason he remained absent during the year 1998. This fact was stated by the workman before the Enquiry Officer which was not challenged by the Presenting Officer hence, the factum of illness was proved by the Petitioner before the Enquiry Officer which has not been considered by the Enquiry Officer. The factum of the illness of the chargesheeted workman has not been considered by the Enquiry Officer thus the finding of the Enquiry Officer is perverse and prejudicial, the order of dismissal on the basis such a lopsided and prejudicial finding is arbitrary, illegal and unsustainable in law.

10. Against the contention of the Learned Counsel for the Petitioner Learned Counsel for the Respondent has argued that in the charge sheet it was mentioned that Petitioner has put in only 97 musters in the year 1998. Petitioner workman participated in the enquiry proceeding. The charge sheeted employee admitted that he remained absent without any reasonable cause, he admitted his guilt. He has stated in his claim petition and also before the Enquiry Officer that due to ill-health and family problems he could not perform his duty and remained absent during

the period mentioned in charge sheet. No evidence was filed by him in support of his illness or family problems. As such, basing on the own admission of the workman supported with evidence produced by the management, the Enquiry Officer correctly arrived at a conclusion that Petitioner was a habitual absentee he had put in only 97 musters during the entire year 1998 without any reasonable or proper cause. It is also argued that Disciplinary Authority has considered the past conduct of the Petitioner which shows that he has put in 105 days in 1996, 132 days in 1997, 97 days in 1998, 70 days in 1999 and 6 days in 2000, when the matter was pending under enquiry, the workman after giving assurance to the higher authority did not put minimum musters of 20 per month. Thus, the imposition of punishment of dismissal is adequate and proper. It is not disproportionate to the misconduct committed by the workman. The punishment order is neither illegal nor disproportionate. As such, no interference is required in the order of dismissal.

11. I have considered the above argument and I have also gone through the claim statement, counter statement and material placed by the parties in proof of the misconduct committed by the Petitioner.

12. This tribunal has to consider the following points :

- (I) Whether the finding of the Enquiry Officer is perverse and it is not based on any evidence ?
- (II) Whether the punishment imposed by the Respondent management is disproportionate to the misconduct committed by the Petitioner ? and
- (III) Whether Petitioner is entitled for any relief if so to what ?

FINDING

13. Point No. I : It is admitted fact that Petitioner remained absent and had put in only 97 days during the year 1998. Petitioner has not given any plausible explanation for putting only 97 musters in 1998. The enquiry was conducted, Petitioner workman participated in the enquiry proceeding. Statement of Sri A. Prakash, POA, was recorded in presence of charge sheeted employee who has stated that workman remained absent during the period January, 1998 to December, 1998 without sanctioned leave or without sufficient cause. Statement of Sri B. Dariyav Singh, Paysheet Clerk, management witness was also recorded, which corroborate with the narration of fact of Presenting Officer. The statement of charge sheeted employee was recorded, he stated that he is admitting his mistake, he had put in 97 musters and remained absent for rest of days during the year 1998. He stated that due to family problems he could not attend to his duties but he did not support his defence with any documentary or oral evidence, as such, it can not be said that family problems was a genuine reason to remain absent

from duty without sanctioned leave and intimation to the superiors. The Enquiry Officer has arrived at the conclusion from the evidence of Respondent witnesses and own admission of the Petitioner workman. In absence of any supporting material for consideration, he arrived at conclusion that Petitioner remained absent without proper and valid cause and concluded that charge against the Petitioner is proved. Thus, the finding of Enquiry Officer is neither perverse nor prejudicial. It is based on material placed before Enquiry Officer by the parties and this tribunal is also of the opinion that the finding of the Enquiry Officer is fully justified and valid.

14. Workman's absence for 1998 is fully proved. Though he has stated that he remained absent due to the illness or domestic problems but he has not proved them before the Enquiry Officer, he simply stated that due to family problems and sudden death of his mother and brother, he remained absent on the dates mentioned in charge sheet as such, the record and evidence shows that Petitioner remained absent through out the year 1998 excluding 97 days attendance. Moreover, he has put in only 105 days in 1996, 132 days in 1997, 97 days in 1998, 70 days in 1999 and 6 days in 2000, as such, his attendance proves that Petitioner is habitual absentee and his absence during that period is neither based on any reasonable ground nor cause. Thus, the finding of the Enquiry Officer that Petitioner was a habitual absentee and he has committed misconduct under Company's Standing Orders 25.25 and 25.31 is based on material available before him. Learned Counsel for the Petitioner has conceded the enquiry conducted as legal and valid which implies that Petitioner is accepting that there is no perversity or illegality or non-infirmary in the finding of the Enquiry Officer and this tribunal is of the opinion that Petitioner's absence during the year 1998 was without any reasonable or proper cause. Thus, Petitioner's conduct show that he is habitual absentee, thus, Point No. I is answered accordingly.

15. **Point Nos. II and III:** From the material available on the record it is proved that workman was not only absent during the year 1998 but he also did not put in sufficient musters during the years 1996 and 1997, in that case the management was left with no other option but to dismiss the workman Sri M. Suraiah from service, the punishment imposed by the management is adequate and appropriate. It is neither disproportionate nor it can be said to be shocking to the conscience of a reasonable man. I think there is no justification for interference with the punishment imposed by the management, the Petitioner workman does not deserve any sympathy from this tribunal as such, he is not entitled for any relief. Reference is answered in negative. Point Nos. II and III are answered accordingly.

16. From the above discussion, this tribunal is of the definite opinion that the demand of Singareni Collieries Employees Council for reinstatement of Sri Maddela

Suraiah, Badli Filler, KTK-1 and 1A Incline, Bhupalapalli Division into the services of M/s. Singareni Collieries Company Ltd., is not legal and justified. Hence, the workman is not entitled to any relief.

Award passed accordingly. Transmit.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her corrected by me on this the 29th day of February, 2012.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for : Witnesses examined for
the Petitioner the Respondent

-NIL-

-NIL-

Documents marked for the Petitioner

-NIL-

Documents marked for the Respondent

-NIL-

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2012

का.आ. 1637.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रांची के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, नं. 1, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 76, 144, 145/1999) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-4-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-11011/1, 2, 3/99-आई आर (एम)]
जोहन तोपनो, अवर सचिव

New Delhi, the 19th April, 2012

S.O. 1637.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 76, 144, 145/1999) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Dhanbad, now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s Airport Authority of India Ltd. (Ranchi) and their workman, which was received by the Central Government on 18-4-2012.

[No. L-11011/1, 2, 3/99-IR (M)]
JOHAN TOPNO, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference U/s. 10(1)(d)(2A)
of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 76 of 1999

PARTIES:

Employers in relation to the management of
Airport Authority of India Ltd.

AND

Their Workmen

[Ministry's Order No. L-11011/1/99-IR (M) Dt. 14-5-1999]

SCHEDULE

"Whether the demand of S/Shri Mahesh Mahato, Fauda Oraon, Krishna Gope-I, Kishna Gope-II, Harekrishna Prasad, Rajesh Gope, Mahadeo Toppo, Luthar Toppo, and Phagu Lachha, Patras Horo before Airport Authority of India Ltd., Ranchi to regularise them is justified and legal ? If yes, from what date they are entitled to be regularised ?"

Reference No. 144 of 1999

PARTIES:

Employers in relation to the management of
Airport Authority of India Ltd.

AND

Their Workmen

[Ministry's Order No. L-11011/3/99-IR (M) Dt. 8-6-1999]

SCHEDULE

"Whether the demand of S/Shri Nilophar Tirkey, Phoolchand Tiru, Somay Oraon, Matias Topno, Dolman Singh Munda, Joseph Gari, Raj, K. K. Sinha, Janga Baria and Sataarayan Kumar before Airport Authority of India Ltd., Ranchi to regularise them is justified and legal ? If yes, from what date they are entitled to be regularised ?"

Reference No. 145 of 1999

PARTIES:

Employers in relation to the management of
Airport Authority of India Ltd.

AND

Their Workmen

[Ministry's Order No. L-11011/2/99-IR (M) Dt. 8-6-1999]

SCHEDULE

"Whether the demand of S/Shri Y. M. Dang, Paulus Lakra, Mangra Munda, Chanda Kachhan, Dinanath Khalkho, Iliyas Oraon, Pingal Tirkey, Dowiesh Topno, Philmon Tigga and Rajesh Roy before Airport Authority of India Ltd., Ranchi to regularise them is justified and legal ? If yes, from what date they are entitled to be regularised ?"

PRESENT:

Shri H. M. Singh, Presiding Officer

APPEARANCES:

For the Employers : None

For the Workmen : Shri A. K. Pandey,
Authorised Representative

State : Jharkhand

Industry : Airport

Dated, the 21st March, 2012

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour, vide their orders, mentioned above, have referred the above-mentioned disputes for adjudication by this Tribunal.

2. Since the above-mentioned disputes are same on the prayer of both the parties it was ordered on 18-8-2000 that all the cases would be heard analogously. Accordingly, all the above-mentioned reference cases have been heard and a common award is being passed.

3. The case of the concerned workman, as per their written statement, in short, is that they were employed at Civil Aero Drome, Ranchi, through contractor M/s. Bihar Bhoot Pruv Sainik Kalyan Sangh on various dates. M/s. Bihar Bhoot Purva Sainik Kalyan Sangh is a welfare association for the resettlement of ex-servicemen from Army, Navy and Airforce as Security personnels/guards. The Association is also a registered body under Society Regulation Act, 1860 and also with Director General of Resettlement, Ministry of Defence, Govt. of India, New Delhi. Their rates of wages have been revised by DGR time to time but the Air Port Authority inspite of several representations and personal approaches from M/s. B.B.S.K. Sangh for the revision of the wage rates the security personnels, has paid no need to it. M/s. B.B.S.K. Sangh had taken up the issue with the A.L.C. (C), Ranchi, but nothing could be done so far. While the conciliation was going on between the M/s. B.B.S.K. Sangh and the Airport Authority probably it was felt a path of lease resistance by the latter to dispoose with the service of ex-servicemen, and accordingly their services were terminated w.e.f. 1-10-1998. The service of the concerned workmen were terminated after 8 years of continuous service in the Airport, without assigning any reasons, giving any compensation, whatsoever it may be. The termination of the concerned workmen is totally motivated and bad in law. During their deployment in Airport they were exploited to the extent of denial of even weekly off National Holiday, Provident Fund, yearly bonus and minimum wages as applicable on in Bihar Govt. The workman putting in more than 240 days of service is entitled to retrenchment compensation before retrenchment and order of reinstatement is valid.

It has been prayed that the Hon'ble Tribunal be pleased to regularise the service of the concerned workmen as their termination is not justified and legal.

4. The case of the management, in short, is that the concerned workmen were appointed, engaged and employed at all material times by an employer/organisation by the name of M/s. Bihar Bhootpurv Sainik Kalyan Sangh which is registered under the Societies Registration Act of 1860 having its office at Lal Villa, Opposite : Kabristan, Ratu Road, Ranchi and is managed by one Major, V. S. Nair as its President and one Shri Anirudh Singh as its Secretary. By the effect of its registration under the Societies Registration Act, the said Sangh has de facto and de jure a separate legal status, identity and entity. The said Sangh carries on the business or work of entering into agreements or arrangements with several of its customers for the purpose of providing to its customers security arrangements by deployment of men, material and equipments to its customers and in return it charges its customers fees or charges which vary from transaction to transaction. In so far as Airport Authority of India is concerned, it had no control over the workmen in question. It never supervised the work of the workmen concerned in the present case. It never paid any salary to them at any time. It never decided as to who among them would be required to work at which particular spot or for what duration of time. It has been submitted that the workmen concerned in the present case are not the workmen of this management. It has been further stated and submitted that upon expiry of the period of agreement/arrangement between the management and the said Sangh, the entire arrangements as also all transactions between them came to an end in the year 1998. After that other similar organisations like (i) M/s. Tiger Intelligence and Security Agency and (ii) M/s. Uma Construction have been doing the same work and undertaking the same functions under similar arrangements and agreements between them and the Airport Authority of India.

Under the facts and circumstances stated above, it has been prayed that the Hon'ble Tribunal be pleased to answer the reference holding that the workmen concerned in the present case are not entitled to be regularised in the Airport Authority of India and their demand is not justified.

5. Both the parties have filed their respective rejoinders admitting and denying the contents of some of the paragraphs of each other's written statement.

6. The management produced MW-1, Tapan Kumar Mandal, MW-2, A. F. Tigga and proved documents as Exts. M-1 to M-8.

The concerned workmen have produced WW-1, Mahesh Manato, WW-2, Satyanarain Saw and WW-3, Chhatradhari Ram and proved documents as Exts. W-1 to W-4.

7. Main argument advanced on behalf of the concerned workmen that they were working with the management for long time but they have not been regularised by the management.

In this respect the management representative argued that they are not their workmen and their work is not taken by the management. They are workers of the contractor.

In the written statement of the concerned workmen at para 2 they have admitted that they were employed through contractor, M/s. Bihar Bhootpurv Sainik Kalyan Sangh.

It shows that they are workers of the contractor working as security guards, so they are not getting any wages from the management.

Another argument advanced on behalf of the concerned workmen is that their lands had been taken by the management and assurance was given to them that they would be absorbed in due process of law when vacancy will arise, but the management has not done it. There is no document to show that their lands have been acquired by the management so that they can be given employment by the management as and when post will be vacant and they will be given regular job.

Ext. M-1 is agreement with the management and union who were security personnels and attendance is also taken by Bihar Bhootpurv Sainik Kalyan Sangh. Ext. M-3 shows that there is registration of the contractor. Ext. M-4 is for security guidelines. Ext. M-5 is given contract. Ext. M-6 is of termination of security service from 31-8-98. Ext. M-8 is letter of Airport Authority of India regarding publication of notice inviting Tender.

8. In this respect the evidence of the workmen is very material. WW-1, Mahesh Mahato, has stated at page 2, in his cross-examination that I had never been in Arm Force. I do not have the appointment letter. I used to be paid my wages by cash and in the same way other concerned workmen also used to be paid. There was no any date fixed for such payment. No salary or pay slip used to be issued to us. No amount used to be deducted from our salary as against provident fund. Again at page 3 he stated that after the acquisition of the land and having been declared as displaced person never any employment was offered to any of these persons. It shows that what has been stated is against this version. WW-2, Satyanarain Sao, in his cross-examination stated that I was working as Security Guard. Sri B. Kumar Das, Controller of the management had appointed me. I was not given any appointment letter. At present CISF has been deputed for security work of Air Port. WW-3, Chhatradhari Ram, stated in cross-examination that I cannot file my appointment letter. They were not given any appointment letter. I cannot say from which date they were stopped from work. After 1995 SISF has been put under the security of CISF. The statement of the concerned workman shows that the contract work has been terminated by the management on whose behalf Bihar Bhootpurv Sainik Kalyan Sangh was working. Now the management has given security work to CISF and the

security work is done by CISF. No work is done from the contractor security guard by the management.

9. Considering the above facts and circumstances, I hold that the demand of all the concerned workmen, whose names mentioned in the order of Reference Nos. 76/99, 144/99 and 145/99, for their regularisation in the services of Airport Authority of India Ltd., Ranchi is not justified and hence the concerned workmen are not entitled to any relief.

This is my Award.

HARI MANGAL SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2012

का.आ. 1638.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड औरैया, उ.प्र. के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचट (संदर्भ संख्या 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/2005 एवं 2/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-4-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/2005-आई आर (एम)]

एवं

एल-30012/24/2006-आई आर (एम)]

जोहन तोपनो, अवसर सचिव

New Delhi, the 19th April, 2012

S.O. 1638.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/2005 and 2/2007) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Kanpur now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s Gas Authority of India Ltd., Auraiya, U.P. and their workman, which was received by the Central Government on 18-4-2012.

[No. L-30012/42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/2005-IR (M)]

And

L-30012/24/2006-IR (M)]

JOHAN TOPNO, Under Secy.

ANNEXURE

**BEFORE SRI RAM PARKASH, HJS,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL
GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
KANPUR**

Award in the following cases :

1. I.D. No. 39 of 2005 relating to Sri Satish Chandra [L-30012/43/2005-IR (M)] dt. 17-11-2005

2. I.D. No. 2/07 in relation to Vipatti Vinashan [L-30012/24/2006-IR (M)] dt. 18-12-06
3. I.D. No. 40 of 2005 in relation to Kamlesh Babu [L-30012/53/2005-IR (M)] dt. 17-11-05
4. I.D. No. 41 of 2005 in relation to Mahesh Swarup [L-30012/51/2005-IR (M)] dt. 17-11-05
5. I.D. No. 42 of 2005 in relation to Ravi Kant [L-30012/56/2005-IR (M)] dt. 17-11-05
6. I.D. No. 43 of 2005 in relation to Awadhesh Kumar Sharma [L-30012/42/2005-IR (M)] dt. 17-11-05
7. I.D. No. 44 of 2005 in relation to Yogendra Kumar [L-30012/55/2005-IR (M)] dt. 17-11-05
8. I.D. No. 45 of 2005 in relation to Pradeep Kumar [L-30012/54/2005-IR (M)] dt. 17-11-05
9. I.D. No. 46 of 2005 in relation to Arvind Kumar [L-30012/52/2005-IR (M)] dt. 17-11-05
10. I.D. No. 47 of 2005 in relation to Gajraj Singh [L-30012/46/2005-IR (M)] dt. 17-11-05
11. I.D. No. 48 of 2005 in relation to Akhilesh Narain [L-30012/45/2005-IR (M)] dt. 17-11-05
12. I.D. No. 49 of 2005 in relation to Ram Naresh [L-30012/44/2005-IR (M)] dt. 17-11-05
13. I.D. No. 50 of 2005 in relation to Ved Prakash Raizada [L-30012/47/2005-IR (M)] dt. 17-11-05
14. I.D. No. 51 of 2005 in relation to Awadhesh Kumar Tripathi [L-30012/50/2005-IR (M)] dt. 17-11-05
15. I.D. No. 52 of 2005 in relation to Anwar Ali [L-30012/48/2005-IR (M)] dt. 17-11-05

AND

The General Manager,
M/s. Gas Authority of India Limited,
U.P. Petro Chemical Complex,
Pata District Auraiya

AWARD

1. These are the 15 cases, which have been consolidated vide a judicial order on the prayer of both the parties, as the facts as well as the legal positions were same in all the cases. The date of termination is same which is 10-10-2001, in all the above cases, though there is a difference in date of appointment in some of the cases, but it does not make any difference in disposing of the cases altogether. Case No. 39 of 2005 was considered to be a leading cases. In I.D. No. 43 of 2005 and I.D. No. 44 of 2005 evidence of the claimant was adduced in those files but the same evidence which was recorded has now been taken on this file to be read in I.D. No. 39 of 2005 being a leading case. Therefore considering the facts and circumstances, only the reference in I.D. No. 39 of 2005 and the facts of this case are being reproduced, there does not appear to be any necessity of reproducing the facts of each file, as I

have already stated that facts of the claimant are similar in each file.

2. Government of India Mol has sent the following reference or decision.

3. Whether the action of the management of Gail Pata Auraiya in refusing to employ Sri Satish Chandra with effect from 10-10-01 is legal and justified? If not to what relief the concerned workman is entitled to?

4. Brief acts are all the claimants have filed claim statement individually.

5. There was a proposal of Government of India to establish a Petro Chemical Plant at Village Pata in District Auraiya, which was named as U.P. Petro Chemical Pata/Gas Authority of India Limited, (in short Gail). The Government of India vide their notification dated 3-2-1986 has also provided a provision to the effect that the villagers whose land will be acquired for establishing the above project, member of such family will be provided with employment under the opposite party apart from payment of compensation for acquiring their land. This was made effective only after the plant come in operation.

6. It is further alleged that State of U.P. also issued a letter dated 29-2-1996 addressed to Director, Land Acquisition Directorate, where it was mentioned that a member of such family of land losers will be provided with a job under the opposite party. Similarly there was an order dated 15-6-1985 of the State of U.P. to the same effect. On the basis of letter of Senior Manager of the opposite party as well as D.M. Auraiya, letter 11-11-86 and letter of Special Secretary Development dated 22-11-1986, order of the D.M. dated 24-11-86, Tehsildar after inquiry submitted a report, which provide that a member of such loser family will be provided with the job according to his ability.

7. In relation to the land acquired a Case No. 8/10/94 was decided wherein also it was mentioned that a land loser family will be given employment under the opposite party. There arrived a tripartite settlement between the families of land loser, and the management in the presence of District Magistrate, Auraiya which took place on 29-6-98, wherein the above position had been agreed upon. That in compliance with the orders of the Government as also to enforce the agreement, it was proposed by the employer to appoint a member of land losers family who is intermediate pass and on the representations submitted by the claimants, management pasted a list on the notice board who were selected for the post of Supervisor and they were appointed on 15-9-2000. The opposite party from time to time issued temporary gate pass in favour of the applicant to enter into the premises of the opposite party, the pass was issued by CISF.

8. Even after the appointment when the claimant demanded salary and wages according to the regular employees, the management tried to convert these applicant to be contractor employees, which was agitated by these

applicants, getting aggrieved the management did not permit them to enter into the premises on 10-10-2001 by the security guards of the premises and terminated their services orally, so that the applicants could not claim their legitimate demands.

9. It is significant to mention here that the claimants have filed all the relevant documents along with their statement of claim.

10. Therefore, it has been claimed that the action of the opposite party as demonstrated above is wholly illegal and unjustified.

11. It is again reiterated that they were working under the direct supervision and control of the opposite party. Work which was being taken from them was of perennial nature. After the termination of the services of these applicants all of them have submitted joint representation before the ALC(C) Kanpur with regard to their illegal termination of service.

12. Therefore, it is prayed by the claimant that action of the management in restraining them to be taken on job with effect from 10-10-2001, be declared illegal and they be treated to be in continuous employment with arrear of back wages and all consequential benefits.

13. The opposite party has filed their reply on the maintainability of the claim petition as well as on merits refuting the claim of the applicants.

14. It is stated that Gail is a Public Sector Enterprises under the aegis of Ministry of Petroleum Government of India and registered as a Company under the Company's Act 1956. It has set up a Petrochemical Plant at Pata District Auraiya, this plant is of highly sensitive nature. It is also an industry of great importance to the nation. With a view to protect the plant from any insurgent type activities and for purpose of safety specialized security namely CISF has been deployed by the Ministry of Home Affairs, Govt. The entry into the plant premises is regulated and controlled by CISF.

15. It is stated that for setting up the said plant, in consonance of the decision of the Government of India, U.P. Government had acquired land under the Land Acquisition Act. All the land losers including the so called workmen concern had already been paid compensation by the State Government as per the award of the Special Land Acquisition Officer, Etawah. Further the employer had also paid adequate compensation to the home losers or their rehabilitation on the basis of recommendation of a committee. It is stated that the notice of Department of Public Enterprises dated 3-2-86 clearly provides that over manning has to be guarded against an any understanding formal or informal in regard to offer of employment to one member of every dispossessed family in project will stand with drawn. There is no obligation of the employer to provide any employment to any member of such family in consequence of acquisition of the land when the

compensation has already been paid. There is no provision under said statute to provide job to the land losers. The Enterprise being the Unit of Government of India the recruitment is carried out as per the recruitment rules or the policy after notifying the vacancies to the employment exchange or to the press etc. The decision taken in the meeting dated 29-6-98 is not binding to provide direct employment to the land losers. Any instruction issued by the State Government is not applicable to a Central Public Sector Enterprise like Gail. The so called applicants were never engaged by the Gail, there never existed any relationship of master and servant between the opposite party and the so called applicants, and they were engaged by a co-operative called GKVSSL and the said co-operative was controlling the so called applicants. Gail has outsourced and contracted out certain activities of peripheral nature to contractor as a step towards providing indirect employment opportunities to the local populace. The outsource activities includes upkeep and maintenance of horticulture work in plant and township. The contractors had engaged some of the land losers to accomplish the aforesaid jobs. These land losers have been engaging in Dharna agitation demanding employment since long but the situation worsened when the land losers employed through the contractors launched Dharna in July, 2001 demanding employment through Gail Karmchhari Vetan Bhogi Sahkari Samiti. The said Samiti is a co-operative society formed by Gail employees and is registered as a thrift and credit society. Gail is not providing any financial support to this society. Gail has no control over the activities of the society. These land losers continued to resort to agitation and on several occasions re-sorted to violence by attacking to Gail Employees and also created a sense of insecurity amongst the employees. On account of continued hostile attitude of the land losers the said society informed that they would no more provide horticulture and a forestation services and the said society discontinued the job of upkeep and maintenance awarded to the society with effect from 31-10-2001. The attendance of these so called applicants was maintained by the society and payment made to them was by the society. Gail authority had no role to play. Gail authority had not published any notice dated 1-12-2000. No temporary gate passes has been issued to the so called applicants by the employer. When the claimants were never engaged or employed question of termination of their services does not arise. They were not the workmen directly employed under the opposite party and they have also alleged that when they were never in the employment of the opposite party question of termination of their services with effect from 10-10-2001 does not arise.

16. No rejoinder has been filed by each of the applicant.

17. Both the parties have filed oral as well as documentary evidence.

18. Claimants have filed their documents with their claim statement. Opposite party has filed the documents vide list dated 20-11-07.

19. Claimants have produced in oral evidence as witnesses viz. Akhilesh Narain Dubey as W.W. 1, Mahesh Swarup as W.W. 2, and a witness Yogendra Kumar which was in File No. 44 of 2005 and a witness Awadhesh Kumar in I.D. No. 43 of 2005.

20. Opposite party has produced two witnesses. Sri K. P. Yadav has been produced as M.W. 1 who is Deputy Manager and Sri Vishnu Prasad Panda is M.W. 2 who is an Officer in the HR Department.

21. Both the parties have produced documentary evidence also.

22. I have examined the relevancy of each and every document and considered the oral evidence.

23. The short question in this case to be decided is—

24. Whether the claimants/workman have been appointed by the opposite party directly and they had worked under their supervision and control.

25. I have examined the oral evidence adduced by all the claimants. They have stated that they have been appointed directly by the opposite party. They have placed reliance on the photocopies paper 4/21-22 and Gate Pass Paper No. 4/23. Whereas both the witnesses M.W. 1 and M.W. 2 who are officer in the opposite party department have specifically stated that these claimants have been appointed employed or engaged directly by the opposite party. They have never worked under their supervision and control. They had never been paid a single penny from the exchequer of the Gail Authority, there is no relationship of master and servants, and they have never been issued any appointment letter. They have said that the papers 4/21 and 4/22 are photocopies and they do not bear any signature or stamp of the opposite party department. The list Paper No. 4/22 does not carry any weight. It is stated that it is not an authentic. Claimants have claimed that before appointment they have undergone a written test also conducted by the opposite party. I have examined all these aspect. In my view there is no appointment letter, there is no record of any written test or oral test whereas opposite party has specifically stated that it being public enterprise, and they have got their own prescribed procedure for recruitment of post on any cadre. No such test was held. The Paper No. 4/21-22 are photocopies. It cannot be termed authentic particularly in the case of appointment. Even the claimants did not put such arguments or the evidence that the original of these documents are in the custody of the opposite party. They did not try to summon the documents if those were in the custody of the opposite party. There is no evidence of any salary or payment of wages. There is no attendance register. Opposite party has filed the attendance register of all the employees. They have also filed the text cards of the

employees which are Exhibit E-1 and E-2 Attendance register is Exhibit E-3 and E-4.

26. It is also specifically stated by the opposite party witnesses that all those employees who are working in the Gail have been issued Identity Card. It is also stated that for the security and safety of the plant and the employees CISF have been employed and they issued the gate passes to the persons who want to seek the entry for the purpose or work. Photocopies of the gate passes filed by the claimant like Paper No. 4/23 are issued by CISF as a gate pass it is not an Identity Card.

27. It has been specifically stated that CISF does not issue any pass to the employee of the Gail.

28. It was stated by the opposite party that Gail has out sourced certain activities of peripheral nature to the contractor as a step towards providing in direct employment opportunity to the local populace. These activities include maintenance of horticulture work in plant and township. The contractor concerned had engaged some of the land losers including the alleged workman to accomplish for the said job. But the situation worsens when the land losers employed through contractor launched agitation in July, 2001 demanding employment through Gail Karamchari Vetan Bhogi Sahkari Samiti. The said Samiti is a co-operative formed by Gail employees and registered as thrift a credit society. Gail has not provided any financial support to this society. On the behest of District Administration only Gail agreed to request society (supra) to accept the job/contracts for upkeep and maintenance of horticulture work. They agreed to initially to take up the job for three months and accordingly the said Samiti was awarded a contract for three months but the land losers continued to resort to agitation and resorted to violence several times and a sense of insecurity amongst the employees of Gail Pata was created. Under these circumstances the said Samiti informed that they would do no more horticulture services etc. and such refused to seek any extension thereof.

29. I have thoroughly examined the authenticity of these documents viz. 4/21, 4/22, and 4/23. It does not give any inference that the list Paper No. 4/22 is a part of Paper No. 4/21 and these are the persons who have been appointed. No cognizance of these documents can be taken on judicial side. Initially the burden lies on claimant side to prove that they have been appointed and completed 240 days or more preceding the date of their termination on 10-10-2001.

30. Opposite party has placed reliance upon a number of decision – 2005 LLR (1) SC in between MP Electricity Board Versus Hari Ram Page 1. In this case the Hon'ble Court held that in the absence of documentary proof about working of a workman pertaining to a particular period the initial burden of proof to establish that the workman had worked continuously for 240 days will rest upon the workman and not upon the management.

31. The contention raised by the workman that they were the land losers and in lieu of that the opposite party had appointed them also does not find any force.

32. Therefore considering all the facts and circumstances of the present case and the law laid down by the Hon'ble Apex Court I am of the view that the claimants have failed to establish and prove that they had been directly appointed/employed or engaged by the opposite party on the post of Supervisor in the Horticulture Department. It has been found that they did not work directly under the supervision and control of the opposite party for a single day.

33. It has also been contended that they being the victim because their land has been acquired so they should be employed by the opposite party and they have been employed due to being land losers. I have already held that the opposite party has not employed them directly being a land loser. Opposite party has also specifically stated that the circulars or the orders of the state government which are issued from time to time like letter dated 29-2-96 Paper No. 4/9 and letter dated 25-6-85 Paper No. 4/11-15 are of State Government. These circulars are not binding on Central Government or its Public Sector Undertakings. It is contended by the opposite party that the land was acquired for the public purpose by the State Government under Land Acquisition Act, 1984 and the land losers have been paid due compensation, so these circulars do not have any binding effect on the opposite party even though it may contain a proviso that one family member of land losers will be provided with job by the opposite party.

34. It is argued by the opposite party that when they are not the employee of the opposite party, they do not fall under the definition of workman and it does not become an industrial dispute. It is stated that before a dispute could be said to be a dispute between the employers and a workman a relationship of employers and workmen should be established between the parties. Opposite party has place reliance upon a decision of Madras High Court reported in 1 LLJ in between Workers of Sagar Talkies Versus Odeon Cinema Madras and Others on the issue that the present dispute is not an Industrial Dispute under the provisions of I.D. Act.

35. Having concluded on the basis of above observations that there never existed any relationship of master and servant between the opposite party and the claimants, the present dispute is not an industrial dispute within the term "Industrial Dispute" as defined under Section 2(k) of the Act and that the claimants have failed to prove that they have completed 240 days preceding 12 calendar months from the date of termination, therefore their claim fails and the reference is decided against the claimants and in favour of the opposite party.

36. Reference is decided accordingly.

RAM PARKASH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2012

का.आ. 1639.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस.सी.सी.एल के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, हैदराबाद के पंचाट (एलसीआईडी संख्या 16/2010) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-4-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22013/1/2012-आई आर (सी-II)]

डॉ. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th April, 2012

S.O.1639.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Complant No. 16/2010) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of SCCL and their workman, which was received by the Central Government on 19-4-2012.

[No. L-22013/1/2012-IR (C-II)]

D. S. S. SRINIVASARAO, Desk Officer

ANNEXURE**IN THE LOK ADALAT**

(For settlement of cases relating to CGIT-cum-Labour Court at Hyderabad Under Section 20 of the Legal Services Authorities Act, 1987)

the 17th day of March, Two thousand and Twelve

PRESENT:

1. Sri Ved Prakash Gaur : Presiding Officer

2. Sri C.Niranjan Rao : Member

3. Sri : Member

(Constituted U/s 19 of the LSA Act, 1987 by the APSLSA Order ROC No.186/LSA/2006 dt. 22-8-2006)

In the matter of case No. LCID No.16 of 2010/
PLAC No. 7/2012(On the file of CGIT-cum-Labour Court at
Hyderabad)**Between:**

Md.Hameed (EC No.2087846), S/o Chotemiya,
Aged about 40 years, Ex-Coal Filler, MK-4 Incline,
Singareni Collieries Company Ltd., Mandamarri Area,
Mandamarri, Adilabad District ... PETITIONER

AND

1.The Singareni Collieries Company Ltd.,
Rep. by its General Manager,
Mandamarri Area, Mandamarri,
Adilabad Dist.

2. The Dy.General Manager,
Singareni Collieries Company Ltd.,
MK-4 Incline, Mandamarri Area,
Mandamarri, Adilabad District. ... RESPONDENTS

This case is coming up before the Lok Adalat on 17-03-2012 for settlement in the presence of the applicant appearing in person/represented by his counsel Sri K. Vasudeva Reddy and the Respondent too, being present in person/represented by his counsel, Sri P. A. V. V. S. Sarma on a perusal of the case record, after considering and hearing the case of both sides and with the consent of both side, the Lok Adalat has arrived at the following settlement and delivered the following:

AWARD UNDER SECTION 21 OF THE L.S.A. ACT, 1987

The petitioner had agreed to the following proposals of the Management, as the petitioner had put in 100 musters in the two years of the preceding 5 years of dismissal and raised the dispute within three years from the date of dismissal from service. The contents are read over and explained to the petitioner in his language and agreed by him by signing the same.

a. The petitioner workman agreed to treat his appointment as fresh appointment as Badli Filler without back wages and continuity of service subject to medical fitness by Company Medical Board.

b. Irrespective of past designations, petitioner workman agrees to the appointment as Badli Filler afresh on Coal filling, wherever coal filling is available and need not be the same place where the workmen was last employed.

c. The petitioner workman agrees for observation of one year with minimum mandatory 20 musters every month and review every three months on coal filling only is absolutely essential. In the event of any short fall of attendance during the 3 months period, his services will be terminated without any further notice and enquiry.

d. Respondent Management agreed that any forced absenteeism on account of mine accidents/natural disease, treatment taken at Company's Hospitals will be deemed as attendance during the trial period.

e. All other usual terms and conditions of appointment will be applicable i.e., transfer, hours of work, day of rest, holidays etc., for appointment afresh.

This LCID is disposed of accordingly. The respondent management is directed to take him back to duty as Badli Filler afresh wherever coal filling is available.

In agreement of the above, the parties/counsel have affixed their signatures/thumb impressions in the

presence of the members of this Lok Adalat Bench.

Sd./-

Signature of Applicant (s)

Sd./-

Signature of Respondent (s)

Sd./-

Signature of Counsel for Applicant (s)

Sd./-

Signature of Counsel for Respondent (s)

Signature of Presiding Officer & Members of the Bench

1. Ved Prakash Gaur, Chairman

2. C.Niranjana Rao : Member

Note: This award is final and binding on all the parties and no appeal shall lie to any court as per Section 21(2) of LSA. ACT 1987.

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2012

का.आ. 1640.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स इडियन रेयर अर्थ लिमिटेड केरल के प्रबंधन के संबंध में निदेशित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/भ्रम न्यायालय, इर्नाकुलम के पंचाट (संदर्भ संख्या 32/2009) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-4-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29011/6/2009-आई आर(एम)]

जोहन तोपनो, अवर सचिव

New Delhi, the 19th April, 2012

S.O. 1640.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 32/2009) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Ernakulam now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s Indian Rare Earths Ltd. (Kerala) and their workmen, which was received by the Central Government on 4-4-2012.

[No. L-29011/6/2009-IR (M)]

JOHAN TOPNO, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, ERNAKULAM

Present: Shri D. Sreevallabhan, B.Sc., LL B.,
Presiding Officer

(Wednesday the 29th day of February, 2012/ 16th
Phalguna, 1933)

I.D.32/2009

Union

The General Secretary,
Kerala Minerals Employees Congress,
Chavara P.O., Distt. Quilon,
Chavara (Kerala).

By Adv. Shri. T.C.Krishna.

Managements:

1. The Secretary,
IRE Bagging Contract Workers -
Welfare Forum,
Karithura Chavara P.O. Distt. Kollam (Kerala).

2. The Head,
Indian Rare Earths Limited,
Chavara P.O., Distt. Kollam,
Kollam (Kerala) - 691 583.

By M/s.Menon & Pai.

This case coming up for final hearing on 29-02-2012 and this Tribunal-cum-Labour Court on the same day passed the following:

AWARD

In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section(2A) of S.10 of the Industrial Disputes Act, 1947 the Central Government / Ministry of Labour by Order No. L-29011/6/2009-IR(M) dated 3-9-2009 referred the following industrial dispute for adjudication to this tribunal:

"Whether the action of the management of IRE Bagging Contract Workers Welfare Forum, Chavara in denying employment to the 10 employees belonging to the Kerala Minerals Employees Congress, Chavara is justified? To what relief these workers are entitled to?"

2. Union is the Kerala Minerals Employees Congress, Chavara P.O., Kollam represented by its General Secretary. First management is the IRE Bagging Contract Workers Welfare Forum, Kollam (hereinafter referred to as the Forum) and 2nd management is the Head, Indian Rare Earths Limited, Chavara P.O., Kollam. After service of summons union and the 2nd management entered appearance. But the first management did not appear and participate in the proceedings.

3. As the union remained absent without any representation on 1-12-2009 when the case stood posted for filing claim statement an award was passed by my learned predecessor in office to the effect that the action of the management in denying employment to 10 employees is legal and justified and the employees are not entitled for any relief. The award was set aside with a direction to take up the ID and try the same afresh after affording an opportunity to file claim statement and to adduce evidence as per the order dated 16-02-2010 in WP(C) No.4038 of 2010 (D) of the Hon'ble High Court of Kerala.

4. In obedience to that order the ID was taken on file and posted for filing claim statement. Union filed claim statement with a prayer for reinstatement of the 10 workers with full back wages, continuity of service and all other consequential benefits. The allegations, in brief, are that those 10 workers were working for more than 10 years continuously in the bagging section of the IRE Limited, Chavara. The work in the bagging section was initially carried out through different contractors. Later the entire work was directly carried out by the company by constituting a Forum by name "IRE Bagging Contract Workers Welfare Forum" and it was under the control and supervision of the company itself. 20 workers including those 10 workers were denied employment from 1-10-2008 without giving any notice. On enquiry they came to know that they were deemed to have been retired from service under a severance package on the basis of a settlement signed on 19-5-2008 and a subsequent settlement signed on 29-9-2008 between the 2nd management and some of the unions. The union representing those workers was not a party to those settlements. Those workers had not given any consent or option for retirement under the severance package scheme. They were given a notice by the Forum much subsequent to the termination for accepting terminal benefits. Immediately after the receipt of the notice those workers submitted their objection and requested the 2nd management to allow them to join duty. The 2nd management refused to reinstate the workers and informed that the workers were severed from service on the basis of those two settlements. The action of the 2nd management terminating them on the basis of those settlements is illegal and is against the provisions in the Industrial Disputes Act, 1947. The rights conferred upon the workers under that statute cannot be taken away by any settlement and the action of the 2nd management amounts to unfair labour practice and victimization.

5. 2nd management filed written statement contending that the union never represented any of the bagging contract workers at any stage and it has no locus standi to represent any of those workers. The bagging contract workers were represented through out by other unions who had entered into several settlements with the management of IRE Bagging Contract Workers Welfare Forum. The issue referred for adjudication is covered by the conciliation settlement dated 9-9-2002 by which a severance package was agreed for bagging and shipping contract workers, who were to be severed in terms of that settlement. Pursuant to the settlement dated 19-5-2008 entered into by the management of the Forum and the unions as well as the agreement dated 29-9-2008 it was decided to sever 20 bagging contract workers from service on payment of severance compensation. Majority of them accepted the settlement and received severance compensation as full and final settlement of their claims. Since all the issues were discussed and settled with the

two unions representing the workers there exists no industrial dispute. There was no challenge by any union as to the settlement or the agreement before any authority. The 10 workers were not employed by the IREL management at any point of time and hence the 2nd management is not a necessary party to this reference. Those 10 workers were employed by independent contractors for bagging and shipment of minerals and also by the bagging contractors. Their service with the contractors was seasonal and casual and it was never continuous. The Forum is not a creation of the management and it is an independent entity as it was formed and registered under the Travancore Cochin Literary Scientific and Charitable Societies Act, 1955. As the issue is covered by valid and proper settlements dated 19-5-2008 and 29-9-2008 and those are binding on those workmen the dispute raised by the union is not maintainable and hence they are not entitled for any relief.

6. No evidence, either oral or documentary, was adduced from both sides.

7. At the time when the case stood posted for hearing learned counsel for the union reported no instructions and filed a memo to that effect. Learned counsel for the management has submitted that there is no evidence in this case to prove that there exists any industrial dispute and that the action of the management can be held to be legal and justifiable.

8. The only point that arises for consideration is:

Whether the action of the management of IRE Bagging Contract Workers Welfare Forum, Chavara in denying employment to the 10 workers of the union in this case is justified?

9. The question to be decided is whether the action of the management of the Forum in denying employment to the 10 employees belonging to the union is justified. In the claim statement union has got a specific case that the Forum was constituted by the 2nd management to carry out the entire work in the bagging section and it is under the control and supervision of the 2nd management. But the 2nd management would contend that the Forum is an independent entity and has no connection with the 2nd management. According to the management the union has no locus standi to represent the 10 workers as it never represented any of the bagging contract workers at any stage.

10. The prayer in the claim statement is to direct the 2nd management to reinstate the 10 workers who were denied employment. For the purpose of granting such a relief the union has to adduce evidence to substantiate the allegations in the petition in view of the contentions raised by the 2nd management in the written statement. First of

all it is to be proved that the union has got the right to represent the bagging contract workers. There is absolutely no evidence in this case to prove the same. It was necessary to adduce evidence by the union to satisfy that the action of the management in denying the employment to the 10 workers is not justifiable. The failure of the union to adduce evidence to substantiate the case put forward in the claim statement disentitles to get any relief. There is nothing on record to satisfy that the denial of employment to the 10 workers by the Forum is not legal. Hence it can only be held that the action of the management of the Forum denying employment to the 10 employees is justified and hence they are not entitled to any relief.

In the result an award is passed to the effect that the action of the management IRE Bagging Contract Workers Welfare Forum, Chavara in denying employment to the 10 employees belonging to the Kerala Minerals Employees Congress, Chavara is justified and they are not entitled to any relief.

The award will come into force one month after its publication in the official gazette.

D. SREEVALLABHAN, Presiding Officer

APPENDIX

Witness for the Union	-	Nil.
Witness for the Managements	-	Nil.
Exhibit for the Union	-	Nil.
Exhibit for the Managements	-	Nil.

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2012

का.आ. 1641.— केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो, जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उप-खण्ड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. दिनांक 20-10-2011 द्वारा बैंकिंग उद्योग जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 2 में शामिल है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों, के लिए दिनांक 20-10-2011 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उप-खण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 20-04-2012 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं. एस-11017/5/97-आई आर(पी एल)]

चन्द्र प्रकाश, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 20th April, 2012

S.O. 1641.— Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment dated 20-10-2011 the service in Banking Industry which is covered by item 2 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 20th. October, 2011.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, for a period of six months with effect from the 20th April, 2012.

[No. S.-11017/5/97-IR(PL)]

CHANDRA PRAKASH, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2012

का.आ. 1642.— केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो, जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उप-खण्ड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. दिनांक 20-10-2011 द्वारा युरेनियम उद्योग जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 19 में शामिल है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों, के लिए दिनांक 11-11-2011 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उप-खण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 11-5-2012 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं. एस-11017/9/97-आई आर (पी एल)]

चन्द्र प्रकाश, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 20th April, 2012

S.O. 1642.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires

that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment dated 20-10-2011 the services in Uranium Industry which is covered by item 19 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 11th November, 2011.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 11th May, 2012.

[No. S-11017/9/97-IR(PL)]
CHANDRA PRAKASH, Jt. Secy.